

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

क्रम संख्या

१३४२

काल नं०

२५.११

२५।

खण्ड





# सत्यार्थप्रकाशः

वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणासमन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्य श्रीमह्या-

नन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

सर्वधाराजनियमे नियोजितः

अजमेरनगरे

वैदिकग्रन्थालये मुद्रितः

श्री. सुब्रह्मणी २५५ वि० अ. तालप  
Re. 1-1111  
मिडल एडिशन १९०८ ५९३३३ ११११११  
पद्यवासा  
५०००



• ओ ३ म

# अथ सत्यार्थ प्रकाशः ॥

वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणैः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्य श्रीमह-  
यानन्दसरस्वती

स्वामिविरचितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

अजमेरनगरे

वैदिकग्रन्थालये मुद्रितः

संवत् १९५६ वि०

Registered under Sections 18 & 19 of Act XXV of 1867

पष्ठवारम् ५०००

मूल्यम् २)



अथ सत्यार्थप्रकाशस्य मूर्चापत्रम् ।

विषयाः	पृष्ठन.—पृष्ठम	विषयाः	पृष्ठन.—पृष्ठम
भूमिका	१ - ७	पठनपाठनविशेषविधि.	६४-६६
<b>१ समुल्लासः</b>		अन्धप्रामाग्याप्रामाग्यवि०...	६६-७२
ईश्वरनामव्याख्या	१-२०	स्त्रीशूद्राद्ययनविधिः	७२-७५
मङ्गलाचरणसमीक्षा	२१-२२	<b>४ समुल्लासः</b>	
<b>२ समुल्लासः</b>		समावर्तनविषय.	७६
वाग्निहोत्रविषय.	२३-२५	दूरदेश विवाहकरणम्	७७
भूतप्रेतनिषेधः	२५-२६	विवाहे स्त्रीपुरुषपरीक्षा	७८
जन्मपत्रमृत्यादिग्रहसमीक्षा	२७-३१	अल्पवयसि विवाहनिषेधः	७९-८०
<b>३ समुल्लासः</b>		गुणकर्मीनुसारणवर्गाद्यवस्था	८४-८०
अध्ययनाऽध्यापनविषयः	३२-७५	विवाहलक्षणानि	८१
गुरुमन्त्रव्याख्या	३२-३५	स्त्रीगुरुष्वयवहारः	८२-८६
प्राणायामशिक्षा	—३६	परुचमहायज्ञाः	८७-१०१
सन्ध्याग्निहोत्रोपदेशः	—३७	पाम्बगिडतिरस्कार.	१०२
यज्ञपात्राकृतयः	—३७	प्रातरुथानादियर्षकृत्यम्	१०३-१०४
होमफलनिर्णयः	—३८	पाम्बगिडलक्षणानि	१०५
उपनयनसमीक्षा	—३९	ग्रहस्थधर्माः	१०६-१०८
ब्रह्मचर्योपदेशः	—४०	पण्डित लक्षणानि	१०८-११०
ब्रह्मचर्यकृत्यवर्गनम्	४१-४३	मूर्खलक्षणानि	११०
पञ्चधापरीक्ष्याध्यापनम्	४१-६४	विद्यार्थिकृत्यवर्गनम्	१११-११२



सन्यार्थप्रकाशः ॥

विषयाः	प्रपुस्तः—पृष्ठम्
आह्निकनियोगविषयः	... ११२ १२२
श्रमश्रेष्ठ्यम्	... —१२३
<b>५ समुल्लामः</b>	
वानप्रस्थाश्रमविधिः	... १२४ १२५
सन्यासाश्रमविधिः	... १२६-१३०
<b>६ समुल्लामः</b>	
राजधर्मविषयः	... १३१-१३२
समात्रयकथनम्	... १३३
राजलक्षणानि	... १३४ १३५
दण्डव्याख्या	... १३६-१३७
राजकर्तव्यम्	... १३८
अष्टादशव्यसनिनिषेधः	... १३९-१४०
मन्त्रिदूतादिराजपुरुषलक्षणानि	१४० १४१
मन्त्र्यादिपुकार्यनियोगः	... १४२
दुर्गनिर्माणव्याख्या	... १४३
पुद्गलकरणप्रकारः	... १४४
राज्यप्रजारक्षणविधिः	... १४५
ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम्	... १४६-१४७
करग्रहणप्रकारः	... १४८
मन्त्रकरणप्रकारः	... १४९
आसनादिपाङ्गुगयव्याख्या	... १५०
राज्ञो मित्रोदासीतशत्रुषु वर्तनम् शत्रुभिर्युद्ध	... १५१-१५२
करणप्रकारश्च	... १५३-१५४
व्यापारादिषु राजभागकथनम्	... १५५
अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेषु न्याय	... १५६-१५७
करणम्	... १५८ १५९
सात्त्विककर्तव्योपदेशः	... १६० १६१
साक्ष्यान्वृते दण्डविधिः	... १६२ १६३

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
चौर्यादिषु दण्डादिव्याख्या	१७७ १८२
<b>७ समुल्लामः</b>	
ईश्वरविषयः	... १८२-१८३
ईश्वरविषय प्रश्नोत्तराणि	१८२-१८७
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः	१८७-१८८
ईश्वरज्ञानप्रकारः	... १८९
ईश्वरभक्त्यात्मित्वम्	... १९० १९१
ईश्वरावतारनिषेधः	... १९२-१९३
जीवस्य स्वातन्त्र्यम्	... १९४
जीवेश्वरयोर्भक्तत्ववर्णनम्	... २०० २०१
ईश्वरस्य सगुणनिर्गुणकथनम्	२०१
वेदविषयविचारः	... २०२-२०३
<b>८ समुल्लामः</b>	
सृष्ट्युत्पत्त्यादिविषयः	... २०४ २०५
ईश्वरभिलाषाः प्रकृतेरुपाः	...
दानकारणत्वम्	... २०६
सृष्टौ नास्तिकमतनिर्गणनम्	२०६-२०७
मनुष्यागामादिमृष्टेः	...
स्थानादिनिर्णयः	... २०८ २०९
आर्यस्लेच्छादिव्याख्या	२१०-२११
ईश्वरस्य जगदाधारत्वम्	... २१२-२१३
<b>९ समुल्लामः</b>	
विद्याविद्याविषयः	... २१४-२१५
बन्धमोक्षविषयः	... २१६
<b>१० समुल्लामः</b>	
आचाराऽनाचाराविषयः	... २१७-२१८
भक्त्याऽभक्त्याविषयः	... २१९-२२०

॥ इति पर्वार्द्धः ॥

## उत्तरार्द्धः

विषयः	पृष्ठतः—पृष्ठम
<b>११ समुल्लासः</b>	
अनुभूमिका	२८६-२८७
प्रार्थ्यावर्त्तदेशीयमतमन्तरखगडनमगडन	
विषयः	२८८-२८९
तन्त्रादिसिद्धिनिगकरणम्	२९०-२९५
भगमार्गनिराकरणम्	२९५-३०१
द्वैतवादसमीक्षा	३०२-३१३
मम्मरुद्राक्षतिलकादिस०	३१४-३१८
वैष्णवमतसमीक्षा	३१९-३२४
संपूजासमीक्षा	३२५-३३०
विद्यायतनपूजासमीक्षा	३३१-३३३
सूत	
ध्याश्राद्धसमीक्षा	३३४
जगन्नाथतीर्थसमीक्षा	३३५-३३६
रामेश्वरसमीक्षा	३३७-३३७
कालियाकन्तसोमनाथादि	
समीक्षा	३३७-३३८
रेकाज्वालामुखीसमीक्षा	३३९
द्वारवदरीनाथ्यादिसमीक्षा	३४०
विष्णु	
विष्णुसमीक्षा	३४०-३४१
विष्णु	
विष्णुसमीक्षा	३४२-३४३
विष्णु	
विष्णुसमीक्षा	३४४
विष्णु	
विष्णुसमीक्षा	३४५-३४७
विष्णु	
विष्णुसमीक्षा	३४८
विष्णु	
विष्णुसमीक्षा	३४९-३५६

विषयः	पृष्ठतः—पृष्ठम
सूर्यादिग्रहपूजासमीक्षा	३५६-३५८
श्रीध्वदिहिकदानादिस०	३५९-३६४
शुक्रादश्यादिव्रतदानादि	
समीक्षा	३६५-३६८
मारगमोहनोच्चाटनवाममार्गसमीक्षा	३६९
शैवमतसमीक्षा	३७०-३७१
शाक्तवैष्णवमतसमीक्षा	३७२-३७५
कवीरपन्थसमीक्षा	३७६
नानकपन्थसमीक्षा	३७७-३७९
दादृगमन्नेह्यादिपन्थसमीक्षा	३८०-३८२
गोकुलिंगोस्वामिमत्स०	३८३-३८०
स्वामिनारायणमतसमी०	३८१-३८५
माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रार्थना	
समाजादिसमीक्षा	३८९-४०२
अर्यसमाजविषयः	४०३
तन्त्रादिविषयकप्रश्नोत्तराणि	४०३-४०८
ब्रह्मचारिसन्यासिममी०	४०९-४१३
आर्यावर्त्तियराजवंशावली	४१४-४१८

## १२ समुल्लासः

अनुभूमिका	४१९-४२०
नास्तिकमतसमीक्षा	४२१
चारवाकमतसमीक्षा	४२१-४२७
चारवाकादिनास्तिकमताः	४२७-४२८

बौद्धसांगतमनसमीक्षा	४३२—४३४	कुरुचीनमतसमीक्षा ...	४३२—५
सप्तभङ्गाभ्याह्वार्त्ता	४३५—४३६	लयव्यवस्थापुस्तकम्	५१४—५
जैनबौद्धयोरैक्यम्	४३७—४४०	गरानापुस्तकम्	५१७
आस्तिकनास्तिकसंवादः	४४१—४४४	समुल्लास्यस्य द्वितीय पुस्तकम्	५
जगतोऽनादित्वसमीक्षा	४४५—४४७	राज्ञां पुस्तकम्	५१८
जैनमते भूमिपरिमाणम्	४४८—४४९	कालवृत्तस्य १ पुस्तकम्	५१९
जीवादन्त्यस्य जड़त्वं पुद्गलानां पापं		प्रेयुषाख्यस्य पुस्तकम्	५१९
प्रयोजनकत्वं च	४५०—४५१	उपदेशस्य पुस्तकम्	५२०
जैनधर्मप्रशंसादिसमीक्षा	४५२—४५१	मन्तीरचितं, इञ्जीलाख्यम्	५२०
जैनमतमुक्तिसमीक्षा	४५२	मार्काचितं इञ्जीलाख्यम्	५२६
जैनसाधुलक्षणसमीक्षा	४५३—४८०	लुकरचितं इञ्जीलाख्यम्	५३६
जैनतीर्थङ्कर(२४)व्याख्या	४८१—४८३	याहनरचितमुसमाचार	५३६
जैनमते जम्बूद्वीपादिवि०	४८४—४८६	याहनप्रकाशितवाक्यम्	५२८
<b>१३ समुल्लासः</b>		<b>१४ समुल्लासः</b>	
अनुभूमिका	४९०—४९१	अनुभूमिका	५५१
		यवनमतकुरानाख्यसमीक्षा	५५३—६२०
		स्वमन्तव्यामन्तव्यविषय	६२३—६३८

## पांचवीं आवृत्ति की भूमिका ॥

यह आवृत्ति प्रथम सम्मेलन से १२ वें सम्मेलन के अन्त तक  
लेखी प्रतियों से मिलाई गई है ( १ ) लिखी हुई दोनों अस्  
के कापियों ( २ ) दूसरी, तीसरी और चौथी बार की छपी का  
यां इसके अतिरिक्त भूतपूर्व श्रीयुत पण्डित लेखरामजी आर्य  
नुभाकर उपदेशक आर्यप्रतिनिधिसभा पंजाब और लाला आत्मा  
आर्यजी पूर्वमन्त्री आर्य प्रतिनिधिसभा पंजाब ने जो कृपा करके छा  
विआदि की भूल चूक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सूची  
थी उन सब को सामने रख आवश्यकतानुसार बहुत विचार  
पश्चात् इसमें उचित शुद्धियां की गई हैं एकत्र विषय में बा  
के सामाजिक विद्वानों से भी सम्मति ली गई है यह बड़ा क  
न काम था तो भी जितना समय मिल सका उतना इसमें श्रम  
केया शुद्ध और उत्तम छापने की भी बहुत कोशिश की गई है  
फिर भी छापने वालों की असावधानी से अशुद्धियां रह गई हैं उनका  
एक शुद्धाशुद्ध पत्र दे दिया है फिर भी कहीं कुछ अशुद्धि रह गई हो  
तो पाठक क्षमा करेंगे और कृपाकर सूचना देंगे

अजमेर ता० २४ नम्बर १९६७

शिवप्रसाद

मंत्री प्रबंधकर्तृ सभा

वैदिक यन्त्रालय





श्री ३५

सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥

## भूमिका ॥

जिम समय मैंने यह ग्रन्थ "सत्यार्थपकाश" बनाया था उस समय और उस से पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि पर गुजगती होने के कारण से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इस के भेद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हां जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल रोध कर ठीक २ कर दी गई है ॥

यह ग्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है। इसमें १० दश समुल्लास पूर्वार्द्ध और ४ चार उत्तरार्द्ध में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥

प्रथम समुल्लास में ईश्वर के अंकाराऽऽदि नामों की व्याख्या।

द्वितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्षा।

तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्या-

## भूमिका ॥

सत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने की रीति ।  
चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार ।  
पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि ।  
छठे समुल्लास में राजधर्म ।  
सप्तम समुल्लास में वेदश्वरविषय ।  
अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ।  
नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या ।  
दशवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्यविषय ।  
एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमनान्तर का खण्डन-  
मण्डन विषय ।  
द्वादश समुल्लास में चावीक, बौद्ध और जैन मत का विषय ।  
त्रयोदश समुल्लास में ईसाईमत का विषय ।  
चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय ।  
और चौदह समुल्लास के अन्त में आर्यों के मनान्त  
वेदविहित मत की विंशति: व्याख्या लिखी है जिस  
को मैं भी यथावत् मानता हूँ ॥

मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उस को सत्य और जो मिथ्या है उस को मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उस को वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है । जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान् आसों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना

हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग कर के सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह और अनिच्छादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में भूक जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है, और न किसी का मन दुग्धाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिस से मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥

(इस ग्रन्थ में जो कहीं २ मूल सूक्त में अथवा शोधने तथा छापने में मूल सूक्त रह जाय उम को जानने जानने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा) और जो कोई पतनपात से अन्यथा शंका वा खगडन भगडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हाँ जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी हो कर कुछ जनार्थका उम को सत्य २ समझने पर उम का मत संगृहीत होगा। यद्यपि आज कल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो २ बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उन का ग्रहण और जो एक दूसरे में विरुद्ध बातें हैं उन का त्याग कर परस्पर प्रीति में बनें बर्तावें तो जगत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध में अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों का प्रिय है सब मनुष्यों को दुःख सागर में डुबा दिया है। इन में से जो कोई नैतिक हित लक्ष में धर प्रवृत्त होता है उमने स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु सत्यमेव जयति जागृतं मन्वेन पन्था विततो देवयानः, अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और मन्वर्हा से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है इस दृढ़ विश्वास के आलम्बन से आसलोग परंपकार करने से उदासीन हो कर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ विश्वास है कि वतदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्” यह गीता का वचन है इस का अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विप के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होने हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रन्थ को रचा है। आता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रक्षित



गया है कि (जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सबमें अविरोध होने से उन का स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिश्रण बातें हैं उन २ का खगडन किया है)। इस में यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मतमतान्तरों की गुम वा प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है जिस से सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होंगे) यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसना हूं तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्यप्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतांतरि वालों के साथ भी वर्तता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूं वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सज्जनों को भी वर्तना योग्य है (क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की मूर्ति मगडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हाँसि और बन्द करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता) परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन में बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान् हो कर निर्बलों को दुःख देने और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पा के वैसे ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है और (जो स्वार्थवश होकर पर हाँसिमात्र करना रहता है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब (आर्यावर्तियों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें स मुञ्जलास तक लिखा है इन समुत्तमों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं)। (जो १२ बागहवे समुत्तम में दर्शाया चार्वाक का मत यद्यपि इस समय जीर्णोऽमृतसा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन में बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में ग्वना है यह चार्वाक सब में बड़ा नाम्निक है उस की चेष्टा का रोकना अवश्य है) क्योंकि जो मिश्रण बातें नराकीजंय तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त होजाय चार्वाक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह भी १२वें समुत्तम में लिखा गया है और बौद्धों तथा जिनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुच्छथाड़ासा विरोध भी है और जैन भी बहुत से अंशों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और

थोड़ी सी बातों में भेद है। इस लिये जैनों को मित्र शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुल्लास में लिख दिया है यथायोग्य वही समझ लेना जो इस का भेद है सो २ बारहवें समुल्लास में दिखलाया है बौद्ध और जैनमत का विषय भी लिखा है। इन में से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है उम में से यहां लिखा है और जैनों के मित्र लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उन में से ४ चार मूलमूत्र, जैसे १ आवश्यकमूत्र २ विशेष आवश्यकमूत्र, ३ दर्शकालिकमूत्र, और ४ पान्तिरुमूत्र। ११ ग्यारहअङ्गजैमे १ आचारांग मूत्र, २ सुयंडांगमूत्र, ३ आगांगमूत्र, ४ समवायांगमूत्र, ५ भगवतीमूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथा मूत्र, ७ उपासकदशामूत्र, ८ अन्नगड दशामूत्र, ९ अनुन्तरोववाइमूत्र, १० विपाकमूत्र, और ११ प्रश्न व्याकरणमूत्र। १२ बारह उपांग, जैसे १ उपवाइमूत्र, २ रावप्सेनी मूत्र ३ जीवाभिगममूत्र, ४ पन्नगणामूत्र, ५ जम्बूद्वीपपन्नतीमूत्र, ६ चन्द्रपन्नतीमूत्र, ७ मुरपन्नतीमूत्र, ८ निरिथावलीमूत्र, ९ कप्यामूत्र, १० कपवडीमयामूत्र, ११ पृथ्वियामूत्र और १२ पृथ्वीचूलिथामूत्र। ५ पांचकल्प मूत्र जैसे १ उत्तराध्ययन मूत्र, २ निशीथमूत्र, ३ कल्प मूत्र, ४ व्यवहार मूत्र और ५ जीतकल्प मूत्र ॥ ६ छः छेद, जैसे १ महानिशीथवृहद्वाचनामूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनामूत्र ३ मध्यम-वाचनामूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिमूत्र, ५ औघनिरुक्तिमूत्र, ६ पर्युपणामूत्र, १० दशपथ म्ममूत्र, जैसे १ चतुस्मरणमूत्र, २ पंचस्वाणमूत्र, ३ तदुल्लेख्यालिकमूत्र, ४ भक्ति-परिज्ञानमूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानमूत्र, ६ चंद्राविजयमूत्र, ७ गर्गाविजयमूत्र, ८ मरण-समाधिमूत्र, ९ देवेन्द्रस्तनमूत्र और १० संसारमूत्र, तथा नन्दीमूत्र योगोद्धारमूत्र भी प्रामाणिक मानने हैं ॥ ७ पञ्चांग जैसे १ पूर्व सब ग्रन्थों की टीका २ निरुक्ति ३ चरणी ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मूल मिल के पंचांग कहाते हैं इन में दृष्टिया अवयवों को नहीं मानते और इन में मित्र भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिन को जैनी लोग मानते हैं। इन के मत पर विशेष विचार १२ वारहवें समुल्लास में देख लीजिये। जैनों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वालों के हाथ में हो वा छुपा हो तो कोई २ उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है। क्योंकि जिस का कोई माने कोई नहीं इस से वह ग्रंथ जैनमत से बाहर नहीं हो सकता। हां जिस को कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्रह हो सकता है।

परन्तु (ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता हो इस लिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थविषयक खगडन मगडन भी उसी के लिये सम्भवा जाता है) परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देते न मुनाने और न पढ़ाते इसलिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। भूट बात को छोड़ देना ही उत्तर है ॥)

१३ वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग बायबिल को अपना धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १३ तैरहवें समुल्लास में देखिये और १४ चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का एल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये। और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनमा से देखेगा उस को कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते हैं. आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति, और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। "आकाङ्क्षा" किसी विषय पर वक्ता का और वाक्यस्थ पदों की आकाङ्क्षा परस्पर होती है। "योग्यता" वह कहानी है कि जिस से जो होमके जैमे जल से सींचना "आसक्ति" जिस पदके साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उसपद को बोलना वा लिखना। "तात्पर्य" जिस के लिये वक्ता ने शब्दाञ्चरण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुर्गग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्वकार में फंम के नष्ट हो जाती है इस लिये (जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ, बायबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देख कर उन में से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसा सब को करना योग्य है)। इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिन को देख कर मनुष्य लोग सत्यऽसत्य मत का निर्णय कर सकें और

का त्याग कराने में समर्थ हों। क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देख कर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इस का अभिप्राय समझेंगे इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इस को देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी साच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान महाराणा जी का उदयपुर  
भाद्रपद शुक्लपक्ष संवत् १९३६

( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती



ओ३म्

सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः

## अथ सत्यार्थप्रकाशः

ओ३म् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो  
भवत्वर्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो  
विष्णु रुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते  
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव  
प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदि-  
ष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु त-  
द्वक्तारमवतु । अर्वतु मामवतु वक्तारम् ।  
ओ३म् शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ १ ॥

अर्थ—( ओ३म् ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इस में जो अ, उ और म् तीन अक्षर मिल कर एक ( ओ३म् ) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं जैसे अकार से विराट्, अग्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उस का ऐसा ही वेदाहि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड, पृथिवी आदि भूत इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्त्र में शुण्खादि औषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रश्न ) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ( उत्तर ) आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? ( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इस से मैं उन का ग्रहण करता हूँ । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस के तुल्य भी कोई नहीं तो उस से उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आप के इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे “उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितन्यायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वह जो उस को छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां श्रम करे उस को बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपास्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसा ही आप का कथन हुआ । क्योंकि आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपास्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहां जिस का प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हे मृत्यु त्वं सै धवमानयः, अर्थात् तू सैधव को ले आ । तब उस को समय अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैधव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवण का । जो स्व स्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजनकाल हो तो लवण को

## प्रथमसमुदासः ॥

ले आना उचित है । और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो उस का स्वामी उस पर क्रुद्ध हो कर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुम्ह को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा । इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिम का ग्रहण करना उचित हो वहां उमी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये । तो ऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ॥

## ॥ त्रय मन्त्रार्थः ॥

ओम् स्वस्व ॥ १ ॥ यजुः० अ० ४० । मं० १७ ॥

देविये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में 'ओम्' आदि परमेश्वर के नाम आते हैं ।

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उप० मं० १ ॥

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥

माण्डूक्य० मं० १ ॥

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्दन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ ४ ॥ कठोपनिषत् । वल्की २ मं० १५ ॥

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।

रुक्मामं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥

एतमेके वदंत्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥ मनु० अ० १२ ॥

श्लो० १२२ । १२३ ॥

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराट् ।



स इन्द्रस्य कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कैवल्य उपनिषत् ॥

इन्द्रं भित्तं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं साद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥

ऋ० मं० १ । अनु० २२ । सू० १६४ । मं० ४६ ॥

भूरसि भूमिस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धृती ।

पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृश्ह पृथिवीं मा हिंसीः ॥९॥ यजुः०

ऋ० १३ । मं० १८ ॥

इन्द्रो महता रोदसी पप्रयच्छ्व इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।

इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रेश्चानस इन्द्रः ॥ १० ॥

सामवे० ७ प्र० ३ ऋ० ८ सू० । १६ऋ० २ख० ३सू० २मं० ॥

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं ब्रह्म ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥

अथर्ववेदे काण्ड ११ । ऋ० २ । सू० ४ । मं० १ ॥

अर्थ यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों में ओङ्कारदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम धनार्थक नहीं । जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं । इस में यह भिन्न हुआ कि कहीं गौणिक कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं । "ओ३म्" आदि नाम मार्थक हैं जैसे (ओ३म् स्व०) "अवतीत्याम्, आकाशमिव व्यापकत्वात् स्वम्, सर्वस्यो बृहत्वाद् ब्रह्म" रक्षा करने से (ओ३म्) आकाशवत् व्यापक होने से (स्वम्) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ (ओ३म्) जिस का नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य का नहीं ॥ २ ॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओ३म्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिस का

कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति को इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम "ओ३म्" है ॥ ४ ॥

( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाशस्वरूप समाधि-स्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ और स्वप्रकाश होने से "अग्नि" विज्ञानस्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवनमूल होने से "प्राण" और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "ब्रह्म" है ॥ ६ ॥ ( स ब्रह्मा स विष्णुः० ) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से "विष्णु" दुष्टों को दण्ड दे के रूताने से "रुद्र" मङ्गलमय और सब का कल्याणकर्त्ता होने से "शिव" "यः सर्वमश्नुते न क्षति न विनश्यति तद्वत्तम्" "यः स्वयं रजते स स्वराट् योऽभिरिव कालः कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निगेश्वरः.. ( अक्षर ) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराट् ) स्वयं प्रकाशस्वरूप और ( कालाग्नि० ) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ ( इन्द्रभिन्नं ) जो एक अद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं ॥ "द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः" "शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्मानि वा यन्म्य सः.. " यो गुर्वात्मा स गरुत्मान् " "यो मातरिश्वा वायुग्वि बलवान् स मातरिश्वा.. ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्णा) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं ( गरुत्मान् ) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है (मातरिश्वा) जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इसलिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्णा, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं. शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ८ ॥ ( भूमिरसि० ) "भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः.. जिस में सब भूत प्राणी होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम "भूमि" है । शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ९ ॥ ( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय० ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । क्योंकि ओ३म् और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसे ग्रहण करना

सब को योग्य है) परन्तु " ओ३म् " यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि:--

ततो विराड्जायत विराजो अधिपूरुषः ।

श्रान्ताहायुश्च प्राणश्च मुखाद्ग्निरजायत ।

तेन देवा अयजन्त ।

पश्चाद्भूमियो पुरः । यजुः० अ० ३१ ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशा-

हायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी ।

पृथिव्या ओपधयः । ओपधिभ्योऽन्नम् । अनाद्रेतः ।

रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्द वल्ल्ही प्रथमानुवाक का वचन है । ऐसे प्रमाणों में ( विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र सम्भना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों में जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो । अथ ओंकारार्थः । ( वि ) उपसर्गपूर्वक

(रानृ दीप्तौ) इस धातु से क्तिप् प्रत्यय करने से "विराट्.. शब्द सिद्ध होता है। "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्., विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इस से विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। (अञ्नु गतिपूजनयोः) अग, अगि, इण् गत्यर्थक धातु हैं इन से "अग्नि" शब्द सिद्ध होता है "गतेऽन्वयोऽर्थाः" ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः "योऽञ्चति अच्यतेऽगत्यङ्गत्येति सोऽयमग्निः., जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "अग्नि" है। (विशु प्रवेशने) इस धातु से "विश्व., शब्द सिद्ध होता है "विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु पृविष्टः स विश्व ईश्वरः., जिस में आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता है। "ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेये शतपथे च ब्राह्मणे" "यो हिरण्यानां मूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः., जिस में मूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं अथवा जो मूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम "हिरण्यगर्भ., है। इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है: -

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत् ।  
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मं देवाय हविषा विधेम ॥ यजु०  
अ० १३ । मं० ४ ॥

इत्यादि स्थलों में "हिरण्यगर्भ., से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। (वा गतिगन्धनयोः) इस धातु से "वायु" शब्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिंसनम्) "यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः" जो चराऽचर जगत् का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम "वायु., है (तिज निशाने) इस धातु से "तेजः., और इस से तद्धित करने से "तैजस., शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश और मूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इस से उस ईश्वर का नाम "तैजस., है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण

## सत्यार्थप्रकाशः ॥

होते हैं । ( ईश ऐश्वर्य ) इस धातु से "ईश्वरः, शब्द सिद्ध होता है "य ईष्टे सर्वैश्वर्य-  
वान् वर्तते स ईश्वरः, जिस का मत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इस  
से उस परमात्मा का नाम "ईश्वरः, है । ( दो अवखण्डने ) इस धातु से "अदिति" और  
और इस से तद्धित करने से "आदित्यः, शब्द सिद्ध होता है "न विद्यते विनाशो यस्य सोऽ-  
यमदितिः+अदितिरेव आदित्यः.. जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की "आदित्यः,  
संज्ञा है । ( ज्ञा अवबोधने ) "प्र"पूर्वक इस धातु से "प्रज्ञ" और इस से तद्धित करने से  
"प्राज्ञः, शब्द सिद्ध होता है । "यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स  
प्रज्ञः+प्रज्ञ एव प्राज्ञः, जो निर्भ्रान्त, ज्ञानयुक्त, सब चराऽचर-जगत् के व्यवहार को  
यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "प्राज्ञ" है । इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत  
होते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य ना-  
मार्थ भी अकार से जाने जाते हैं । जो ( शत्रो मित्रः शं व० ) इस मंत्र में मित्रादि  
नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रेष्ठ ही की जाती है ।  
श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब से  
अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं । जिस  
के तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा । जब तुल्य नहीं तो उस से अधिक क्योंकि  
हो सकता है ! जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त  
गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उस के  
गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की  
स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उस से मित्र की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु,  
महादेव नामक पूर्वक महाशय विद्वान्, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण  
मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपास-  
ना की, उस से मित्र की नहीं की । वैसे हम सब को करना योग्य है । इस का विशेष  
विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

( पूरन ) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से  
उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उन का ग्रहण करना योग्य नहीं  
क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देख-  
ने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा

परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है इस से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से मुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है ( त्रिभिदा स्नेहने ) इस धातु से औणादिक “क्त्” प्रत्यय होने से “मित्र” शब्द सिद्ध होता है। “मेघति स्निहति स्निहते वा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है। ( वृत् वरणे, वर ईप्सायाम् ) इन धातुओं से उणादि “उन्” प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता है “यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षुन्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यः शिष्टैर्भुमुन्तुभिर्धर्मात्मभिर्भियते वर्धते वा स वरुणः परमेश्वरः” जो आत्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करने वाले और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्टमुमुक्षु और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर वरुण “संज्ञक” है अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलिये उस का नाम “वरुण” है ( ऋ गतिप्रापणयोः ) इस धातु से “यत्” प्रत्यय करने से “अर्य” शब्द सिद्ध होता है और “अर्य” पूर्वक ( माङ्गाने ) इस धातु से कनिन् प्रत्यय होने से “अर्यम्” शब्द सिद्ध होता है “योऽर्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्यमा,, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्य नियमकर्त्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्यम्” है। ( इदि परमैश्वर्ये ) इस धातु से “रन्” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्दति परमैश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है। “बृहत्” शब्दपूर्वक ( पा रत्ने ) इस धातु से “डति,, प्रत्यय बृहत् के तकार का लोप और मुडागम होने से “बृहस्पति,, शब्द सिद्ध होता है “यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इस से उस परमेश्वर का नाम “बृहस्पति” है। ( विप्लुव्यासौ ) इस धातु से “नु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है “वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः” चर और अचररूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है। “उरुमहान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः” अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम” है। जो परमात्मा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) सब का मुहृत् अविरोधी है वह ( शम् ) सुस्कारक वह ( वरुणः ) सर्वोत्तम वह ( शम् ) सुस्वरूप

वह (अर्यमा) न्यायाधीश वह (शम्) मुक्ताप्रचारक वह (इन्द्रः) जो सकल ऐश्वर्यवान् और (शम्) सकल ऐश्वर्यदायिक वह (बृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता वह (शम्) विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणकारक (भवतु) हो ॥

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) बृह बृहि वृद्धौ इन धातुओं से "ब्रह्म" शब्द सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर ! (त्वमेव प्रत्यक्षब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं (ऋतं वदिष्यामि) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूँगा (सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूँ सत्य मानूँ और सत्य ही करूँगा (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्वक्तारमवतु) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध वही अधर्म है "अवतु मामवतु वक्तारम्" यह दूसरी बार पाठ अधिकार्य के लिये है जैसे "कश्चित् कञ्चित् प्रति वदति त्वं ग्रामं गच्छगच्छ,, इस में दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से मुनिश्चित और अधर्म से शृणा सदा करूँ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, मैं आप का बड़ा उपकार मानूँगा (ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन बार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक "आध्यात्मिक,, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीडादि होते हैं दूसरा "आधिभौतिक" जो शत्रु, व्याघ्र और मर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा "आधिदैविक" अर्थात् जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अतिउष्णता, मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याण कारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप, सब संसार के कल्याणकर्त्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित दृजिये कि जिस से सब जीव

धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें "मूर्त्य आत्मा जगतस्तत्स्थुषरच" इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं "तस्थुषः" अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाररूप सब के प्रकार करने से परमेश्वर का नाम "मूर्त्य" है। ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से "आत्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽतति व्याप्नोति स आत्मा" जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है "परश्वासत्वात्मा च य अत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोऽतिमूक्ष्मः स परमात्मा" जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकार से भी अतिमूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम "परमात्मा" है। सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर है "य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः" जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम "परमेश्वर" है। ( पुञ् अभिषवे, षूङ् प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुओं से "सविता" शब्द सिद्ध होता है "अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्। यश्चराचरं जगत् मुनोति भूते चोत्पादयति स सविता परमेश्वरः" जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता" है। ( दिवु क्रीडाविजिगीषान्व्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिमतिषु ) इस धातु से "देव" शब्द सिद्ध होता है ( क्रीडा ) जो शुद्ध जगत् को क्रीडा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त ( व्यवहार ) सब को चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता ( द्युति ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) आप आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) मदोन्मत्तों का ताड़नेहारा ( स्वप्न ) सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "देव" है। अथवा "यो दीव्यति क्रीडति स देवः" जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना क्रीडावन् सहज स्वभाव से सब जगत् को बनाता वा सब क्रीडाओं का आधार है "विजिगीषते स देवः" जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात् जिस को कोई भी न जीत सके "व्यवहारयति स देवः" जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का जनानेहारा और उपदेष्टा "यश्चराचरं जगद् द्योतयति" जो सब का प्रकाशक "यः स्तूयते स देवः" जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो "यो मोदयति स देवः" जो स्वयं आनन्दस्वरूप और



दूसरों को आनन्द कराता जिस को दुःख का लेश भी न हो “यो मायति स देवः” जो सदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पृथक् रखनेवाला “यः स्वापयति स देवः” जो प्रलय के समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता “यः कामयते काम्यते वा स देवः” जिस के सब सत्य काम और जिस की प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “योगच्छति गम्यते वा स देवः” जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “देव” है । ( कुवि आच्छादने ) इस धातु से “कुवेर” शब्द सिद्ध होता है “ यः सर्वं कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः” जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमेश्वर का नाम “कुवेर” है । ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से “पृथिवी” शब्द सिद्ध होता है “यः प्रथते सर्वजगद्विस्तृणाति स पृथिवी” जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करने वाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पृथिवी” है । ( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है “जलति घातयति दुष्टान्, संघातयति-अव्यक्तपरमाणुवादीन् तद् ब्रह्म जलम्” जो दुष्टों का नाशन और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है । ( काशृदीप्तौ ) इस धातु से “आकाश ” शब्द सिद्ध होता है “ यः सर्वतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः” जो सब ओर से जगत् का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आकाश ” है । ( अद भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है ॥

अयत्नेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १ ॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः॥

॥ २ ॥ तैत्ति० उपनि० । अनुवाक २ । १० ॥ अत्ता-

चराचरग्रहणात् ॥ वेदान्तदर्शने । अ० १ । पा० २ । सू० १ ॥

जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत् का ग्रहण करनेवाला है इस से ईश्वर के “अन्न” “अन्नाद” और “अत्ता” नाम हैं । और जो इस में तौम बार पाठ है सो आदर के लिये है जैसे गुलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी

में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है। (वस निवासे) इस धातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यन्मिन्नथा यः सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः” जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “वसु” है। ( रुदिर् अश्रुविमोचने ) इस धातु से “खिन्” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्ध होता है। “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्रः” जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिस का मन से ध्यान करता उस को वाणी से बोलता जिसको वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को रुलाता है इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

आपों नारा इति प्रोक्त्वा आपो वै न.सूनवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥

मनु० ॥ अ० १ श्लो० १० ॥

जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिस के इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है। ( चदि आह्लादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः” जो आनन्द स्वरूप और सब को आनन्द देने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है। ( मणि गत्यर्थक ) इस धातु से “मङ्गलन्” इस सूत्र से “मङ्गल” शब्द सिद्ध होता है “यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः” जो आप मङ्गलस्वरूप और सब जीवों के मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है। ( बुध अवगमने ) इस धातु से

“बुध” शब्द सिद्ध होता है “यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है । “बृहस्पति” शब्द का अर्थ कह दिया । ( ईशुचिर् पूर्वाभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है “ यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः ” जो अत्यन्त पवित्र और जिस के सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र” है । ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनैश्चरः” अव्यय उपपद होने से “शनैश्चरः” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शनैश्चरति स शनैश्चरः” जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान् है इस से उस परमेश्वर का नाम “शनैश्चरः” है । ( रह त्यागे ) इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है “यो रहति परित्यजति दृष्टान् राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वरः” जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दृष्टों को छोड़ने और अन्य को लुङ्गनेहारा है इस से परमेश्वर का नाम “राहु” है । ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता है “ यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः ” जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्तिसमय में सब रोगों से लुङ्गता है इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है । ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है “यज्ञो वै विष्णुः” यह ब्राह्मणग्रन्थ का वचन है । “यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः” जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा इस से उस परमात्मा का नाम “यज्ञ” है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । ( हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “ यो जुहोति स होता” जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इस से उस ईश्वर का नाम “होता” है । ( बन्ध बन्धने ) इस से “बन्धु” शब्द सिद्ध होता है “ यः स्वस्मिन् चराचरं जगद् बध्नाति बन्धुवद्बन्धमात्मनां मुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धुः” जिस ने अपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है हमी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे आता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और मुख देने में “बन्धु” संज्ञक है । ( पा रक्षणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है “ यः पाति सर्वान् स पिता ” जो सब का रक्षक जैसे पिता अपने मन्तानों पर सदा कृपालु होकर उन की उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर

सब जीवों की उन्नति चाहता है इस से उस का नाम "पित्त" है । "यः पितृणां पिता स पितामहः" जो पिताओं का भी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है । "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः" जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है । "यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान् स माता" जैसे पूर्णरूपायुक्त जननी अपने सन्तानों का मुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम "माता" है । ( चर गतिभक्ष-णयोः ) आङ्पूर्वक इस धातु से "आचार्य्य" शब्द सिद्ध होता है "य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स आचार्य्य ईश्वरः" जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इस से परमेश्वर का नाम "आचार्य्य" है । ( गृ शब्दे ) इस धातु से "गुरु" शब्द बना है "यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः" ।

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगसू०

समाधिपादे सू० २६ ॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है । ( अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्रादुर्भावे ) इन धातुओं से "अज" शब्द बनता है "योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति वा कदाचिन्न जायते सोऽजः" जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम "अज" है । ( वृहि वृद्धौ ) इस धातु से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽस्विलं जगन्निर्माणेन वृंहति वर्द्धयति स ब्रह्मा" जो सम्पूर्णा जगत् को रच के बढ़ाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है "सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम् । यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽतोऽन्निर्भावात् सत्यं तदनन्तम् । सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद् ब्रह्म" जो पदार्थ हों उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है । जो

चराऽचर जगत् का जाननेवाला है इस से परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है। जिस का अन्त अक्षयि मर्यादा अर्थान् इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम "अनन्त" है। ( हुदात् दाने ) आङ्पूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नञ्पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः" जिस के पूर्व कुछ नहीं और परे हो उस को आदि कहते हैं, जिस का आदि कारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है। ( तुनदि समृद्धौ ) आङ्पूर्वक इस धातु से "आनन्द" शब्द बनता है "आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वाञ्जीवानानन्दयति स आनन्दः" जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम "आनन्द" है। ( अस भुवि ) इस धातु से "सन्" शब्द सिद्ध होता है "यदन्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद् ब्रह्म" जो सदा वर्तमान अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालों में जिस का बाध न हो उस परमेश्वर को "सन्" कहते हैं। ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से "चिन्" शब्द सिद्ध होता है "यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सञ्जनान् योगिनस्ताच्चित्परं ब्रह्म" जो चेतनस्वरूप मन्व जीवों को चिताने और सत्याऽसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम चित् है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को "सच्चिदानन्दस्वरूप" कहते हैं। "यो नित्यध्रुवोऽचलोऽविनारी स नित्यः" जो निश्चल अविनारी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। ( शुभ शुद्धौ ) इस से "शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। ( बुध अवगमने ) इस धातु से क्त प्रत्यय होने से "बुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जाननेहारा है इस से ईश्वर का नाम बुद्ध है। ( मुञ्चल मोचने ) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है "यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से लुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है "अतएव नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर और आङ्पूर्वक ( हुक्कञ् करणे ) इस धातु से "निराकार" शब्द सिद्ध होता है।

“निर्मलः अक्षयः निरञ्जरः” जिस का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है। ( अञ्जन् व्यक्तिप्रक्षयकान्तिगतिषु ) इस धातु से “अञ्जन” शब्द और निर् उपसर्ग के योग से “निरञ्जन” शब्द सिद्ध होता है “अञ्जनं व्यक्तिर्भक्षणं कुकाम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः” जो व्यक्ति अर्थात् आकृति, स्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पक्ष से पृथक् है इस से ईश्वर का नाम “निरञ्जन” है। ( गण संख्यान ) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता और इस के आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं “ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इस से उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है। “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इस से उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है। “यः कूटस्थेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जैसे “ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब चित्ति का होगा तब “देवी” इस से ईश्वर का नाम “देवी” है। ( शक्तृ शक्तौ ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः” जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” है। ( श्रिञ् सेवायाम् ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है “यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः” जिस का सेवन सब जगत्, विद्वान् और योगी जन करते हैं इस से उस परमात्मा का नाम “श्री” है। ( लक्ष् दर्शनाङ्गनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पश्यत्यङ्कने चिह्नयति चराचरं जगदथवा वेदैराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्षयते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः” जो सब चराचर जगत् को देखता चिह्नित अर्थान् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि जिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थान् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है।

( सृ गतौ ) इम धातु मे "सग्म्" उस से मनुप् और डीप् प्रत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है "सरो त्रिविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती" जिस को विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ मन्वन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है । "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है । ( शीञ् प्रापणे ) इस धातु मे "न्याय" शब्द सिद्ध होता है "प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः" यह वचन न्यायमंत्रों पर बाल्म्यायनमुनिकृतभाष्य का है "पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा मे सत्य २ मिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता है "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः" जिस का न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस मे उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है । ( दय दात्तातिरञ्जणहिंसादानेषु ) इस धातु मे "दया" शब्द सिद्ध होता है "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनमिती यया सादया बह्वी दया विद्यते यम्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽमत्य सर्व विद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देनेवाला है इस मे परमात्मा का नाम "दयालु" है । "द्वयोर्भावो द्विता द्वाभ्यामितं द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यस्मिन्तद्वैतम्" अर्थात् "सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म" दो का होना वा दोनों मे युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इस से जो रहित है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होना है, विजातीय जैसे मनुष्य मे भिन्न जातिवाला वृद्ध, पाषाणादि, स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं मे रहित एक परमेश्वर है इस से परमात्मा का नाम "अद्वैत" है । "गग्यन्ते ये ते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः, यो गुणैभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः" जितने सत्त्व, रजस्, तमः, रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुणा, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुणा हैं उन से जो पृथक् हैं, इस में "अस्मद्मस्पर्शमरूपमध्यकम्" इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है—जो शब्द, स्पर्श, रूपादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम "निर्गुण" है । "यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः" जो सब का ज्ञान सर्वमुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम "सगुण" है । जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से सगुण

और इच्छादि गुणों से रहित होने से “निर्गुण” है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। “अन्तर्यन्तु नियन्तु शीलं यम्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राणिरूप जगत् के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है। “यो धर्मे गजते स धर्मराजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है। (यमु उपरमे) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है “यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इसलिये परमात्मा का नाम “यम” है। (भज सेवायाम्) इस धातु से “भग” इस से मनुप् होने से “भगवान्” शब्द सिद्ध होता है “भगः सकलैश्वर्यं सेवनं वा विद्यते यम्य स भगवान्” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है। (मन ज्ञाने) धातु से “मनु” शब्द बनता है “यो मन्यते स मनुः” जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है। (पृ पालन-पूरणयोः) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है “यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत् पृणाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (डुभृन् धारणपोषणयोः) “विश्व” पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है “यो विश्वं विभक्तिं धरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर,, है। (कल संख्याने) इस धातु से “काल,, शब्द बना है “कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः” जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “काल,, है। (शिप्त् विशेषणे) इस धातु से “शेष,, शब्द सिद्ध होता है “यः शिष्यते स शेषः,, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष,, है। (आप्तु व्याप्तौ) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता है “यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वधर्मात्मभिराप्यते क्षुलादिरहितः



स प्राप्तः" जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम "प्राप्तः" है । ( डुकृञ् करणे ) "शम्" पूर्वक इस धातु से "शङ्करः, शब्द सिद्ध हुआ है "यः शङ्कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः, जो कल्याण अर्थात् सुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम "शङ्करः" है । "महन्" शब्द पूर्वक "देवः" शब्द से "महादेव" सिद्ध होता है "यो महतां देवः स महादेवः" जो महान् देवों का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान् मूर्त्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम "महादेव" है । ( प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च ) इस धातु से "प्रियः" शब्द सिद्ध होता है "यः पृणति प्रीयते वा स प्रियः, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम "प्रियः" है । ( भू सत्तायाम् ) "स्वयं" पूर्वक इस धातु से "स्वयम्भू" शब्द सिद्ध होता है "यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वरः, जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इस से उस परमात्मा का नाम "स्वयम्भू" है । ( कु शब्दे ) इस धातु से "कविः" शब्द सिद्ध होता है "यः कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः" जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "कविः" है । ( शितु कल्याणे ) इस धातु से "शिवः" शब्द सिद्ध होता है "बहुलमेतन्निदर्शनम्" इस से शिव धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शिवः" है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिन्दुवन् हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं. उन के पढ़ने पढ़ने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥

( प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मञ्जलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? ( उत्तर ) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मञ्जल करेगा तो उस के ग्रन्थ में आदि मध्य तथा

अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहेगा इसलिये “मङ्गलाचरणं शि-  
ष्टाचारान् फलदर्शनाच्छुतितश्चेति” यह सांख्यशास्त्र के अ० ५ का पहिला सूत्र है। इस  
का यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी  
का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है। ग्रन्थ के आरम्भ  
से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है न कि कहीं मङ्गल और  
कहीं अमङ्गल लिखना। देखिये महाशय महर्षियों के लेख को: ---

यान्धनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपाठक ७ अनु० ११ का वचन है। हे सन्तानो जो “अन-  
वद्य” अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अधर्मयुक्त नहीं।  
इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “राधाकृ-  
ष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “वटुकाय  
नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख  
देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही  
समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं  
आता और आर्षग्रन्थों में “ओ३म्” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आते हैं। देखो—

“अथ शब्दानुशासनम्, अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते ।  
इति व्याकरणमहाभाष्ये ।

“अथातो धर्मजिज्ञासा, अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् ।  
इति पूर्वमीमांसायाम् ।

“अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः, अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मल-  
क्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

“अथ योगानुशासनम्, अथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे ।

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः, सांसारिक  
विषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्त्तव्यः ।  
सांख्यशास्त्रे ।

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा,, इदं वेदान्तसूत्रम् ।

“ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत,, इदं ब्रान्दोग्योपनिषद्चनम् ।

“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्,, इदं च माण्डू-  
क्योपनिषद्चनम् ॥

ये सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओम्” और “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि. इत्. अग्नि. ये त्रिषसाः परि-  
यन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरिः ओ३म्” लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादि शास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये “ओ३म्” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिक्षा के वि-  
षय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः

समुल्लासः सम्पूर्णाः ॥

## अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

### मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपथब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य! वह सन्तान बढ़ा भाग्यवान्! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इसलिये ( मातृमान् ) अर्थात् " प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान् "। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से ले कर जबतक पुरी विद्या न हो तबतक मुशीलता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पगक्रम और मुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिस के रजम् वीर्य्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है और रजोदर्शन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना। पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वाक्त न आवे तबतक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य,

परम्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और मुश्रुत में भोजन द्वा-  
दन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार  
करें और बर्तें । गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन द्वादन करना  
चाहिये । पश्चात् एक वर्षपर्यन्त स्त्री पुरुष का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य,  
पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहै कि जबतक सन्तान  
का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब अच्छे मुगन्धियुक्त जल से बालक का स्नान नाड़ी छेदन करके  
मुगन्धियुक्त घृतादि के होम \* और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे  
कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा प-  
दार्थ उस की माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता  
का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को  
उत्तम पदार्थों का स्नान पान माता पिता करावे जो कोई दरिद्र हों धायी को न रख सकें  
तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी  
हों उन को शुद्ध जल में भिजा औटा द्धान के दूध के समान जल मिला के बालक को  
पिलावे । जन्म के पश्चात् बालक और उस की माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु  
शुद्ध हो वहां रखें मुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण क-  
राना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धायी गाय बकरी आदि का दूध  
न मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करें क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से  
बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्बल हो जाती है इसलिये प्रसूता स्त्री  
दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप करे जिस  
से दूध सखिन न हो । ऐसे करने से दूध महीने में पुनरपि युवति हो जाती है । तबतक  
पुरुष ब्रह्मचर्य्य से वीर्य्य का निग्रह रखे इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उन के उ-  
त्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उ-  
त्तम बल पराक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री योनिसङ्कोचन शोधन और पुरुष वीर्य्य  
का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

\* बालक के जन्म समय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में हवनादि वेदोक्त  
कर्म होते हैं वे ( संस्कारविधि ) में सविस्तर लिख दिये हैं ।

बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिस से सन्तान सम्य हों और किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उस की माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इस का ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को भिलाकर बोलना, ह्रस्व, दीर्घ, मुत्त, अक्षरों को ठीक २ बोल सकना। मधुर, गम्भीर, सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवधान भिन्न २ श्रवण होवे। जब वह कुल्लु २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण, उन से वर्तमान और उन के पाम बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिस से कहीं उन का अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्तन में रुचि करें वैसा प्रयत्न करने रहें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किमी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इस से उम का स्पर्श न करें। सदा मत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिम प्रकार हो करावें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करवें अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उस के पश्चात् जिन से अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे २ वर्तना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसहित काठस्थ करवें। जिन से सन्तान किसी भूत के बहकाने में न आवें, और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से भूत प्रेत आदि भिष्या बातों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्।

प्रेतहारैः समं तव दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनु० अ० ५ । ६५ ॥

अर्थ—जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिम का नाम प्रेत है उस का दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस का नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आ के न रहे वे भूतस्थ हैं इस से उन का नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पृथ्वी के सिद्धियों का सिद्धान्त है

परन्तु जिम को शङ्का, कुसङ्ग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं। देखा जब कोई प्राणी मरता है तब उस का जीव पाप पुण्य के वश हो कर परमेश्वर की व्यवस्था में मुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है?। अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने और विचार में रहित हो कर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उन का औषध भेदन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भङ्गी, चमार, शूद्र, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोग, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ा कर दुःख देने फिरते हैं। जब आंधे के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जा कर पूछते हैं कि "महाराज! इस लडका, लडकी, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है"। तब वे बोलते हैं कि "इस के शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है जबतक तुम इस का उपाय न करोगे तब तक ये न हटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलीटा वा इतनी भेंट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से भ्राड़ के इन को निकाल दें"। तब वे अंधे और उन के सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इन को अच्छा कर दीजिये" तब तो उन की बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं "अच्छा लाओ इतनी सामिग्री, इतनी दक्षिणा देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ" भांग, मृदङ्ग, ढोल, थाली ले के उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है "मैं इस का प्राण ही ले लूंगा" तब वे अंधे उस भङ्गी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं "आप चाहें सो लीजिये इस को बचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, मिन्दूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट," "मैं देवी वा भैरव हूं लाओ पांच बातल मद्य, बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र" जब वे कहते हैं कि "जो चाहो सो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है, परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेंट पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लातें मारे तो उस के हनुमान् देवी और भैरव भट प्रसन्न हो कर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उन का केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥

और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहग्रह ज्योतिर्विदाभाम के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इस को क्या है ?" तब वे कहते हैं कि "इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इन की शान्ति, पाठ, पूजा, दान करोगे तो इस को सुख हो जाय नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं" । ( उचर ) कहिये ज्योतिर्विन् जैमी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं ? जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख दे सकें ( प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा मुग्धी दुःखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है ? ( उचर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं । ( प्रश्न ) तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है ? ( उचर ) नहीं, जो उस में अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची जो फल की लीला है वह सब झूठी है । ( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? ( उचर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम "शोकपत्र" रखना चाहिये क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब सब को आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुनें । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उम के माता पिता पुण्डित से कहते हैं "महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये,, जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के मुनाने को आता है तब उम के मा बाप ज्योतिषी जी के माभने बैठ के कहते हैं "इस का जन्मपत्र अच्छा तो है !" ज्योतिषी कहता है "जो है सो मुना देता हूं इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान् जिन ममा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इस का तेज पड़ेगा. शरीर में आरोग्य और गज्यमानी होगा., इत्यादि बातें मुन के पिता आदि बोलते हैं "वाह २ ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो" ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों में कार्य्य मिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये ग्रह क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ ग्रह के योग में ८ वर्ष में इस का मृत्युयोग है., इस को मुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि "महाराज जी ! अब हम क्या करें ?" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करो" गृहस्थ पूछे "क्या उपाय करें" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "१५ २ दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है



कि नवग्रहों के ध्वंस्न हट जायेंगे" अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मरजायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हम ने तो बहुत सा यत्न किया और तुम ने कराया उस के कर्म ऐसे ही थे। और जो बचजाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मंत्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है ! तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इन के जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिये। और जो बचजाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि "इस के कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी को नहीं" वैसे गृहस्थ भी कहें कि "यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते हैं तो उन को भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था।

अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही दोग मचते हैं कोई कहता है कि "जो हम मन्त्र पढ़ के डोग वा यन्त्र बना दें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उस को कोई ध्वंस्न नहीं होने देते" उन को वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरणा से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इस से इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार कर्ता, निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये। और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उन को भी महापापम समझना चाहिये, इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिस से स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावें और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे "देखो जिस के शरीर में मुरच्छित वीर्य रहता है तब उस को आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इस के बल्लण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, ज्ञान का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रह कर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त हों। जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता

वह नपुंसक महाकुलक्षणी और जिस को प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग मुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुम को यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुम को विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इस लिये “मातृमान् पितृमान्” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और ९ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके आचार्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रादिवर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के सन्तान विद्वान् सभ्य और मुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं, इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:-

सामृतैः पाणिभिर्ध्वन्ति गुरवो न विषेक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ अ० ८ । १ । ८ ॥

अर्थ-जो माता पिता, और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न-न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादाष्टि रक्खें। जैसे अन्याशिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती। जैसी हानि प्रतिज्ञा को मिथ्या करने-

बाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इस से जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम को वा तुम मुझ से अमुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुम को मैं दूंगा" इस को वैसे ही पूरी करे नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण और सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये, झुल कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये। झुल और कपट उस को कहते हैं कि जो भीतर और बाहर और रग्व दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न दे कर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। "कृतघ्नता" उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना। क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले और बहुत बक्रवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे, उन के सामने उठ कर जा के उच्चासन पर बैठे प्रथम "नमस्ते" करे उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे, सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, संपन्न हो कर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखे, सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे।

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥

तैत्ति० प्रपा० ७ अनु० ११ ॥

इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन २ का ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कर्म हों उन का त्याग कर दिया करो, जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक "निघण्टु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य मूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान

किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात् जितनी लुधा हो उस से कुछ न्यून भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता है "नाविज्ञाते जलाशये" यह मनु का वचन है—अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु० अ० ६। ४६ ॥

अर्थ—नीचे दृष्टि कर उंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल पीवे, सत्य से पवित्र कर के वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे ।

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ चाणक्यनीति

अध्या० २ । श्लो० ११ ॥

वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में जैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला । यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परम धर्म और कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना । यह बालशिक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते बालाशिक्षाविषये द्वितीयः

समुल्लासः सम्पूर्णाः ॥ २ ॥



## अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंग आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयामक्ति और चोर आदि का मय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ॥

विद्याविलासमन्सो धृतशीलशिक्षाः

सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः ।

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, मुन्दरशील स्वभावयुक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेद-विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में

लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी सप्ताशौच संस्कार करके यज्ञोक्त आचार्यकुल अर्थात् अपनी १ पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहियें, जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात् जब-तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परकीड़ा, विषय का ध्यान और सक्त इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव शरीर और आत्मा के बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजना अर्थात् चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहै। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन दिये जायें चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्खें। जब भ्रमण करने को जावें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ॥

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥

मनु० श्र० ७। श्लोक १५२ ॥

इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेजे वह दण्डनीय हो, प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें वह मन्त्र यह है—

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ यजु० श्र० ३६। मं० ३ ॥

इस मन्त्र में जो प्रथम (ओ३म्) है उस का अर्थ प्रथम समुत्प्लास में कर दिया है वही से जान लेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति वै प्राणः” ‘यः प्राणवति चराऽचरं जगत् स भूः स्वयम्पूरीश्वरः” जो सब जगत् के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है । “भुवरित्यपानः” “यः सर्षं दुःस्वमपानयति सोऽपानः” जो सब दुःस्वों से रहित, जिस के सङ्ग से जीव सब दुःस्वों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है । “स्वरिति व्यानः” “यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है । ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७ अनु० ५ के हैं ( सवितुः ) “यः सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता तस्य” जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य ) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः” जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वैश्वम्) “वर्तुमर्हम्” स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( भर्गः ) “शुद्धस्वरूपम्” शुद्ध स्वरूप और पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है ( तत् ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( धीमहि ) “धैरेमहि” धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) “जगदीश्वरः” जो सविता देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्” हमारी ( धियः ) “बुद्धीः” बुद्धियों को ( प्रचोदयात् ) “प्रेरयेत्” प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितुर्वैवस्य तव यदौ भूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भर्गोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धैरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन् ! यः सविता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट-देवो भवतु नातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित् कदाचिन् मन्यामहे” हे मनुष्यो ! जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकाररहित, सब के घट २ की जाननेवाला, सब का धर्ता पिता उत्पादक, अज्ञादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्वर्ययुक्त, जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की

कायना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्बोधी स्वरूप हम को दृष्टान्तर अभर्म्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठान्तर सत्यमार्ग में चलावे, उस को छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उस के तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देवेहारा है ॥

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संधोपासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावें। प्रथम स्नान इसलिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाणः—

अद्भिर्गोलाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

मनु० अ० ५ । श्लो० १०९ ॥

जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होते हैं। इस से स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाणः—

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिज्ञये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥

योग० साधनपादे सू० २८ ॥

जब सजुम्न प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ॥५

तयोद्भियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥मनु० अ० ६ । ७१ ॥

जैसे अग्नि में तपाने से मुक्खादि धातुओं का मल नष्ट हो कर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधिः—



### प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग • समाधिपादे सू • ३४ ॥

जैसे अत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रखवे तबतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में (ओ३म्) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक "बाह्यविषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोकना जाय उतना रोक के। तीसरा "स्तम्भवृत्ति" अर्थात् एक ही वार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा "बाह्याभ्यन्तरालोपी" अर्थात् जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़ कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इस से मनुष्य के शरीर में वीर्य्य वृद्धि को प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को धोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन। जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। "आचमन" उतने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुँचे न उस से अधिक न न्यून। उस से कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात् "मार्जन" अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अङ्गों पर जल छिड़के उस से आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे। पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मन्त्राभ्यास, उपस्थान, पीठे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात् "अधमर्षण" अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकामचित्त से करे ॥

अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः । सावित्री-  
मप्यधीयत गत्वारण्यं समाहितः ॥ मनु०अ०२।१०४॥

जंगल में अर्थात् एकान्त देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है । दूसरा देवयज्ञ । जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग भेषादिक से होता है । सन्ध्या और अग्निहोत्र सांय प्रातः दो ही काल में करे दोही रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ हो कर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्यापासन भी किया करे तथा सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उस के लिये एक किसी धातु वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अङ्गुल चौकोन उतनी ही गहिरा और नीचे ३ वा ४ अंगुल परिमाण से बेदी



इस प्रकार बनावे अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहै । उस में चन्दन पलाश वा आम्नादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उन्सी बेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उस में रखे उस के मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रोक्षणीपात्र



ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र



इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् घृत रखने का पात्र और चमसा



ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिये कि उस से हाथ धोने को जल लेना सुगम है । पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मंत्रों से होम करे ॥

श्रीं भूर्गन्ये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।  
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः  
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक ३ आहुति देवे और जो अधिक आहुति देना हो तो:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥

यजु० अ० ३० । ३ ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे “ओं” “भूः” और “प्राणः” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “स्वाहा” शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के मुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥

( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है ? ( उत्तर ) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । ( प्रश्न ) चन्दनादि घिस के किसी के लगावे या घृतादि स्नाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । ( उत्तर ) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है । ( प्रश्न ) जब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । ( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है । ( प्रश्न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने के लाभ विदित हो जायें और मन्त्रों की आहुति होने से कष्टस्थ रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे । ( प्रश्न ) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? ( उत्तर ) हां क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न होके वायु

और जल को बिगाड़ कर सेवेत्यति का विविध होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उस से अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष है जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उच्चम पदार्थ न खावे तो उन के शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उचित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक है। (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है ? (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को मोल-ह २ आहुति और छः २ मासे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इमलिये आर्यवरशिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुतसा होम करते और करते थे जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्तदेश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय। ये दो यज्ञ अर्थात् एक ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना उपासना करना। दूसरा दैवयज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति

राजन्यो ह्यस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति । शूद्रमपि

कुलगुणसम्पन्नं मन्तवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥

यह मुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है ॥ ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन-गुणसम्पन्न शूद्र हो तो उस को मंत्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शूद्र पदे परन्तु उस का उपनयन न करे यह मन्तवर्ज-नेक आचार्यों का है। पश्चात् पांचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे। और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करे ॥

षट्तिंशदाधिकं चर्च्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।

तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥

मनु० अ० ३ । १ ॥

अर्थ—आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्षपर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साक्षोपाङ्ग पढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रखे ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातः स-  
वनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायतं प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽ-  
न्वायन्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तच्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं  
मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां व-  
सूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदोह भवति ॥२ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्द्वर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनं च-  
तुश्चत्वारिंशद्दक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यंदिनं सवनं तदस्य रुद्रा  
अन्वायन्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे  
माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्रा-  
णां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥४ ॥  
अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्द्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंशद्-  
दक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यदित्या अन्वायन्ताः प्राणा  
वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते ॥ ५ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदि-  
त्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेनि माहं प्राणानामादि-  
त्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६॥

यह छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उन में से कनिष्ठ—जो पुरुष अन्नरममय देह और पुरि अर्थात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से सङ्गत और मत्कर्तव्य है इस को आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रह कर वेदादि विद्या और मुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके लंपटता न करे तो उस के शरीर में प्राण बलवान् होकर सब शुभ गुणों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् होके शुभगुणों को वसाने वाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से मुझों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रासिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य्य यह है जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण इन्द्रियां अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रूलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्य्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्य्य कुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥ उत्तम ब्रह्मचर्य्य ४८ वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्षपर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य्य करता है उस के प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ जो आचार्य्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य्य

का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चार सौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें जैसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णाता किञ्चित्परि-  
हाणिश्चेति । आपोडशाद्बृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् । आ-  
चत्वारिंशतः सम्पूर्णाता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह मुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है । इस शरीर की चार अवस्था हैं एक ( बृद्धि ) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है दूसरी ( यौवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में शुभावस्था का आरम्भ होता है तीसरी ( सम्पूर्णाता ) जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी ( किञ्चित्परिहाणि ) जब सब साज्जोपाज्ज शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णाता को प्राप्त होते हैं तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है । वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना । ( अन्न ) क्या यह ब्रह्मचर्य्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? ( उत्तर ) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य्य करे तो १६ वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य सेवन रक्त्से अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरणपर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकें तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को आंम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना ।

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ।  
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शम-  
श्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अ-  
ग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने  
च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ।  
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपा० ७ । अनु० ६ । का वचन है—ये पढ़ने पढ़ाने वालों के  
निबन्ध हैं । (ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें ( सत्यं० ) सत्याचार से सत्य  
विद्यार्थों को पढ़ें वा पढ़ावें ( तपः० ) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों  
को पढ़ें और पढ़ावें ( दमः० ) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और प-  
ढ़ाते जायें ( शमः० ) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें  
( अग्नयः० ) आहवनीयादि अग्नि और विद्युत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और  
( अग्निहोत्रं० ) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें ( अतिथयः० ) अ-  
तिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( मानुषं० ) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को य-  
थायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए  
पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजन० ) वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्र-  
जातिः० ) अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

मनु० अ० ४ । २०४ ॥

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तत्रार्हिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

योग० साधनपादे सूत्र ३० ॥

अर्थात् ( अर्हिसा ) वैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही क-



रना ( अस्तेय ) अर्थात् मन वचन कर्म से चोरी का त्याग ( ब्रह्मचर्य ) अर्थात् उपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता छोड़ स्वत्वाभिमानरहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अर्थात्:---

**शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥**

**योग० साधनपादे सू० ३२ ॥**

( शौच ) अर्थात् म्नानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक् प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना ( तप ) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( ईश्वरप्रणिधान ) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है: ---

**कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।**

**काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥**

**मनु० अ० २ । २ ॥**

अर्थ—अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्म किसी से न हो सकें इसलिये:—

**स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।**

**महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥**

**मनु० अ० २ । २८ ॥**

अर्थ—( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( व्रत ) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि नियम पालने ( होम ) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पक्षेष्ट्यादि करने ( सुतैः ) सुसन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और ( यज्ञैः ) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञा-

नादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता:—

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्दिद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥

मनु० २ । ८८ ॥

अर्थ—जैसे विद्वान् साराथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खँचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि:—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

मनु० २ । ९३ ॥

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तब ही सिद्धि को प्राप्त होता है:—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कश्चित् ॥

मनु० २ । ९७ ॥

\*जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:—

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १०५ । १०६ ॥

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बंद नहीं किये जा सकते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्यायशोबलम् ॥

मनु० २ । १२१ ॥

जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उस के आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन के आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

अर्हिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सन्ध्यागुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १५९ । १६० ॥

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जो धर्म की उन्नति चाहें वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

संमानाद्ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विधादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥

मनु० २ । १६२ ॥

वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ।

अग्नेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन् सञ्चिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ मनु० २ । १६४ ॥

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

मनु० २ । १६८ ॥

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥

वर्जयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माख्यं रसान् स्त्रियः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १ ॥

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षणोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥ २ ॥

धूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ ३ ॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित् ।

कामाद्भिः स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥

मनु० २ । १७७-१८० ॥

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गों का मर्दन, विना निमित्त उपम्येन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ द्यूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ दें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवें वीर्य्यस्वलित कभी न करें जो कामना से वीर्य्यस्वलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य्य व्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर ।  
 स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्य्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं  
 मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान् प्रमदितव्यम् । धर्मान् प्रमदितव्यम् ।  
 कुशलान् प्रमदितव्यम् । भूतै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रव-  
 चनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ।  
 मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य्य देवो भव । अति-  
 थिदेवो भव । यान्यनवधानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत-  
 राणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरा-  
 णि । ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रशसित-  
 व्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हि-  
 या देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्म-  
 विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः  
 सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूना धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र  
 वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः । एष आदेश एष उपदेश एषा वे-  
 दोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदु-  
 पास्यम् ॥ तैत्तिरीय • प्रपा • ७ अनु • ११ । कं • १।२।३। ४ ॥

आचार्य्य अन्तेवामी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन दे कर विवाह कर के सन्तानोत्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य्य की वृद्धि को मत छोड़ प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्यभाषणादि को किया कर उन से भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे मुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हों उन का ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण हों उन को कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुझ को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातरहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में वृत्त वैसे तू भी उस में वर्त्तीकर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् और यही शिखा है इसी प्रकार वर्त्तना और अपना चालचलन सुधारना चाहिये ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्धि कुहते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

मनु० २ । ४ ॥

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः रमार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचाराद्द्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत् ॥ २ ॥

मनु० १ । १०८ । १०९ ॥

कहने, मुनने, मुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहै ॥१॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदानिन्दकः ॥

मनु० २ । ११ ॥

जो वेद और वेदानुकूल आस पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदानिन्दक नास्तिक को जाति, पङ्क्ति और देश से बाहर कर देना चाहिये क्योंकि:—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

मनु० २ । १२ ॥

वेद, स्मृति वेदानुकूल आसोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, मत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माऽधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु० २ । १३ ॥

जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्णादि रत्न और ( काम ) स्त्री सेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड भूटा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते करते हैं । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेहार हैं वे कभी भित्तावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में विद्या मुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है—परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है । दूसरी जो २ सृष्टिक्रम से अनुकूल वह २ सत्य और जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहै कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से असत्य है । तीसरी "आप्त" अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का सङ्ग उपदेश के अनुकूल है वह २ ब्राह्म और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है । चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे



ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । और पांचवीं आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहास, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणानि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसा-  
यात्मकप्रत्यक्षम् ॥ न्याय० ॥ अध्याय १ । आह्निक १ । सूत्र ४ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तू जल ले आ" वह ला के उस के पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहां "जल" इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । "अव्यभिचारि" जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । "व्यवसायात्मक" किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि "वहां बस्त्र मूख रहे हैं जल है वा और कुछ है" "वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त" जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥

दूसरा अनुमानः --

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो-

दृष्टञ्च ॥ न्याय० ॥ अध्याय १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पूर्व-

तादि में धूम को देख के अग्नि, जगत् में मुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक " पूर्ववत् " जैसे बहनों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत् । दूसरा "शेषवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण देख के मुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं । तीसरा "सामान्यतोदृष्टः," जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि "अनु अर्थात् प्रत्यक्षस्य पश्चान्मी-यते ज्ञायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥

तीसरा उपमानः -

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० ॥

अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं । "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि "तू विष्णुमित्र को बुला ला" वह बोला कि "मैंने उस को कभी नहीं देखा" उस के स्वामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय होता है जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उस को ले आया । अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥

चौथा शब्द प्रमाणः—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय

पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिस से मुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने पृथिवी से लेके परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आस परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं का शब्दप्रमाण जानो ॥

पांचवा ऐतिह्यः :-

न चतुष्टुमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् ॥ न्याय० ॥ अ०

२ । आ० २ । सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥

छठा अर्थापत्तिः

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्य भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवति” । जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इस से बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥

सातवां सम्भवः —

“सम्भवति यस्मिन् स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥

आठवां अभावः—

“न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले आ” वह वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां से ले आया। ये आठ प्रमाण। इन में से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्याऽसत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां प-  
दार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसम् ॥ वै० ॥

अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर "साधर्म्य" अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ "वैधर्म्य" अर्थात् पृथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब उस से "निःश्रेयसम्" मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुरोकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्या-  
णि ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं ।

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥ वै० ॥ अ०  
१ । आ० १ । सू० १५ ॥

"क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन्तत् क्रियागुणवत्" जिस में क्रिया गुण और के-  
वल गुण रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और  
आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन  
क्रियारहित गुणवाले हैं ( समवायि ) "समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि, प्राग्वृत्तित्वं का-  
रणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्" "लक्ष्यते येन लक्षणम्" जो मिलने  
के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लक्ष्य  
जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उस को लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शवतीपृथिवी ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० १॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है । उस में रूप, रस और स्पर्श अग्नि जल  
और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य त्रापो द्रवः स्निग्धाः ॥ वै० ॥ अ० २ ।

त्रा० १ । सू० २ ॥

रूप रस, और स्पर्शवान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इन में जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं ॥

अप्सु शीतता ॥ वै० ॥ अ० २ । त्रा० २ । सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० ॥ अ० २ । त्रा० १ । सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इस में रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

स्पर्शवान् वायुः ॥ वै० ॥ अ० २ । त्रा० १ । सू० ४ ॥

स्पर्श गुण वाला वायु है । परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥ अ० २ । त्रा० १ । सू० ५ ॥

रूप रस गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है ॥

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २ ।

त्रा० १ । सू० २० ॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है ॥

कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै० ॥ अ०

२ । त्रा० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं त्रिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ वै० ॥ अ०

२ । अ० २ । सू० ६ ॥

जिस में अपर पर ( युगपत् ) एकवार ( चिरम् ) बिलम्ब (क्षिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणो कालाल्येति ॥ वै० ॥ अ०

२ । अ० २ । सू० ९ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है ॥

इत इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २ । अ० २ ।

सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ वै० ॥

अ० २ । अ० २ । सू० १४ ॥

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उस को पूर्व दिशा कहते हैं । और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० ॥ अ० २ । अ०

२ । सू० १६ ॥

इस से पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैर्ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्देपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्याय० ॥

अ० १ । सू० १० ॥

सत्यार्थप्रकाशः ॥

जिस में ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, ( ज्ञान ) जानना गुण हों वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुखदुः-

खेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥ अ० ३ । आ०

२ । सू० ४ ॥

( प्राण ) बाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान ) भीतर से वायु को निकालना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः ) मनन विचार अर्थात् ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उन से विषयों का ग्रहण करना ( अन्तर्विकार ) लुधा, तृषा, ज्वर, पीडा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात् कर्म और गुण हैं ॥

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० ॥ अ० १ । आ०

१ । सू० १६ ॥

जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:—

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ

परत्वाऽपरत्वे बुद्ध्यः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥

वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥

द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुण-

लक्षणम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे ॥

श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेणाऽभिज्वलित आकाशदेशः  
शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥

जिस की श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि ग-  
णना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात् हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिस से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, ( प्रयत्न ) अ-  
नेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, ( धर्म ) न्यायाच-  
रण और कठिनत्वादि, ( अधर्म ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस २४ गुण हैं ॥

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥

वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

“उत्क्षेपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेष्टा करना “आ-  
कुञ्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इन को कर्म कहते हैं । अब कर्म का लक्षणः ---

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥

वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १७ ॥

“एकद्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तद्गुणं  
संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” “अथवा यत् क्रियते तत्कर्म, ल-  
क्ष्यते येन तल्लक्षणम्, कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम्” द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग  
और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उस को कर्म कहते हैं ॥



द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० १ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ वै० ॥ अ०

१ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० २ सू० ३ ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वै० ॥ अ० ७ ।

आ० २ । सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुण गुणी जाति व्यक्ति कार्य कारण अवयव अवयवी इन का नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है ॥

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० १ । सू० ९ ॥

जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्भ होता है उस को साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योंत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् “द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ॥

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य होता है ॥

न तु कार्याभावात्कारणभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २ ॥

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ०

१ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है:-

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्दिशेषाभावाच्च ॥ वै० ॥ अ० ७ ।

आ० १ । सू० ११ ॥

( अणु ) सूक्ष्म ( महत् ) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिप्ता से छोटा और द्रव्यणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० ॥ अ० १ । आ०

२ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुण कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् "सद् द्रव्यम्—सत् गुणः—सत्कर्म" सत् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म अर्थात् वर्तमान कालवार्त्ता शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥

भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्त्वरूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावान्प्रागसत् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व ( असत् ) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:—

सदसत् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० २ ॥

जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है ॥ तीसरा:—

सञ्चासत् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे "अगौरश्वोऽनश्वो गौः" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथा:—

यच्चान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे "नर-शृङ्ग" अर्थात् मनुष्य का सींग "स्वपुष्प" आकाश का फूल और "बन्ध्यापुत्र" बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवा:—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥ वै० ॥

अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० ॥ अ० १ । आ०  
२ । सू० ११ ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तदुष्टज्ञानम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥ वै० ॥

अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० ॥ अ० ७ । आ० १ । सू० ३ ॥

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणवन्नित्यम् ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० १ ॥

जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात्:—  
“सत्कारणवन्नित्यम्” जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैङ्गिकम्

॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात् लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात् जनाने वाला है “विरोधि” जैसे हुई वृष्टि होनेवाली वृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति” :—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्य० ॥ अ० ५ ।

सू० २९ । ३१ । ३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है । २९ । तथा व्याप्य जो धूम उस की निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के ज्वेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है । ३१ । जैसे महत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है । ३२ । इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावें उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन परिक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि—

लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसाद्धिः ॥

लक्षण जैसा कि “गन्धवती पृथिवी” जो पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इन से सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस के बिना कुछ भी नहीं होता ॥

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिद्धा जो कि सूत्ररूप है उस की रीति अर्थात् इम अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे “प” इस का ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादैच्” फिर

पदच्छेद "वृद्धिः, आत्, ऐच् वा आदैच्" फिर समास "आक्षेपेच्च आदैच्" और अर्थ जैसे "आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते" अर्थात् आ, ऐ, औ की वृद्धिसंज्ञा की जाती है "तः परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः" तकार जिस से परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त् और त् से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण (भागः) यहां "भज्" धातु से "घञ्" प्रत्यय के परे "च्, ज्" की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया पश्चात् "भज् अ" यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार को वृद्धि-संज्ञक आकार हो गया है । तो भाज् पुनः "ज" को ग् हो अकार के साथ मिल के "भागः" ऐसा प्रयोग हुआ "अध्यायः" यहां अधिपूर्वक "इङ्" धातु के ह्रस्व इ के स्थान में "घञ्" प्रत्यय के परे "ऐ" वृद्धि और उस को आय हो मिल के "अध्ययः" "नायकः" यहां "नीञ्" धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में "एवुल्" प्रत्यय के परे "ऐ" वृद्धि और उस को आय् होकर मिल के "नायकः" और "स्तावकः" यहां "स्तु" धातु से "एवुल्" प्रत्यय होकर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि आव् आदेश होकर अकार में मिल गया तो "स्तावकः" ( कृञ् ) धातु से आगे "एवुल्" प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा हो के लोप "वु" के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में "आर्" वृद्धि होकर "कारकः" सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उन का कार्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे "भञ्+घञ्+मु" इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ज् का लोप होकर "भज्+अ+मु" ऐसा रहा फिर अ को आकार वृद्धि और ज् के स्थान में "ग्" होने से "भाग्+अ+मु" पुनः अकार में मिल जाने से "भाग+मु" रहा अब उकार की इत्संज्ञा "स्" के स्थान में "रु" हो कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने के पश्चात् "भागर्" ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (ः) विसर्जनीय होकर "भागः" यह रूप सिद्ध हुआ । जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पद पदा के और लिखवा कर कार्य कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है । एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पदा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कर्मशयण्" कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण् प्रत्यय हो जैसे "कुम्भकारः" पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे "आतोऽनुपसर्गे कः" उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से "क" प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से "अण्" प्राप्त होता है

उस से विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को "क" प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द-अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातुपाठ के पश्चात् उणादिमाण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शब्दा, समाधान, वार्त्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात् जो बुद्धिमान्, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्या-वृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोधकर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुम्भ अर्थात् सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान् विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन लुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है। महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और लुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी जिस को बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना। और अर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिवृत्त निघण्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ावें। अन्य नास्तिककृत अमरकोषादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत छन्दोग्रन्थ जिस से वैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखें इस ग्रन्थ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्ताव को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वृत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें। तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकीयरा-मायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से

दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सम्भवता प्राप्त हो जैसे को कान्य रीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जानावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात् जहांतक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्तसूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें पश्चात् छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः—

स्थाणुरयं भारह्वारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

निहत्त १ । १८ ॥

जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ७१ । मं० ४ ॥

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का



प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविधे निषेदुः ।  
यस्तन्न वेदं किमुचा कर्ष्यति य इत्तद्दिदुस्त इमे समासते ॥  
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३९ ॥

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी मूर्ख आदि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ मुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं ? किन्तु जो वेदों को पद के धर्मरूपा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थ-ज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पद के आयुर्वेद अर्थात् जो चरक, मश्रुत आदि अषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शर्णादि, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसम्बन्धी काम करना है इस के दो भेद एक निज राज पुरुष सम्बन्धी और दूसरा प्रजा सम्बन्धी होता है । राजकार्य में सब सेना के अन्वेषण शस्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिस को आज कल "कवायद" कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में किया करनी होती है उन को सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड भेदों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीख कर गान्धर्ववेद कि जिस को गानविद्या कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्त, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्त-वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ अर्ष ग्रन्थ हैं उन को पढ़ें परन्तु मधुवे वेस्था और विषयासक्तिकारक वैरागियों के गर्दभशब्दवत् स्वर्थ आलापकभीन करें । अर्थवेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिष

शास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिस में बीजगणित, अक्ष, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है इस को बचावत् सीखें तत्परचात् सब प्रकार की हस्तक्रिया यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को झूठ समझ के कभी न पढ़ें और न पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस से बीस वा इकीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इकीस वर्ष में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती ।

ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और अनृषि अर्थात् जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिन का आत्मा पक्षपातसहित है उन के बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिवृत्त व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिवृत्त, न्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिवृत्त भाष्य, पतञ्जलिमुनिवृत्त सूत्र पर व्यासमुनिवृत्त भाष्य, कपिलमुनिवृत्त सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिवृत्त भाष्य, व्यासमुनिवृत्त वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिवृत्त भाष्य अथवा बौद्धायनमुनिवृत्त भाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्वेद-साम और अथर्व-चारों-वेद ईश्वरवृत्त हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अथर्ववेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं इन में भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरवृत्त होने से विरुद्ध स्वतःप्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात् इन का प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उन का परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में कात्तन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शंखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशदि । छन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनिवृत्त मतं यथा । इत्यादि । ज्योतिष में शिवबोध मुहूर्त्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकभेद, कुशलवा-

नन्द, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनीयादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्कसङ्ग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्य-तत्त्वकौमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ, पञ्चदश्यादि । वैद्यक में शार्ङ्गधरादि । स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रसिद्ध श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तन्त्र ग्रन्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, ~~कुशावलीसंहिता, अथर्वसामयज्ञ, इतिहासीपञ्चस्यदि~~ और सर्वभाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं ( प्रश्न ) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुतसा असत्य भी है इस से “विषसम्यूक्ताजवत् त्याज्याः” जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? ( उत्तर )

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्बान् गाथा नाराशंसीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्भगवत्सूत्रादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो २ त्याज्य ग्रन्थों में सत्य है उस का ग्रहण क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादि सत्य शब्दों का है और मिथ्या है वह उन के घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहै तो मिथ्या भी उस के गले लिपट जावे इसलिये “असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को ( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? ( उत्तर ) वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस २ का ग्रहण यथावत् करना छोड़ना मानते हैं जिसलिये वेद हम को मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विरोध आर्यों को एकमत्य होकर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिविषय में छः शास्त्रों का विरोध है:—मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि तुम को विशेषविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुम से पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ?

क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रश्न ) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसे एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न २ छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे षडे के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है। इस से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्टि-प्रकरण में कहेंगे ॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उन को छोड़ देवें जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट विषयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात् पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान् इन को सत्य मूर्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, बर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना, काश्यादि तीर्थ और साम, कृष्णा, नारायण, शिव, भगवती, मणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होजे का विश्वास, पाण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराखनामक भाववतादि

की कथादि से मुक्ति का मानना. लोभ से धनादि में प्रवृत्त हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और सूखे बने रहते हैं ।

आजकाल के सम्पदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाषंड जाल से छूट और हमारे कुल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान् करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें ( प्रश्न ) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है:--

### स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः ॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है ( उच्चर ) सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है । तुम कुआ में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं । और सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने मुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र है:—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनैभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां  
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु० अ० २६ । २ ॥

परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जैसे मैं ( जनैभ्यः ) सब मनुष्यों के लिये ( इमाम् ) इस ( कल्याणीम् ) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के मुक्त देनेहारी ( वाचम् ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं ( उच्चर ) ( ब्रह्मराजन्याभ्यां ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अर्ध्याय ) वैश्य ( शूद्राय ) शूद्र और ( स्वाय ) अपने भृत्य वा स्त्रीआदि ( अरणाय ) और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकार किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और मुन मुना कर विज्ञान को बढ़ा के

अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग कर के दुःखों से लूट कर आनन्द को प्राप्त हों। कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात अषश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि "नास्तिको वेदनिन्दकः" (वेदों का निन्दक और न माननेवाला नास्तिक कहाता है) क्या परमेश्वर शूद्रों का मत्ता करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं (और जहां कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है) और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हैं वह तुष्णारी भूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाणः—

ब्रह्मचर्य्येण कन्यायुवां विन्दते पतिम् ॥ अथर्व० ॥ कां०

११ । प्र० २४ । अ० ३ । मं० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्य्येण) ब्रह्मचर्य्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखो श्रौत्र सूत्रादि में :—

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शनपथब्राह्मण में

स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहै फिर सुख कहां ! इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥

देखो आर्य्यावर्ष के राज पुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतीं ! इसलिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया को सब विद्या वैश्या को व्यवहार विद्या और सूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इन के सीखे बिना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन वर्द्धन और मुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधवत् अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं जिस से घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना गणित विद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना वेदादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्यवादाह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें जिस से वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, मामु, श्वसुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से बचें । यही कोश अक्षय्य है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु० ७ । १५२॥

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान् कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उस के मातापिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहै जबतक समावर्त्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्गोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ मनु० ४ । २३३ ॥

संसार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अति श्रेष्ठ है । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इस के आगे चौथे समुल्लास में समावर्त्तन और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥





अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः ॥

अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ मनु० ३ । २ ॥

यथावत् ब्रह्मचर्य में आचार्यानुकूल वर्त्न कर धर्म से चारों, तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्त्रिव्रणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु० ३ । ३ ॥

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने-वाला अपने पलङ्ग में बैठा हुआ शिष्य है आचार्यादि उस का प्रथम गोदान से सत्कार करें जैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थिनी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्देहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥ मनु० ३ । ४ ॥

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

असपिराडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु० ३ । ५ ॥

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इस का यह प्रयोजन है कि:—

**परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ •**

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उस का मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं ( १ ) एक—जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नञ्जे भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता ( २ ) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती ( ३ ) तीसरा—जैसे दूध में मिश्री वा शुंठ्यादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है ( ४ ) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है ( ५ ) पांचवें—निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं ( ६ ) छठे—दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:—

**दुहिता दुहिता दूरेहिता दोग्धेर्वा ॥ निरु० ३ । ४ ॥**

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं ( ७ ) सातवें—कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इस को कुछ न कुछ देना ही होगा ( ८ ) आठवां—कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के

सहाय का धमराड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भट्ट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छुः पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु० ३ । ६ ॥

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसंबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे:—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्श्रन्दो रोमशार्शसम् ।

क्षय्यामयाव्यपस्मारिशिव्रतकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० ३ । ७ ॥

जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाराशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हों उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥

नोदहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान् पिङ्गलाम् ॥

मनु० ३ । ८ ॥

न पीले वर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लम्बी चौड़ी, अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहिता, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने हारी और न भूरे नेत्रवाली ॥

नर्त्तवृत्तनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पक्ष्यह्रिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ मनु० ३ । ९ ॥

न नृत्य अर्थात् अभिनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीवाह, चित्तरि आदि नक्षत्र नामवाली, तुलसिआ, गेंदा, गुलाबी, चंशा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा यमुना आदि

नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुवरि, चण्डिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥

अध्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशानां मृद्गीमुद्देत्स्त्रियम् ॥ मनु० ३ । १० ॥

जिस के सरल मूषे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिस का नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिस की चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दांत युक्त और जिस के सब अङ्ग कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है ( उत्तर ) सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और पच्चीसवें वर्ष से लेके अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाहसमय उत्तम है इस में जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और विगड़ने से विगाड़ हो जाता है । ( प्रश्न )

अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥ ११ ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥

तयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥ १

ये श्लोक पराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि—कन्या की आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उस के आगे रजस्वला संज्ञा होती है

॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस के माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । ( उत्तर )

### ब्रह्मोवाच

एकक्षणा भवेद् गौरी द्विद्वेषोयन्तु रोहिणी ॥

त्रिद्वेषा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥ १ ॥ उस रजस्वला को देख के उसी के माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) वाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है ! जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्रक्षण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है । क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व शरीर बलिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल्युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं \* जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव

\* उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरि जी मुश्रुत में निषेध करते हैं:—

ऊनपेऽदशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥

है जैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हम ने "ब्रह्मोवाच" करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनु में:-

तीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यनुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्द्विदेत सद्यज्ञं पतिम् ॥ मनु० १।१० ॥

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षपर्यन्त पति का खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्नुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कश्चित् ॥ मनु० १।८९ ॥

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध

जाते वा न चिरंजीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ॥

तस्मादत्यन्तबालार्यां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥

सुश्रुत शारीरस्थ अ० १० । श्लो० ४७ । ४८ ॥

अर्थ -- सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुत्तिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् पूर्ण काल तक गर्भाशय में रह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो, इस कारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे ॥ २ ॥

ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता । इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं ॥

गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥

( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे : ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और—

यन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु० ३।६० ॥

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त्त में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है, जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणदि यथायोग्य होना चाहिये। जबतक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता।

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः ।

तं धीरांसः क्वय उन्नयन्ति स्वाध्यो ऽ मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥

ऋ० ॥ मं० ३।सू० ८।मं० ४ ॥

आधेनवो धुनयन्तामशिश्नीः शब्दुधाः शश्या अप्रदुग्धाः ।

नव्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महदेवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥

ऋ० ॥ मं० ३।सू० ५५।मं० १६ ॥

पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः । मि

नाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीवृषणो जगम्युः ॥ ३ ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० १७९ । मं० १ ॥

जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य्ययुक्त ( युवा ) पूर्ण ज्वान हो के विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात् ) आता है ( स. उ ) वही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान् ) अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी ( भवति ) होता है ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त ( धीरासः ) धैर्ययुक्त ( कवयः ) विद्वान् लोग ( तम् ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील कर के प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्टग्रष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन ( धेनवः ) गौओं के समान ( अशिथीः ) बाल्यावस्था से रहित ( शबर्दुग्धाः ) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी ( श-शयाः ) कुमारावस्था को उल्लङ्घन करनेहारी ( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण ( भवन्तीः ) वर्तमान ( युवतयः ) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम् ) ब्रह्मचर्य्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के ( एकम् ) अद्वितीय ( महत् ) बड़े ( अमुरत्वम् ) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के ( आधुनयन्ताम् ) गर्भधारण करें । कभी भूलके भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है बाल्या-वस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः ) वीर्य्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को ( ज-गम्युः ) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्त्ते जैसे ( पूर्वीः ) पूर्व वर्त्तमान ( शरदः ) शरद् ऋतुओं और ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली ( उपसः ) प्रातःकाल की बेलाओं को ( दोषा ) रात्री और ( वस्तोः ) दिन ( तनूनाम् ) शरीरों की ( श्रियम् ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है



वैश्वे ( अहम् ) में स्त्री वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचर्य्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त होही के विवाह करूँ इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥३॥

जबलक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या कान पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्य्यावर्त देश की हानि होती चली आई है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार में स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । ( प्रश्न ) क्या जिस की माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मण होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्गस्थ हों उन का मन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हैं और हमें भी जैसे ऋग्वेद उपनिषद् में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा ( प्रश्न ) मन्ना जो रज वीर्य्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? ( उत्तर ) रज वीर्य्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु: —

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २ । २८ ॥

इस का अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी सङ्क्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) पढ़ने पढ़ाने ( जपैः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधियुक्त ( सुतैः ) धर्म से सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञैश्च ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ ( यज्ञैश्च ) अग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का सङ्ग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पद के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठान्तर में वर्तने से ( इयम् ) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं । फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से

लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हारी सधी समझ है इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:-

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन् रिष्यते ॥ मनु० ४ । १७८ ॥

जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चले परन्तु ( सताम् ) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चले । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इस को तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उस के विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये । जो ऐसा न माने उस से कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे ! क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिस का पिता कुकर्मी हो क्या उस का पुत्र भी कुकर्म को ही करे ! नहीं ३ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कर्म हों उन का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है । जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रमव्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज, अथवा कृश्चीन, मुसलमान हो गया हो उस को भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है । इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाववाला होवे तो उस को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ( प्रश्न )

† ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहू रंजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यहैश्वर्यः पद्भ्यांशूद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है । इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो तुम ने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है । जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते जो मुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान्, जगत् का लघा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इस का यह अर्थ है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( बाहू ) “बाहुर्वै बलं बाहुर्वै वीर्यम्” शतपथब्राह्मण । बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिस में अधिक हो सो ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरू के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह ( वैश्यः ) वैश्य और ( पद्भ्याम् ) जो पग के अर्थात् नीच अङ्ग के सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है । अन्यत्र शतपथब्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:—

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसृज्यन्त इत्यादि ।

जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अङ्गों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है । जैसा कि बंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना ! और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे मुख का आकार गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश वैश्यों के ऊरू के तुल्य और शूद्रों का शरीर पग के समान आकार

वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न हो कर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हम ने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

+

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु० १० । ६५ ॥

शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाववाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ।

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति-  
परिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जाति-  
परिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इस से क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी

वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी ( प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा इस की क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुल भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परिष्ठा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं:—

+ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥१॥ मनु० १।८८ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजैवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥ म० गी०

अध्याय १८ । श्लोक ४२ ॥

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” मनु० । अर्थात् ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ ( शमः ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उस को अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना ( दमः ) श्रोत्र और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हो के धर्मानुष्ठान करना ( शौचः )—

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु० ५।१०१ ॥

जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर राग द्वेषादि दोष और बाहर के मत्तों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्यासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है ( क्षान्ति ) निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण लुधा वृषा हानि लाभ

मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना ( आर्जव ) कोमलता निर-  
भिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शास्त्रों  
को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्याय जो वस्तु जैसा हो अर्थात्  
जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना ( विज्ञान ) पृथिवी से लेके परमेश्वर-  
पर्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उन से यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य )  
कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वपरजन्म, धर्म, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, आचार्य्य और  
अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और  
गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ क्षत्रियः

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । १

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु० १ । ८३ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥

भ० गी० ॥ अध्याय १८ । श्लो० ४३ ॥

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का  
तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और मुपात्रों  
की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना ( अध्य-  
यन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( विषयेषु० ) विषयों में न फंस कर जितेन्द्रिय रह के स-  
दा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥ १ ॥ ( शौर्य ) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध  
करने में अकेले को भय न होना ( तेजः ) सदा तेजस्वी अर्थात् दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़  
रहना ( धृति ) धैर्यवान् होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब  
शास्त्रों में अति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रहके उस से कभी न ह-  
टना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चित विजय होवे आप बनें  
जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना ( दान )  
दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पक्षपातरहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्तना वि-  
चार के देना प्रतिज्ञा पूरी करना उस को कभी भंग न होने देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण  
के कर्म और गुण हैं ॥ २ ॥ वैश्यः—

† पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० १ । १० ॥

( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना ( दान ) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वणिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना ( कृषि ) खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्रः—

† एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूपामनसूयया ॥ मनु० १ । ११ ॥

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत् करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का गुण कर्म है ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उत्तमिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है ॥

विवाह के लक्षण ॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु० ३ । २१ ॥

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा दैव तीसरा आर्ष चौथा प्राजापत्य पांचवां आमुर छटा गान्धर्व सातवां राक्षस आठवां पैशाच । इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक् कर्म करते हुए जामाता को अलंकारयुक्त कन्या का देना “दैव” । वर से कुछ ले के विवाह होना “आर्ष” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” । वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना “आमुर” । अनियज असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई करके बलात्कार अर्थात् छीन झपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” । शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच” । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव और प्राजापत्य मध्यम, आर्ष आमुर और गान्धर्व निकृष्ट, राक्षस अधम और पैशाच महाअष्ट है । इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिविम्ब अर्थात् जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज दें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात् जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समझें उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में दें और कहें कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समझ हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत शास्त्रार्थ करना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी



समा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रनोत्तर कर लें जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रच के अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें । पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन "संस्कारविधि" (पुस्तकमथ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति-प्रसन्नता से सब के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्य्यस्थापन और स्त्री वीर्य्यकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीर्य्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्य्य के गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् मूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें डिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे येमि को ऊपर संकोच कर वीर्य्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थिति करे । पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय ही जाता है परन्तु इस का निश्चय एक मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है । सोंट, केसर, असंगंध, छोटी इलायची और सालमभित्री डाल गर्म कर रक्वा हुआ जो ठण्डा दूध है उस को यथारुचि दोनों पी के अलग २ अपनी २ शय्यामें शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्षपर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है । अन्यथा वीर्य्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अबश्य रखना चाहिये पुरुष वीर्य्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन द्वादन

\* यह बात गृह्य की है इसलिये इतने ही से समग्र बातें समझ लेनी चाहिये विशेष लिखना उचित नहीं ॥

इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तमरूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त हो कर दशवें महीने में जन्म होवे विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादक द्रव्य बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन्न पान और देश काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे। गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् शुगठीपाक अथवा सौभाग्यशुगठीपाक प्रथम ही बनवा रखे उस समय सुगंधियुक्त उष्ण जल जो कि किंचित् उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाडीछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भीतर सुगंधादियुक्त घृणादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता “वेदोसीति” अर्थात् तेरा नाम वेद है सुना कर घी (और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर “ओ३म्” अक्षर लिख कर मधु और शृत को उसी शलाका से चटवावे) पश्चात् उस की माता को दे देवे जो दूध पीना चाहै तो उस की माता पिलावे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घीका होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे (और योनिस्कोचादि भी करे) छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रखे उस को स्नान पान अच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिस से दूध स्रवित न हो उसी प्रकार स्नान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे पश्चात् नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की रीति से यथाकाल करता जाय। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्वृत्तो रतिकाम्यया ॥ मनु० ३ । ४५ ॥

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्यैव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु० ३ । ५० ॥

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में स्त्री से पृथक् रहता और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ।

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥

मनु० ३ । श्लो० १६०—६२ ॥

जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहां कलह होता है वहां दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस की अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःस्वदायक हो जाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥

यत्र नार्घ्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥ मनु०

३ । श्लो० ५५—५७ । ५९ ॥

पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इन को सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखें जिन को बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा वर्द्धता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार है (और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा पृथक् हों तब २ प्रीतिपूर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से करें) ।

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु० ५ । १५० ॥

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रखे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात् यथायोग्य खर्च करे और सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जो २ व्यय हो उस का हिसाब बधावत् रख के पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु० २ । २४० ॥

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद् भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥

मनु० ४ ॥ १३८ । १३९ ॥

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात् कारण को कारण न बोले अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २ ॥ जो २ दूसरे का हितकारी हो और नुरा भी माने तथापि कहे विना न रहै ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपर्व विदुरनीति० ॥

हे धृतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो उस का कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सन्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से झूट कर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्दा न करे जैसे :—

“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात् “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिबृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।  
 नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ १ ॥  
 यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समाधिगच्छति ।  
 तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥  
 मनु० ४ ॥ १९ । २० ॥

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र और वेद हैं उन को नित्य सुनें और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उन को स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ १ ॥ मनु० ४।२।१॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥ मनु० ३ । ७० ॥

स्वाध्यायेनार्चयेत्तर्षीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धैर्नृनचैर्भूतानि वलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु० ३ । १८ । १॥

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सं-  
 ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण  
 दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं ।

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य

दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायंसायं सौमनसस्य

दाता ॥ २ ॥ अ० । कां० १९ । अनु० ७ । मं० ३ । ४ ॥

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत ।

उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् ॥ ३ ॥ षड्विंशब्राह्मणे ।

• प्र० ४ । खं० ५ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु परित्रमाम् ।

स गृद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥

मनुः २ । १०३ ॥

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥१॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत-द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥२॥ इसीलिये दिन और रात्रि की संधि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम जो सायं और प्रातःकाल में न करे उस को सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल दें अर्थात् उसे गृद्रवन् समझें ॥ ४ ॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? ( उत्तर ) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि ३ी सायं प्रातः दो ही बेला में होती है जो इस को न मान कर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या माने वह गन्ध-रात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और क्षण २ की भी संधि होती हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो होई नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भविष्यत् और वर्तमान के भेद से हैं सन्ध्यो-पासन के भेद से नहीं ( तीसरा "पितृयज्ञ" अर्थात् जिस में देव जो विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी ) । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात् "श्रत्" सत्य का नाम है "श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम्" जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उस को श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उस का नाम श्राद्ध है । और "तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्" जिस २ कर्म से तृप्त अर्थात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जाय उस का नाम तर्पण है । परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं ।

ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।  
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणारतृप्यन्ताम् ।  
इति देवतर्पणम् ॥

“विष्णोः शोः सिः देवः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है—जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साक्षोपांग चार वेदों के जाननेवाले हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हों उन का भी नाम देव अर्थात् विद्वान् है उन के सदृश उन की विदुषी स्त्री ब्राह्मणी देवी और उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के सदृश उन के गण अर्थात् सेवक हों उन की सेवा करना है उस का नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥

अथर्षितर्पणम् ॥

ॐ मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्य-  
न्ताम् । मरीच्याद्यृषिसुतास्तृप्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम् ।  
इति ऋषितर्पणम् ॥

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान् हो कर पढ़ावें और जो उन के सदृश विद्या-  
युक्त उन की स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन  
के समान उन के सेवक हों उन का सेवन सत्कार करना ऋषितर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम् ॥

ॐ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् । अग्निष्वान्ताः पितरस्तृप्यन्ता-  
म् । बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् । इ-  
विर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् । आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् । सुकालिनः  
पितरस्तृप्यन्ताम् । यमादिभ्यो नमः यमार्दीस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा  
नमः पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि ।  
प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि । माते स्वधा नमो  
मातरं तर्पयामि । पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि । प्रपि-



तामह्यै स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि । स्वपत्न्यै स्वधानमः स्व-  
पत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि ।  
सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि । इति निवृत्तार्थम् ॥

“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसद्ः” जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद् “यैरग्नेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निप्लासाः” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निप्लास “ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद् “ये सोमसैश्वर्यमोषधीरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्त और महौषधिरस का पानकरने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्त औषधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा “ये हविर्होतुमत्तुमर्हं भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हविर्भुज “य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्त और घृत दुग्धादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिन का अच्छा धर्म करने का मुखरूप समय हो वे सुकालिन “ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः” जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्त वा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुर्मता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्रपुरुष वा वृद्ध हों उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात् जिस २ कर्म से उन का आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वक उन की सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ॥

चौथा वैश्वदेव-अर्थान् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उस में से खट्टा लवणाल और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न ले कर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहोऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ मनु० ३। ८४॥

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उस का दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करें ।

आं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ।

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुह्वै स्वाहा ।

अनुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह घावापृथिवीभ्यां स्वा-

हा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ (इतिऽग्निहोत्रम्)

इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ बार आहुति-मण्डल-अग्नि में छोड़े पश्चात् थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रक्ते—

आं सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय  
वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । अद्र्भ्यो  
नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्यै नमः । ब्रह्मपतये  
नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भू-  
तेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः ॥ अति ॥

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे । इस के अनन्तर लवणाल अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । इस में प्रमाणः—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ मनु० ३। ९२ ॥

इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपम्भोनमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः” धर कर परचात् किसी दुःखी, बुभुक्षित, प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देवे । यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात् चीटी आदि को अन्न देना वह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने

का प्रयोजन यह है कि पाकरालास्य वायु का शुद्ध होना और (जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना) ॥

अब पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्वविद्वान्, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उस को प्रथम पाद्य अर्घ्य और आचमनीय तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उन को प्रसन्न करे पश्चात् सत्सङ्ग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपना चालचलन भी उन के सदुपदेशानुसार रखे । समय प्रा के गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु:—

पाषण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालवृत्तिकान् शठान् ।

हेतुकान् वकवृत्तीश्च वाङ्मानेणापि नार्चयेत् ॥ मनु० ४ । ३० ॥

( पाखण्डी ) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे ( विकर्मस्थ ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विडाला त्रिप और स्थिर रह कर ताकतार भ्रष्ट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्तिक (शठ) अर्थात् हठी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा मानें नहीं ( हेतुक ) कुतर्की व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादिशास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़े हांकने वाले ( वकवृत्ति ) जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थितके समान होकर भ्रष्ट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकल के वैरागी और स्वाकी आदि हठी दुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अर्धमयुक्त करते हैं आप तो अबन्तिके काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविचारूपी महासागर में डुबा देते हैं । इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल प्रत्याप्त के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इस को देव-

यज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता है। पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस का ज्ञान बढ़ेगा उस से सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा कृतज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उस का बदला देना उचित ही है। वलिवैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये वही है। जबतक उत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है बिना अतिथियों के संदेहनिवृत्ति नहीं होती संदेहनिवृत्ति के बिना दृढनिश्चय भी नहीं होता निश्चय बिना मुख कहां ?

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु० ४ । ९२ ॥

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि ।

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ मनु० ४ । १७४ ॥

क्रिया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे मुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से:—

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाऽजयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० ४ । १७५ ॥

अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ ( जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण कपट पाषंड अर्थात् रक्षा करनेवाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को ले कर प्रथम बढ़ता है परचात् धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, माष, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है

अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है परन्तु शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ से काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्ब्राह्मदरसंयतः ॥ मनु० ४ । १७५ ॥

विद्वान् वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥

ऋत्विक् पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः ।

वालवृद्धातुरैर्वैज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्राता पुत्रेण भार्यया ।

दुहिता दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ २ ॥

मनु० ४ ॥ १७९ । १८० ॥

( ऋत्विक् ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चालचलन की शिक्षा-कारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ाने हारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) जिस की कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( वृद्ध ) बुद्ध ( आतुर ) पीड़ित ( वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता ( ज्ञाति ) स्वगोत्र वा स्ववर्णस्थ ( संबन्धी ) श्वसुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( भ्राता ) भाई ( भार्या ) स्त्री ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

अनपस्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्हिजः ।

अभस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ मनु० ४ । १९० ॥

एक ( अनपाः ) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा ( अनधीयानः ) विना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने कुछ कर्मों के साथ ही दुःस्वसागर में डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं:—

त्विष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादानुरेव च ॥ मनु० ४ । १९३ ॥

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह धन दाता का नारा इसी जन्म और लेनेवाले का नारा परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो:—

यथा प्लुवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छिकौ ॥ मनु० ४ । १९४ ॥

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता और प्रहीता दोनों अयोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पारवंडियों के लक्षण ।

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्चाधिको लोकदम्भकः ।

वैडालवृत्तिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥ १ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो हिजः ॥ २ ॥

मनु० ४ ॥ १९५ । १९६ ॥

( धर्मध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठग ( सदा-लुब्धः ) सर्वदा लोभ से युक्त ( चाधिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे ( हिंस्रः ) प्रार्थियों का धातक अन्य से वैरमुद्धि रखने वाला ( सर्वाभिसन्धकः ) सब अच्छे और जुगों से भी भेल रखे उस को वैडालवृत्तिक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समझे ॥ १ ॥ ( अधोदृष्टिः ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे ( नैष्कृतिकः ) ईर्ष्यक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै ( स्वार्थसाधनः ) चाहें कपट अधर्म विश्वासघात कर्मों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाहें अपनी बात भूठी क्यों न हों परन्तु हठ कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) झूठ झूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखावावे उस को ( वक्रव्रत ) बगुले के समान नीच समझे ऐसे २ लक्षणों वाले पारवंडी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करे ॥

धर्म ज्ञानैः सच्चिन्नुयाह्वमीकमिव पुत्तिकाः ।  
 परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १ ॥  
 नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।  
 न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठतिकेवलः ॥ २ ॥  
 एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।  
 एकोनु भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥  
 मनु० ४ ॥ २३८-२४० ॥  
 एकः पापानि कुर्वते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।  
 भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥  
 महाभारते । उद्योगप० प्रजागरप० ॥ अ० १२ ॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥५॥ मनु० ४ । २४१ ॥

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् बांभी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न दे कर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का जो दुःखरूप फल उस को भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष प्राप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है उस को मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं कोई उस के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का सक्ती होता है ॥ ५ ॥

तस्मान्धर्मं सहायार्थं नित्यं सच्चिन्नुयाच्छनैः ।

धर्मैश्च हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा ह्यस्वर्गनिर्वाणम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं स्वहारोरिणम् ॥ २ ॥

मनु० ४ ॥ २४२ । २४३ ॥

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहार्थ नित्य धर्म का सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःख-सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता जिस का धर्म के अनुष्ठान से पाप दूर हो गया उस को प्रकारस्वरूप और आकार जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त करता है ॥ २ ॥ इसलिये:—

दृढकारी मृदुदान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ १ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ।

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृत्नरः ॥ २ ॥

आचाराब्जलभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमन्नय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ ३ ॥

मनु० ४ ॥ २४६ । २५६ । १५६ ॥

सदा दृढकारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उन का मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरी अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आशु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अज्ञान धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उस के आचरण को सदा किना करे ॥ ३ ॥ क्योंकि:—



दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ मनु० ६।१५७ ॥

जो दुराचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःखभागी और निरन्तर व्याधियुक्त हो कर अल्पायु का भी भोगने हारा होता है ॥ इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्त्सेवेन यत्नतः ॥ १ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥

मनु० ४ ॥ १५९ । १६० ॥

जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर भ्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कर्मा न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना कि जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री विक चुकी अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाग्रपर्यन्त जो कुञ्ज हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन हो जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें इन में बड़े अभियंकारक व्यभिचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवर्षस्व हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा मुशिद्धिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे ज्ञानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उन को विद्वान् करें स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात् सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है जबतक गुरुकुल में रहें तबतक माता पिता के समान अ-

ध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को समझें पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहियें—

आत्मज्ञानं समारम्भस्ति तद्वा धर्मनित्यता ।

यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धधान एतत्पण्डितलक्षणम् ॥ २ ॥

क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।

नासम्प्रोह्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।

अपसु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्तकथ उह्वान् प्रतिभानवान् ।

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

असंभिनार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के श्लोक हैं—( अर्थ ) जिस को आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहै सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य निश्चित रहै जिस के मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषयसम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सकें वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त अद्बालु हो यही पण्डित का कर्तव्याकर्तव्य कर्म है ॥ २ ॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में प्रयुक्त करे अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करे बिना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अर्थों की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे

आपत्काल में मोह को न प्राप्त अर्थात् व्यक्तुल न हो वही बुद्धिमान् परिहृत है ॥ ४ ॥ जिस की वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिपुण विचित्र, शक्तों के प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान् ग्रन्थों के मथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही परिहृत कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की मज्ञा मुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिस का श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही परिहृत संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि हो कर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षणः—

अश्रुतश्च समुच्चो दरिद्रश्च महामनाः ।

अर्थ्याश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनाहूतः प्रविशति ह्यष्टौ बहु भाषते ।

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजामर अध्याय ३२ के हैं—( अर्थ ) जिस ने कोई शास्त्र न पढ़ा न मुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर बड़े २ मनोरथ करने हारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान् लोग मूढ कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च आसन पर बैठना चाहे विना पूछे सभा में बहुत सा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अत्र विद्यार्थियों का लक्षणः—

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिमानीत्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ।

एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिना मताः ॥ १ ॥

सुस्वाधिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ।

सुस्वार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥

ये भी विदुस्त्रयजामर अध्यापक ३६ के स्लोक हैं—( अर्थ ) ( आलस्य ) अर्थात् शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किसी वस्तु में फैसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सातदोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करनेवाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़नेवाले को सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य अघःस्खलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ इसलिये शुभलक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिस से विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता मुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान् हों सदा उन की कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पढ़नेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिस से पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाय इत्यादि ब्राह्मण वर्ण के काम हैं । क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे । वैश्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आना लाभार्थ काम का अग्रम्भ करना पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर पाकविद्या में निपुण अतिश्रेष्ठ से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इस के स्नान, धान, बल्ल, स्थान विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ दें अथवा मसिक कर दें चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में एकमन्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना । स्त्री वा पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षट् ॥ मनु० १।११३ ॥

मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सक्त, पतिवियोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दर्शन के मिष से फिरती रहना और पराये घर में जा के शयन करना वा वास ये छः स्त्री को दूषित करनेवाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्त्तिके देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरी में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये ( प्रश्न ) स्त्री और पुरुष के ब्रह्म विवाह हैंनि योग्य हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) गुणपत न अर्थात् एक समय में नहीं ( प्रश्न ) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ? ( उत्तर ) हां जैसे:—

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्ता सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ मनु० १।१७६ ॥

जिस स्त्री वा पुरुष का पाक्षिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षतयोनि स्त्री क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये ( प्रश्न ) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? ( उत्तर ) ( पहिल ) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पति वा स्त्री के मरने के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उड़ाले जाना और उन के कुटुम्बवालों का उन से झगडा करना ( तीसरा ) बहुत से भद्रकुल का नाम वा चिन्ह भी न रह कर उस के पदार्थ जिन्ना मिल हो जाना ( चौथा ) पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( प्रश्न ) जब संसृष्टिके होना तब भी उस का पुनः नष्ट हो जायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि में प्रवृत्त हो के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुल की पर-

म्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का भेद ले लेंगे उस से कुल चलेगा और व्यवहार भी न होमा और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लें ( प्रश्न ) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ? ( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है ( दूसरा ) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उस का गोत्र होता न उस का स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृत पति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं ( तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं वा पृथक् २ ? ( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी स्त्री का विवाह होता है वैसे जिस की स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहै उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष की दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सम्भान कर सकती और एक मृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर संकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा भेद में है ।

इमां ( त्वमिन्द्र मीढः ) सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशस्त्रियां पुत्रानार्धेहि पतिमेकादशं कथि ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४५ ॥ ४५

हे ( मीढ्व, इन्द्र ) वीर्य सीचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सोभाम्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यवर्गस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निवृद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं ( प्रश्न ) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये ( प्रश्न ) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निरिचत पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं ! ( प्रश्न ) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों के । क्या गर्भपात-नरूप भ्रूणहत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ! क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह

(और आपत्कालमें नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है) और गर्भहत्या सर्वथा बूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में क्या बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी, अर्थात् (जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों)। महीने में एक वार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्षपर्यन्त पृथक् रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ अर्थात् वैश्या स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस का तात्पर्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) (हम लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्यास और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत-स्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है ( जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात् स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी) और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्न ) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं ? ( उत्तर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देवो और मुनोः—



कुहस्विदोषा कुह वस्तोरश्विना क्हाभिपित्वं करतः कुहो-  
पतुः । को वा शयुता विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते सधस्थ  
आ ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४० । मं० २ ॥

उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुषं शेष एहि । हस्तग्रा-  
भस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूथ ॥ ऋ० ॥ मं०  
१० । सू० १८ । मं० ८ ॥

हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो जैसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा और ( योषा, मर्यन् ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानों को ( आ, कृणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष ( कुहस्विदोषा ) कहां रात्रि और ( कुह वस्तोः ) कहां दिन में बसे थे ? ( कुहभिपित्वम् ) कहां पदार्थों की प्राप्ति ( करतः ) की ? और ( कुहोपतुः ) किस समय कहां वास करते थे ? ( को वा शयुता ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष सङ्ग ही में रहें । और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में:—

देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ ऋ० ३ । खंड १५ ॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने बर्ण वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥

हे ( नारि ) विधवे तू ( एतं गतासुम् ) इस मेरे हुए पति की आशा छोड़ के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से ( अभि, जीवलोकम् ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपैहि ) प्राप्त हो और ( उदीर्ष्व ) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो ( हस्तग्राभस्यं विधिषोः ) तुम्हें विधवा के पुनः पार्श्वग्रहण करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के शिष्ये नियोग

होगा तो ( इदम् ) यह ( जनित्वम् ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा और जो नू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तव ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त ( अमि, सम्, बभूथ ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥

अदेवृध्न्यपतिष्नी हैधि शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवर्चाः  
प्रजावती वीरसूदेवृकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥

अथर्व० ॥ कां० १४ । अनु० २ । मं० १८ ॥

हे ( अपतिध्न्यदेवृष्णि ) पति और देवर को दुःख न देनेवाली स्त्री तू ( इह ) इस गृहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण करने हारी ( सुयमाः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुवर्चाः ) रूप और सर्वशाल विद्यायुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसूः ) शूरवीर पुत्रों को जनने ( देवृकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) और सुख देनेहारी पति वा देवर को ( हैधि ) प्राप्त होके ( इमम् ) इस ( गार्हपत्यम् ) गृहस्थसम्बन्धी ( अग्निम् ) अग्निहोत्र को ( सपर्य ) सेवन किया कर ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० १ । ६९ ॥

जो अक्षतयोनि स्त्री विषवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से विवाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर ) :—

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदु उर्जरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ऋ० मं० १० ।

सू० ८५ । मं० ४० ॥

हे स्त्री जो ( ते ) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विविदित ( पतिः ) पति तुम्ह को ( विविदे ) प्राप्त होता है उस का नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह ( गन्धर्वः ) एक स्त्री से संभोग करने से गन्धर्व जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह ( अग्निः ) अत्युष्णस्त-युक्त होने से अग्निहोत्रक और जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) चौथे से ले के चारहवें तक

नियोग से पति होते हैं वे । मनुष्यजाः )-मनुष्य नाम से कहते हैं जैसा । इमां त्वमिन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है ( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को 'क्यों न गिने ? ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो "विध्वंस-देवरम्" "देवरः कस्माद् द्वितीयो चर उच्यते" "अदेवृषिन्" और "गन्धर्वो विविद उत्तरः" इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराहा सपिण्डाहा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेपसिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भाग्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु० १॥ ५९ । ५८ । १५९ ॥

इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं पश्चात् विषयासक्ति गिनी जाती है इस से वे पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी दशवैगर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग संतानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशु-वत् काम क्रीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? ( उत्तर ) जीते भी होता है:—

अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ ऋ० मं० १० । सू० १० । मं० १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू ( मत् ) मुझ से ( अन्यम् ) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाराज्य पति की सेवा में तत्पर रहै वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझ से छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका अम्बा में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । २ ॥

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं तींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥

मनु० १ ॥ ७६ । ८१ ॥

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्षतक बाट देल के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहै ), सन्तान होकर मर जायें तो दशवें, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो अप्रिय बोलनेवाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति

के दायभागी सन्तान कर लेवे। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा "औरस" अर्थात् विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है वैसे ही "क्षेत्रज" अर्थात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दायभागी होते हैं ॥ अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज को अमूल्य समझे जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री बेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं क्योंकि किसान वा माली मूर्ख होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उस का फल उस को नहीं मिलता और "आत्मा वै जायते पुत्रः" यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है ॥

**अद्वाद्दुग्गात्सम्भवासि हृदयादधिजायसे ।**

**आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ निरु० ३ । ४॥**

हे पुत्र ! तू अन्न २ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है इसलिये तू मेरा आत्मा है मुझ से पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्षतक जी । जिस से ऐसे २ महात्मा और महारथों के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को बेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना वा दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में नुवाना महापाप का काम है ( प्रश्न ) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सङ्कोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तबतक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहै तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार नष्ट हो जायें कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे बृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायें । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पथार्थ पर दीर्घकालपर्यंत स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है ( प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की

युक्तवस्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का प्रत्युत्तर नियोगविषय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा किमिच्छेभी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे, परन्तु वैश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहांतक हो बहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बंदे हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें, सब प्रकार के अर्थात् पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने माता, पिता, शशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उन से उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधारने का यत्न किया करें । जहांतक बने वहांतक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूर्ण विद्वान् सुशिक्षायुक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिस की प्राप्ति से परमानन्द भोगों और ऐसे २ श्लोकों को न मानें जैसे:—

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती स्वरी ॥

अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपैतिकम् ।  
देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत् ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ? । क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय होती है वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ! और यह दृष्टान्त भी विषम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्यजाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं कर्षचित् पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥

जब अश्वत्थम्भ अर्थात् घोड़े को मार के अथवा अनसूम्भ गाय को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो इस श्लोक का कर्त्ता क्यों भ्रंसता है ? ॥ २ ॥

यदि ( नष्टे ) अर्थात् पति किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आ जाय तो वह किस की स्त्री हो ? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोकों को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ (प्रश्न) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे "ब्रह्मोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच" इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रन्थ रचना इसलिये करते हैं कि सर्व मान्य के नाम से इन ग्रन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इसलिये अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है अन्य स्मृति नहीं । ऐसे २ ही अन्य जालग्रन्थों की व्यवस्था समझ लो ( प्रश्न ) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? ( उत्तर ) अपने २ कर्त्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं परन्तु:—

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥

मनु० ६ । १० ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ २ ॥

यस्मात्तयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥

मनुः ३ । ७७-७९ ॥

जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक भ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिस से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है । इसलिये मोक्ष और संसार के मुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो गृहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात् भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस को अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधार गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य्य वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इसलिये गृहाश्रम के मुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इस के आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये

चतुर्थः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥



## अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः

अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वक्ष्यामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवे-  
हनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी हों अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्बलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्या निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

अग्निहोतं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

मुन्यन्नैविविधैर्मन्त्रैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानेव महायजान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥५॥ मनु० ६ । १-५ ॥

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में उतर कर निरिचितात्मा और यथावत् इन्द्रियों को जीत

के वन में बसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल दृढेन्द्रिय हो कर अरण्य में जाके बसे ॥ ४ ॥ नानाप्रकार के सामान आदि अन्न, मुन्दर २ शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथिसेवा और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १ ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २ ॥ मनु० ६ । ८ । २६ ॥

स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥१॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उस से विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे ॥ २ ॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या

चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्ताऽमृतः स पुरुषो

ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षा-चरण करते हुए जंगल में बसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिलामरहित परमात्मा है वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के आनन्दित हो जाते हैं ॥

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

वृतञ्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥

यजुर्वेद ॥ अध्याय २० । मं० २४ ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होमकर दीक्षित हो कर व्रत-सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊँ ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाभ्यास मुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यासग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥

### अथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च विद्वत्सैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान् परिव्रजेत् ॥ मनु० ६ । ३३ ॥

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष-पर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट् अर्थात् संन्यासी हो जावे ( प्रश्न ) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न कर के संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) होता है और नहीं भी होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? ( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फँसे वह महापापी और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्दनाहा गृहाहा ब्रह्मचर्यादेव  
प्रव्रजेत् ॥

ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं । जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यासग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ करे गृहाश्रम ही से संन्यासग्रहण करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान् जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी " यतयः, ब्राह्मणस्य विजानतः " इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तुः—

नाविरतो दुश्चरिताब्जान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

कठ० । वल्ली २ । मं० २३ ॥

जो दुराचार से घृथक् नहीं जिस को शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं और जिस का मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये:—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

कठ० । वल्ली ३ । मं० १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अर्धर्म से रोक के उन को ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानखात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः

कृतेन । तद्भिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं

ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुंड० । खंड २ । मं० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म से मंचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित् और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो:—

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पंडितमनन्यमानाः ।

जडघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥

अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बा

लाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोका-

श्च्यवन्ते ॥ २ ॥ मुंड० । खंड २ । मं० ८ । १ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दर्शा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मा-

नते हैं जिस को केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित हो कर नहीं जान और जना स-  
कते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये:-

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

मुण्ड० । खं० २ । मं० ६ ॥

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वरप्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे  
प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिमुख को  
प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब मुक्ति में मुख की अवधि पूरी हो जाती है तब वहाँ से छूट  
कर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि:-

-न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्यशरीरं वावसन्तं

न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छान्दो० । प्र० ८ । खं० १२ ॥

जो देहधारी है वह मुख दुःख की प्राप्ति से पृथक् कर्मी नहीं रह सकता और जो  
शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध हो कर रहता है तब उस  
को सांसारिक मुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:-

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षा-

चर्यं चरन्ति ॥ शत० । कां० १४ । प्र० ५ । ब्रा० २ । कं० १ ॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग होके  
संन्यासी लोग भिक्षुक हो कर रात दिन मोह के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा

ब्राह्मणः प्रब्रजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रब्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ ॐ

मनु० ६ ॥ ३८ । ३९ ॥

प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ दृष्टि अर्थात् यज्ञ करके उस में यज्ञोपवीत शिन्वादि विन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आंगेपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविन् घर से निकल कर संन्यासी हो जावे ॥ १ । २ ॥ (जो मन्त्र भूत प्राणिसात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है) (पञ्च) संन्यासियों का क्या धर्म है : ( उत्तर ) धर्म तो पक्षपातरहित, न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है कि: -

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥

क्रुद्धच्यन्तं न प्रतिकुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ २ ॥

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

आन्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ३ ॥

कलसकेशनखश्मश्रुः पात्नी दण्डी कुसुम्भवान् ।

विचरोन्नियतो दित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषद्वयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥

दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत् तत्ताश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६ ॥

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ॥

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥

प्राणायामा ब्राह्मणस्य तयोपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥

दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥

प्राणायामैर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १५ ॥

अग्नेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः ।

सर्वहन्हविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु०

अ० ६ ॥ ४६ । ४८ । ४९ । ५२ । ६० । ६६ । ६७ ।

७०-७३ । ७५ । ८० । ९१ । ९२ । ८१ ॥

जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिन्दरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥२॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुग्वार्थी हो कर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहै ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दाद और कुमुम्भ आदि से रंगे हुए, वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्बैर वर्त कर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ावा करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यो को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जान कि दंड कमंडलु और काषायवस्त्र आदि चिन्हधारण धर्म के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि बिना उस के डाले उस के नामकथन वा श्रवणमात्र से उल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तन्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे (परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परम तप है) ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धतुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन अदि इन्द्रियों के दोष मस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से



अनीश्वर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उस को और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की भाँति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युच्च तपश्चरणा में इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और कर सकते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह काञ्चारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इम देह में और मर्या पाक निरन्तर मुग्ध को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दशलक्षगुणक निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण ( धृति ) सदा धैर्य रखना । दूसरा ( क्षमा ) निन्दा मनुषि मानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा ( दम ) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा ( अभ्तेय ) चोरीत्याग अर्थात् विना आज्ञा वा कुल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी और इस को छोड़ देना साहूकारी कहाती है । पांचवां — ( शौच ) गग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि में बाहर की पवित्रता रखनी । छठा— ( इन्द्रियनिग्रह ) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां—( धीः ) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां—( विद्या ) पृथिवी से ले के परमेश्वरपर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा मन में वैसा वाणी में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना विद्या. इस से विपरीत अविद्या है)। नववां ( सत्य ) ( जो पदार्थ जैसा हो उस को वैसा ही समझना वैसा ही बोलना और वैसा ही करना ) तथा दशवां ( अक्रोध ) क्रोधदि दोषों को छोड़ के शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है ( इस दश लक्षणगुणक पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रमवाले करें ) और इस वेदोक्त धर्म ही में आप चलना औरों को समझ कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब संगदोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब द्रव्यों से विमुक्त हो कर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है । संन्यासियों

का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्मव्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का क्षेदन कर सत्य धर्मगुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त करवाये करें ॥

( प्रश्न ) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ? ( उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है: ---

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य गजधर्मान् निबोधत ॥ मनु० ६ । १७ ॥

यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़ पश्चात् मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्म है इस के आगे राजाओं का धर्म मुझ से मुनो । इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है ( प्रश्न ) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या है ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के विना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्याग्रहण गृहकृत्य और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत् का उपकार करता है वैसे अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी होकर जगत् को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न ) संन्यासग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रम ही

मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतां के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ जो तुम कहो कि "यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः" यह किसी कवि का वचन है. अर्थ—जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इस में क्या दोष? अर्थात् कोई भी नहीं. तो हम तुम से पूछते हैं कि गृह-श्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मंगे तो हानि कितनी बड़ी होती है समझ के विरोध से लड़ाई बहुत हांती है जब संन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परम्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम को कुछ कर्त्तव्य नहीं अन्न वस्त्र ले कर आनन्द में रहना अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों करना? अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उस को भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर का, लुधा वृषा प्राण का और सुख दुःख मन का धर्म है जगत् मिथ्या और जगत् के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात् भूटे हैं इसलिये इस में फँसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किस की बात सच्ची और किस की भूठी मानें? ( उत्तर ) क्या उन को अच्छे कर्म भी कर्त्तव्य नहीं? देखो "वैदिकैश्चैव कर्मभिः" मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यशास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं। और जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ाने-हारे पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और

उस के फल का भोगनेवाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या-निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उन का उपदेश मिथ्या है ( प्रश्न ) संन्यासी सर्वकर्मविनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं ( उत्तर ) नहीं " स-स्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यम्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्र-शस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिम से दृष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस में हो वह संन्यासी कहाता है इस में सुकर्म का कर्ता और दृष्ट कर्मों का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता है ( प्रश्न ) अभ्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करने हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) मत्पोपदेश सब आश्रमी करें और मुनें परन्तु जितना अवकाश और निष्पन्नपातना संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं हां जो ब्राह्मण हैं उन का यह काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को मत्पोपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता जब ब्राह्मण वेदाविरुद्ध आचरण करें तब उन का नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यासी का होना उचित है ( प्रश्न ) "एकरात्रिं वसेद् ग्रामे" इत्यादि वचनों से संन्यासी को एकत्र एकरात्रि मात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये ( उत्तर ) यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार२ महीने तक पञ्चशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और "एकत्र न रहना" यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खंडित हो कर अधिक न बढ़ सकेगा: ( प्रश्न ) :—

यतीनां काञ्चनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम् ।

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी संप्रदायी और स्वार्थसिंधुवाले पौराणिकों की कल्पना हुई है । क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा स्वर्गद्वार बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो :

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ॥

मनु० अ० ११ । ६ ॥

नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यज्ञधन नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा ( प्रश्न ) यह पण्डितजी इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि " यतिहस्ते धनं दद्यात् " अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान् ने कपोलकल्पना में रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पण्डित धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न मोह में फँसेगा क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वा सब देख चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उस के पितर भाग जायें और नरक में शिरों ( उत्तर ) प्रथम तो मेरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मेरे हुए पितरों को पहुंचना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है । और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन का आना कैसे हो सकता है ! इसलिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और और वैरागियों की मिथ्या कल्पना हुई है

यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा ( प्रश्न ) जो ब्रह्मचर्य्य से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह कठिनता से होगा और काम कारोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वान-प्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इंद्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य्य से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उस का वीर्य्य विचाराम्नि का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है । जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रागी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे “साम्राट्” चक्रवर्ती राजा होता है वैसे “परित्राट्” संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

यह चाणक्यनीतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा को कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ़ने, मुशिक्षा लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है । परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं । इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रबल से करके सब संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खास्की आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ?

( उत्तर ) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने मंत्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फँस कर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने र मत में फँसाते हैं मुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को बहका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इन को संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इस में कुछ संदेह नहीं । जो स्वयं धर्म में चल कर सब संसार को चलाते हैं आप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं । यह मन्त्रेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इस के आगे गजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा-  
विभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमाविषये पञ्चमः

समुल्लासः सम्पूर्णाः ॥ ५ ॥

## अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

मनु० ७ । १ । २ ॥

अब मनुर्जा महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्गों और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का गजा होना चाहिये और जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परम सिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार से कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान् मुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय में यथावत् करे उसका प्रकार यह है:—

त्रीणि राजानां विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः

सदांसि ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके ( विदथे ) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में ( त्रीणि सदांसि ) तीन सभा अर्थात् विचार्यसभा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म मुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥



तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथर्व० ॥ कां० १५ ।  
अनु० २ । व० ९ । मं० २ ॥

सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ अथर्व०  
॥ कां० १९ । अनु० ७ । व० ५५ । मं० ६ ॥

( तम् ) उस राजधर्म को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्च ) संग्रामादि की व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिल कर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य सभासद् ! तू ( मे ) मेरी ( सभाम् ) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालन कर और ( ये च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य ( सभासदः ) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राज और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करोगे तो :-

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव  
राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमन्ति न पुष्टं पशुं मन्यत इति  
॥ शत० कां० १३ । प्र० २ । ब्रा० ३ । कं० ७ । ८ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो ( राष्ट्रमेव विश्याहन्ति ) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके ( राष्ट्री विशं घातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् ( विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को खाये जाता ( अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी रुष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं वैसे ( राष्ट्री विशमन्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लूट गूँद अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इसलिये:-

इन्द्रो जयाति न परा जयाना अधिराजो राजसु राज-

यातै । चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसर्घो नमस्यो भवेह ॥ अथ-  
र्व० ॥ कां० ६ । अनु० १० । व० १८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शत्रुओं से पराजित न हो ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) प्रकाशमान हो ( चर्कृत्यः ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त ( वन्द्यः ) सत्करणीय ( चोपसर्घः ) समीप जाने और शरण लेने योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥

इमन्देवा असपत्नस्सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय म-  
हते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजुः०॥अ० १ । मं० ४० ॥

हे ( देवाः ) विद्वानो राजप्रजाजनों ! तुम ( इमम् ) इस प्रकार के पुरुष को ( महते क्षत्राय ) बड़े चक्रवर्ति राज्य ( महते ज्यैष्ठ्याय ) सब से बड़े होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये ( असपत्नस्सुवध्वम् ) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और:

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराशुदे वीळ उत प्रतिष्कभे । यु-  
ष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ऋ० ॥  
मं० १ । सू० ३१ । मं० २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है हे राजपुरुषो ( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) आनेयादि अस्त्र और शतघ्नी अर्थात् तोप भुशुगडी अर्थात् बन्दूक धनुष बाण तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं के ( पराशुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) और रोकने के लिये ( वीळू ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) दृढ़ ( सन्तु ) हों ( युष्माकम् ) और तुम्हारी ( तविषी ) सेना , पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिस में तुम सदा विजयी होओ परन्तु ( मा मर्त्यस्थमायिनः ) जो निन्दित अन्याय रूप काम करता है उस के लिये पूर्व वस्तु मत

हों अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान् पुरुषो हो उस को राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें । तन्निं सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब लोग वर्त्ते सब के हितकारक कामों में संमति करें सर्वहिन करने के निये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात् जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये:-

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव माता निर्द्वय शाश्वतीः ॥ १ ॥

तपत्यादित्यवच्चैप चक्षुपि च मनांसि च ।

नचैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥ २ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥

मनु० ७ ॥ ४ । ६ । ७ ॥

वह समेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सब के प्राणवन् प्रिय और हृदय की बात जानने द्वारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वर्त्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात् बांधनेवाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधनेवाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषोंको आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करनेवाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनो को अपने तेज से तपानेहारा जिसको पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्ता, बड़े ऐश्वर्यवाला होवे वही सभाध्यक्ष समेश होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सच्चा राजा कौन है:—

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।  
 चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥  
 दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।  
 दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥  
 समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रज्जयति प्रजाः ।  
 असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥  
 दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।  
 सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥  
 यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।  
 प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥  
 तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।  
 समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६ ॥  
 तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ।  
 कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ ७ ॥  
 दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।  
 धर्मादिचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ ८ ॥  
 सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।  
 न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९ ॥  
 शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा ।  
 प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥  
 मनु० ७ ॥ १७—१९ । २४—२८ । ३० । ३१ ॥

जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता और सब का शासनकर्ता,

वही चाग वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है ॥१॥ वही प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ विना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा भिन्न भिन्न हो जायें । दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने द्वारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दंड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेद्वारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने द्वारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईर्ष्या करनेद्वारा लुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उस को अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आम पुरुषों के सहाय विद्या मुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलनेद्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् है वही न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलिये:—

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अथवा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ २ ॥

वैविध्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।

तयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्दशावरा ३ ॥ ॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विष्व सामवेदविदेव च ।

व्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसशयनिर्णये ॥ ४ ॥

एकोपि वेदविद्धर्मं यं व्यघस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ५ ॥

अब्रवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममताहिदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तदृक्तनुगच्छति ॥ ७ ॥

मनु० १२ ॥ १०० । ११०—११५ ॥

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में अवीण पूर्ण विद्यमाने धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान राजा और ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहियें ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद् होके व्यवस्था करे उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करे उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेद-विद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मि-

लने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनु-  
ष्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए  
धर्म के अनुसार चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥ इस  
लिये तीनों अर्थात् विद्यासभा धर्मसभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे  
किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे:—

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भांश्च लोकतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥

मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्ध्वत्रिकं वृथाटया च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥

हयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ७ ॥

पानमत्ताः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्तिकं सदा ॥ १ ॥

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वतैवानुशङ्किणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥ १० ॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।

व्यसन्यधोऽधो वृजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥

मनु० ७ । ४३-५३ ॥

राजा और राजसभा के सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या, सनातन दंडनीति, न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत् जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्त्ताओं का आरम्भ ( कहना और पूछना ) सीख कर सभासद् वा सभापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद् और सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश में रख के सदा धर्म में बर्ते और अधर्म से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों ( जो मन प्राण और शरीर प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दृढ़ताही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उन को प्रयत्न से छोड़ और झुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य धनादि और धर्म से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना ( अक्ष ) अर्थात् चौपड़ खेलना जुवा खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का अतिसंग, मादकद्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना, वा नाच कराना सुनना और देखना, बृथा इधर उधर घूमते रहना, ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं "पैशुन्यम्,, अर्थात् चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम



करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देख कर जला करना, "असू-या" दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना "अर्धदूषण" अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना, और विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उ-स लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अ-र्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना तीसरा स्त्रियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ और कामजों में विना अपराध दंड देना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥ ९ ॥ जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व ३ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय, अन्याय से दंड देना, इस से मृगया खेलना, इस से स्त्रियों का अत्यन्त संग, इस से जुआ अर्थात् द्यूत करना और इस से भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इस में यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फँसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक् हो कर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्तके अच्चे २ काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसभासद और मंत्री कैसे होने चाहियें:-

मौलान् शास्त्रविदः शूरैर्लल्लब्धलक्षान् कुलोद्गतान् ।

सचिवान्सत चाश्रौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥

तैः साद्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।

स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥

तेषां स्वं स्वभाभिप्रायमुपलभ्यः पृथक् पृथक् ।  
 समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ४ ॥  
 अन्यानि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।  
 सम्यगर्थसमाहर्तृन्मात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥  
 निवर्त्तेतास्य यावद्भिरितिकर्तव्यता नृभिः ।  
 तावतोऽतन्द्रितान् दत्तान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥  
 तेषामर्थे मियुञ्जीत शूरान् दत्तान् कुलोद्गतान् ।  
 शुचीनाकारकर्मान्ते भीरुनन्तनिवेशने ॥ ७ ॥  
 दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।  
 इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दत्तं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥  
 अनुरक्तः शुचिर्दत्तः स्मृतिमान् देशकालावित् ।  
 वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥  
 मनु० ७ । ५४—५७ । ६०—६४ ॥

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिन का ल-  
 द्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ  
 उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के  
 बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो म-  
 हान् राज्यकर्म एक से कैसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि  
 पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इस से समापति  
 को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य  
 करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से ( विग्रह ) विशेष ( स्थान ) स्थिति समय  
 को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना ( समुद्यम ) जब  
 अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम् ) मूल राज से-  
 ना कौष आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) जो देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन  
 उपद्रवराहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से

करना कि उन सभासदों का पृथक् २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन कर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के कार्य्य सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान् और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अर्थात् नौकर करे ॥ ६ ॥ इन के आधीन शूरवीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और भीरु डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होनेवाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है उस दूत को भी रखे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्त्ता, सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य है:—

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डेवैनयिकी क्रिया ।

नृपतौकोपराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ १ ॥

दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुहते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥

बद्ध्वा च सर्वन्तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ३ ॥

धनुर्दुर्गं महीदुर्गमद्दुर्गं वार्द्धमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दश सहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥

तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७ ॥

तदध्यास्योद्देह्यार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ।

कुले महाते सम्भूतां त्रयां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥

पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चत्विजम् ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्ष्युर्वै तानि कानि च ॥ ९ ॥

मनु० ७ ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४-७८ ॥

अमात्य को दरडाधिकार, दरड में विनय क्रिया अर्थात् जिस से अन्यायरूप दरड न होने पावे, राजा के आधीन कोष और राजकार्य तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उस को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म करे जिस से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के बैसा मन्त्र करे कि जिस से अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जंगल धन धान्ययुक्त देश में ( धनु-दुर्गम् ) धनुर्धारी पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम् ) मट्टी से किया हुआ ( अब्दुर्गम् ) जल से घेरा हुआ ( वार्हम् ) अर्थात् चारों ओर बन ( नृदुर्गम् ) चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुर्गम् ) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्त्र, धन, धान्य, वाहन, आश्रण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब अस्तुओं में मुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य का निर्वाह हो बैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहां तक राजकाम करके पश्चात् सौ-न्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त

अपने क्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि-गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अग्रम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित और ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहै अर्थात् यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राज्य कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना ॥ ९ ॥

सांवत्सरिकमातैश्च राष्ट्रादाहारयेद्दलिम् ।

स्याच्चाभ्नायपरो लोके वर्तेत पितृवन्धुषु ॥ १ ॥

अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विप्रश्रितः ।

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥

आवृत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत् ।

नृणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मो विधीयते ॥ ३ ॥

समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ।

न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥

आह्वेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम् ॥ ६ ॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥

नायुधव्यसनं प्राप्तं नार्त्तं नातिपरिद्वतम् ।

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥

यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः ।

भर्तुर्यहुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥  
यथास्य सुकृतं किञ्चिदमुतार्थमुपार्जितम् ।  
भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥  
रथाश्वं हस्तिनं ह्यतं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।  
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ११ ॥  
राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रुतिः ।  
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ १२ ॥  
मनु० ७ । ८०—८२ । ८७ । ८९ । ९१—९७ ॥

वार्षिक कर आस पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे इन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत् दंड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेदप्रचार रूप अक्षय कोष है इस के प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादिशास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा और सभा यथावत् करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान् हों ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करनेवाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे मुख को प्राप्त होते हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥ ५ ॥ युद्धसमय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न

जिस के शिर के बाल खल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को, ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्खों को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए, पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकड़ के जो अच्छे हों वंदीगृह में रख दे और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और घायल हुए हों उन की औषधादि विधिपूर्वक करे उन को न चिड़ावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे उन के लड़के बालों को अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान समझे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कारपूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत् काल में विघ्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रखे ॥ ८ ॥ और जो पलायन अर्थात् भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक और परलोक में सुख होनेवाला था उस को उसका स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिस ने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ भृत्य वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और धी, तेल आदि के कुम्पे जीते हों वही उस २ का ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवे और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सब ने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो उस की स्त्री और सन्तान को उस का भाग देवे और उस की स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे जब उस के लड़के समर्थ हो जावें तब उन को यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य की वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनन्द वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लङ्घन कभी न करे ॥ १२ ॥

अलब्धं चैव लिप्तेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।  
 रक्षितं वर्द्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥  
 अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया ।  
 रक्षितं वर्द्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निःक्षिपेत् ॥ २ ॥  
 अमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया ।  
 बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायानित्यं स्वसंवृतः ॥ ३ ॥  
 नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु ।  
 गूहेत्कूर्मं इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥  
 वक्रवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।  
 वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विमिष्पतेत् ॥ ५ ॥  
 एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ।  
 तानानयेद्दशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥  
 यथोद्धरति निर्दाता कच्छं धान्यं च रक्षति ।  
 तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ७ ॥  
 मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यन्वेक्षया ।  
 सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धवः ॥ ८ ॥  
 शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।  
 तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥  
 राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानामिदमाचरेत् ।  
 सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ १० ॥  
 द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।  
 तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११ ॥



ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।  
 विंशतिशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥  
 ग्रामे दोषान्तसमुत्पन्नान् ग्रामिकः शतकैः स्वयम् ।  
 शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ १३ ॥  
 विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।  
 शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥  
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।  
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥  
 नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।  
 उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥  
 स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानिव सदा स्वयम् ।  
 तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्प्राप्तेषु तच्चरैः ॥ १७ ॥  
 राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शटाः ।  
 मृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥  
 ये कार्तिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।  
 तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥  
 मनु० ७ ॥ १९ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ ।  
 १२०-१२४ ॥

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बड़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक, तथा असमर्थ अनार्थों के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जान आलस्य छोड़कर इस का भली भांति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देवमे से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजादि से

बढ़ावे और बड़े हुए धन को पूवाक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि कि  
सी के साथ छल से न वर्तें किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्चाव रखे और नि  
त्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥  
कोई शत्रु अपने द्विद्र अर्थात् निर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के द्विद्रों को  
जानता रहे जैसे फलुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के द्विद्र  
को गुप्त रखे ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को  
ताकता है वैसे अर्थ संग्रह का विचार क्रिया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की  
वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप-  
कर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान् शत्रुओं से खरगोश के समान दूर  
भाग जाय और पश्चात् उन को छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले  
सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात् डाकू लुटेरे हों उन को ( साम ) मिला  
लेना ( दाम ) कुञ्ज दे कर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वरा में करे और जो इन से  
वश में न हों तो अति कठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालनेवाला  
झिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् दूटने नहीं देता है वैसे राजा  
डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्ष करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से  
अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही  
शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृशित करने  
से क्षीण हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् ब-  
लादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य की  
सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकार्य यथावत् सिद्ध हों जो राजा रा-  
ज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को मुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इस-  
लिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रखे जिसमें यथायोग्य  
भृत्य अर्थात् कामदार आदि राजपुरुषों को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे  
॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रखे उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर दू-  
सरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं  
सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रखे अर्थात् जैसे आज काल एक ग्राम में एक  
पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ाथाना और उन पांच

धानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह बही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश ग्राम के पति को विदित कर दे और वह दशग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे जैसे सौ २ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और बीस २ ग्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्र २ के दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और लक्ष ग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें । और वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात् सार्वभौम चक्रवर्ति महाराजसभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिन में एक राजसभामें दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़ कर सब न्यायाधीशदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसे एक २ घर बनावें उस में बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दूतों को रखे जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उन से सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दण्ड और जिन का गुण हो उन की प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुलीन हों उन के आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुष्ट कर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के आधीन करके उन से इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उस का सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे

देश में रखे कि जहां से पुनः लौट कर न आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उस को देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योग होम भली भांति हो और वे भली भांति धनाब्ज भी हों उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे और जो वृद्ध हों उन को भी आधा मिलाकरे परन्तु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहै पश्चात् नहीं परन्तु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उन के गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे ॥ १६ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥

यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वायुर्योकोवत्सषट्पदाः ।

तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ २ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातिवृष्णया ।

उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णाश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णाश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥

एवं सर्वं विधायेदमितिकर्त्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भ्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।

सम्पश्यतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥

मनु० ७ ॥ १२८ । १२९ । १३९ । १४० । १४२—१४४ ॥

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे  
वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जोक ब-  
छड़ा और भँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २  
वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात्  
नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अप-  
ने को और उन को पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण  
और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिमान-  
नीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इस में युक्त और  
प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते  
हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को  
हरते रहते हैं वह जानो भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने  
वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धर्म है और जो मनु-  
स्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता  
राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणैर्वाश्वाच्चर्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १ ॥

तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

मनु० ७ । १४५—१४८ ॥

जब पिङ्गली प्रहर रात्रि रहै तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान

अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके मीतर सभा में प्रवेश करे ॥१॥  
 वहां खड़ा रह कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उन को छोड़कर  
 मुख्य मंत्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥२॥ पश्चात् उस के साथ घूमने को  
 चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न  
 हो वैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥३॥  
 जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात् जिस का वि-  
 चार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा मुक्त रहै वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य  
 करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जबतक सभा-  
 सदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तथा त्वायति संयुक्तः संधिज्ञेयो हिलक्षणः ॥ ३ ॥

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्तस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संइतस्य च मित्तेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥

क्षीणस्य चैव क्रमशो देवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्तस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥

बलस्य स्वाभिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥ ७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥  
 यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।  
 तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत् ॥ ९ ॥  
 यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम् ।  
 अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १० ॥  
 यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।  
 परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥  
 यदा तु स्यात्परिक्वीणो वाहनेन बलेन च ।  
 तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्तरीन् ॥ १२ ॥  
 मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।  
 तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥  
 यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।  
 तदा तु संश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १४ ॥  
 निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च ।  
 उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥  
 यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् ।  
 सुयुद्धमेव तत्रापि निवेशकः समाचरेत् ॥ १६ ॥

मनु० ७। १६१—१७६ ॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जो ( आसन ) स्थि-  
 रता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन से मेल कर लेना ( विग्रह )  
 दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( द्वैध ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना  
 और ( संश्रय ) निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म  
 यथायोग्य कार्य्य को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि,

विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत् जाने ॥ २ ॥ ( संधि ) शत्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ ( विग्रह ) कार्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥४॥ ( यान ) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाय अर्थात् निर्बल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिस से शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे ॥१०॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्नभाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥११॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शीघ्र लेलेवे ॥१४॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोके उस की सेवा सब यत्नों से गुरु के सहश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रखे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥



सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।  
 यथास्याम्याधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥  
 आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।  
 श्रुतीतानां सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥  
 श्रायत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।  
 श्रुतीते कार्थ्यदोषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥  
 यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।  
 तथा सर्वं संविदध्यादेश सामासिको नयः ॥ ४ ॥

मनु०७ । १७७—१८० ॥

नीति का जाननेवाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से बर्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों का जाता वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में दोष कर्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को बरा में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।

उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सभ्यग्विधाय च ॥ १ ॥

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्द्विधं च बलं स्वकम् ।

सांपराधिककल्पेन यायादरिपुरं क्षमैः ॥ २ ॥

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।  
 गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥  
 दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।  
 वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥  
 यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्बलम् ।  
 पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ ५ ॥  
 सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदित्तु निवेशयेत् ।  
 यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ ६ ॥  
 गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः ।  
 स्थाने युद्धे च कुशलानभीरून्विकारिणः ॥ ७ ॥  
 संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् ।  
 सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ ८ ॥  
 स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनुपे नौहिपैस्तथा ।  
 वृद्धगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ ९ ॥  
 प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।  
 चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥  
 उपरुध्यारिमासीत् राष्ट्रं चास्थोपपीडयेत् ।  
 दूषयेच्चास्य सततं यवसाब्जोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥  
 भिन्धाच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।  
 समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ विनासयेत्तथा ॥ १२ ॥  
 प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वथोदितान् ।  
 रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥

आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् ।

अभीष्टितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥

मनु० ७ । १८४—१९२ । १९४—१९६।२०३।२०४ ॥

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमानादि यानों से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त्र खान पानादि सामग्री को यथावत् साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से भिन्ना हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने आने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रखे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( दण्डव्यूह ) दंड के समान सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान ( वराह० ) जैसे मुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर भुंड हो जाते हैं वैसे ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जैसे मुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उस से सूत्र स्थूल होता है वैसे शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकंठ ) ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥४॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों ओर रखके ( पद्मव्यूह ) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य में आप रहै ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे जिस ओर से लड़ाई होती हो

उसी और सब सेना का मुख रखे परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुह्य अर्थात् दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को ऋट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वज्रव्यूह ) जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता जैसे युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चलें जैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने शतघ्नी ( तोप ) वा भुसुंडी ( बन्दूक ) छूट रही हो तो ( सर्पव्यूह ) अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारें अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावाकर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृत्त और भाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिस से शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तृता से सब के चित्त को खानपान अस्त्र शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखें व्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इस के राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे रात्रि में उन को ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उन के साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम को हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा

ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रखे कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिस से उस का योगक्षेम भी न हो जो उस को बन्दीगृह करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रखे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संस्रम में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उस को चिड़ावे नहीं न हंसी और न ठट्टा करे न उस के सामने हयने तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहै किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम् ॥ १ ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमन्तश्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥

आप्यर्थता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥

मनु० ७। २०८-२११ ॥

मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करनेवाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को

जाननेहारे और धैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण—जिस में प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूललक्ष्य अर्थात् ऊपर २ की बातों को निरन्तर मुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्थ्य मन्त्रिभिः ।

व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥

मनु० ७।२१६ ॥

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मन्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन को हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि का स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि निरन्तर देकर जो कुछ उन में खोट हों उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह्न समय भोजन के लिये “अन्तःपुर” अर्थात् पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्द्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः—

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥

मनु० ७।१३० ॥

व्यापार करनेवाले वा शिल्पी जनों को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचाशवां भाग, चावल आदि अन्न में छठा, आठवां, वा बाहरवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान आदि खाने पाने और धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो

प्रजा न हो तो राजा किस का ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ? दोनों अपने २ काम में स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात् जिसको "पोलिटिकल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहै वह चारों वेद मनुस्मृतिशुक्नीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं:—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसङ्ग्रहणमेव च ॥ ४ ॥

स्त्रीपुंघर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६ ॥

धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्नोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम् ।

अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ ८ ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्नानृतेन च ।  
 हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः १ ॥  
 धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।  
 तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥  
 वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।  
 वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥  
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।  
 शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ १२ ॥  
 पादोऽधर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।  
 पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥  
 राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।  
 एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥

मनु० ८ । ३-८ । १२-१९ ॥

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्न लिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जोंन तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ ( निक्षेप ) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३ ( अस्वामि विक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ ( संभूय च समुत्थानम् ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५ ( दत्तस्थानपकर्म्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ ( वेतनस्यैव चादानम् ) वेतन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना । ८ ( क्रयविक्रयानुशय ) अर्थात् लेन देन में झगड़ा होना । ९ पशु के स्वामी और पालनेवाले का झगड़ा ॥ ३ ॥



१० सीमा का विवाद । ११ किसी को कठोर दण्ड देना । १२ कठोर बाणी का बोलना । १३ चोरी डांका मारना । १४ किसी काम को बलात्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥४॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठना । १८ द्यूत अर्थात् जड़ पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धरके जुआ खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शल्य अर्थात् तीरवन् धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्म का मान अधर्म को दंड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख कर मौन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हम को न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब गेश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान् लोग वृषल अर्थात् शूद्र और नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धर्म ही मुहूर्त्त है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग लूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं लूटता जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब साक्षी कैसे करनी चाहिये:—

आताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु साक्षिणः ।  
 सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥  
 स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्याद्विजानां सदृशा हिजाः ।  
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥  
 साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च ।  
 वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥  
 बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः ।  
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ४ ॥  
 समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।  
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥  
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नायर्थसंसादि ।  
 अवाङ्मनस्कमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥  
 स्वभावेनैव यद् ब्रुयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।  
 अतो यदन्यद्विब्रुयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥  
 सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यार्थिसन्निधौ ।  
 प्राड्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥  
 यद् हयोरनयोर्वेत्थ कार्योस्मिन् चेष्टितं मिथः ।  
 तद् ब्रून् सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ९ ॥  
 सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्राप्ति पुष्कलान् ।  
 इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥  
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।  
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।

नावमंस्याः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशाङ्कते ।

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥

मनु० ८ ॥ ६३ ॥ ६८ ॥ ७२-७५ ॥ ७८-८१ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ९६ ॥ ९९ ॥

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान्, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ-रहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरीतों को कभी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र, और अन्यायियों के अन्याय साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपात रूप अपराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा मुनने से जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और मुनने से विरुद्ध बोलें तो वह (अबाङ्गरक) अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात् मुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धी बोलें और इस से भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोलें उस २ को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राङ्निवाक अर्थात् बकील वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षि लोगों ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी

इस कार्य में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके मुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को जानके हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से विपरीत है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् क्षेत्रज्ञ अर्थात् शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शक्का को प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! जो तू “ मैं अकेला हूँ ” ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुरय पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात् क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यं वित्तथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥

लोभान्सहस्रदण्डयस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ।

भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्डयौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानाद्द्वे शते पूर्णे वालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।  
 साराऽपराधौ चान्त्रोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत् ॥ ६ ॥  
 अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् ।  
 अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥  
 अदण्ड्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् ।  
 अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥  
 वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम् ।  
 तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ ९ ॥  
 मनु० ८ । ११८—१२१ । १२५—१२९ ॥

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी भूठ बोले उस को वक्ष्यमाण अनेक विध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से भूठी साक्षी देवे तो उस से १५॥=) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे, जो मोह से भूठी साक्षी देवे उससे ३=) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से ६॥) ( सवा छः रुपये ) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी देवे उस से १२॥) ( साढे बारह रुपये ) दण्ड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उस से २५=) ( पच्चीस रुपये ) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से भूठी साक्षी देवे उस से ४६॥=) ( छयालीश रुपये चौदह आने ) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से भूठी साक्षी देवे उस से ६=) ( छः रुपये ) दण्ड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उस से १॥=) ( एक रुपया नौ आने ) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो

वैसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संस्कार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्धमान और भविष्यत् में और परजन्म में होनेवाली कीर्ति का नाश करनेद्वारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मगुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिस को दंड देना न चाहिये उस को दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पछि बड़े दुःख को प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उस को सदा दण्ड देवे और अवपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वारणी का दण्ड अर्थात् उसकी "निन्दा" दूसरा "धिक" दण्ड अर्थात् तुम्हें को धिक्कार है तू मे ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से "धन लेना" और चौथा "बध" दण्ड अर्थात् उस को कोड़ा वा बेंत से मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते ।

तत्सदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥

पिताचार्य्यः सुहृन्माता भार्य्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥

कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति कित्विषम् ।

षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणाविद्धि सः ॥ ५ ॥

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेत्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥

बाग्दुष्टात्तस्कराश्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।

साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥

साहसे वर्त्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः ।  
 स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥  
 न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।  
 समुत्सृजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥  
 गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।  
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥  
 नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।  
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥  
 यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।  
 न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शकलोकभाक् ॥ १२ ॥  
 मनु० ८ । ३३४—३३८ । ३४४—३४७ । ३५० ।  
 ३५१ । ३८६ ॥

चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करताहै उस २ अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन कर दे ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदरक्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसौ गुणा उस से न्यून को सात सौ गुणा और उस से भी न्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उस को आठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों को नारा कर दें जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से बरा में आ जाती है इसलिये राजा से ले कर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त

राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एक सौ अट्ठाईस गुणा होना चाहिये अर्थात् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी, धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड दे कर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८ ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना कभी छोड़े ॥ ९ ॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उन को विना बिचारे मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्टवचन का बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दण्डघ्नः अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भार्तारं लंघयेद्या स्ती स्वजातिगुणदापिता ।

तां स्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तत आरयसे ।

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ २ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत् ।



नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ३ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥

एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किलिबषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥

मनु० ८ । ३७१ । ३७२ । ४०६ । ४१९ । ४२० ॥

जो स्त्री अपनी जानि गुण के घमण्ड से पति को छोड़ के व्यभिचार करे उस को बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जाती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी जन को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ ( प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उस की स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अर्थात् उन को तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये ( प्रश्न ) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता भे दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट ही हो जायें अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसे का लोप करता है उस से नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ॥

( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अज्ञ का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये ( उत्तर ) जो इस को कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम

क छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दरद सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम दरद दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर हाने लेंगे वह जिसको तुम सुगम दरद कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दरद भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दरद हुआ और दूसरे को पाउ भर तो पाउ भर अधिक एक मन दरद होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाउ बीस सेर दरद पड़ा तो ऐसे सुगम दरद को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक का मन सहस्र मनुष्यों को पाउ पाउ दरद हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य जाति पर दरद हाने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दरद न्यून और सुगम होता है ॥ जो लम्ब मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते ये वे भूठे हैं और देश देशान्तर द्वीपद्वीपान्तरों में नौका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को नियत लाभ और खर्च. “ आकर ” रत्नादिकों की खानें और कोष ( खजाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छोड़के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ ( प्रश्न ) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( उत्तर ) पूरी है क्योंकि जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह संस्कृत विद्या से ली है और जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये:-

प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु० ८।३ ॥

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझे उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखे कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे युवावस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य्य का यथावत् सेवन करना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करे कि जिस से शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा

रहै क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जाय और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई भगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जायें इस लिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है । विशेषतः स्त्रियों को दृढ़ांग और बलशुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राजधर्म ही नष्ट हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि " यथा राजा तथा प्रजा" जैसे राजा होता है वैसी ही उस की प्रजा होती है इसलिये राजा और राजपुरुषों को कति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तन कर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम नवम अध्याय में और शुकनीति तथा विदुरप्रजापर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझें कि "वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम" ( यह यजुर्वेद का वचन है ) हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किकर भृत्यवत् हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे । अब आगे ईश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-

प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये

षष्ठः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

## अथ सप्तम समुल्लासारम्भः

अथैश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अपि विश्वे निषेदुः ।  
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्याति य इत्तद्विदुस्त इमे सभासते ॥ १ ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३९ ॥

ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् ।  
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् ॥ २ ॥

यजुः ॥ अ० ४० । मं० १ ॥

अहम्भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः । मां हं  
वन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम् ॥ ३ ॥ अह-  
मिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन । सोम  
मिन्मांसुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषाधन ॥ ४ ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४८ । मं० १ । २ ॥

(ऋचो अक्षरे) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथिवी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसलिये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी होते हैं । (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध

हों किन्तु वह लिखा है कि ईश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखा इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है, यह उनको भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का, देव होने से महादेव इसी लिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति प्रलम्बकर्त्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता है "त्रयस्त्रिंशत्त्रिंशता०,, इत्यादि वेदों में प्रमाण है कि इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तैत्तिरीय देव अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ वसु। प्राण अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, रुक्ल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इस लिये हैं कि ये सबकी आयु को लेते जाते हैं। बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जल ओषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तैत्तिरीय पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्य देव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप अमजाल में गिरकर क्यों बहकते ॥ १ ॥ इ मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उससे डर कर तू अन्याय से किसीके धनकी आकांक्षा मत कर उस अन्यायको त्याग और न्यायाचरण रूप धर्मसे अपने आत्मासे आनन्दको भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूं मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं मुझ हीको सब जीव जैसे पिताको सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सबको सुख देनेहारे जगत् के लिये नाना प्रकारके भोजनोंका विभाग पालनके लिये करता हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्यवान् सूर्यके सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूं कभी पराजयको प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्युको प्राप्त होता हूं

मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूँ सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो हे जीवो ! ऐश्वर्य्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से माँगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूँ मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करनेद्वारा और मुझ को वह वेद यथावत् कहता उस से सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने वाले को फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य्य का बनाने और धारण करनेवाला हूँ इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत् पूजो मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य ज्ञातः पतिरेकं आसीत् ।  
स दाधार पृथिवीं द्यामतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

यजुः० । अ० १३ । ४ ॥

यह यजुर्वेद का मन्त्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उस का स्वामी था, है और होगा वह पृथिवी से जे के सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ! ( उत्तर ):-

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोन्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि ।

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्याय० । अ० १ । सू० ४ ॥

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है—जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उस का आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष

सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक्त जाती है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वा न्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका स्रष्टा, सब का धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश में कर्त्ता की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिस ने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि एक अपराधी डाँकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डाँकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डाँकू पर और उस डाँकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है ( प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों

का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था इस से क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? ( प्रश्न ) होते हैं ( उत्तर ) तो पुनः तुम को शक्य क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में मुनते हैं इसलिये ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा झूठा दोनों मुनने में आता है परन्तु उस का विचार से निश्चय करना अप्रमत्त काम है । देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिस ने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इस से भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दुःख झूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात् बन्धन छेदनादि यथावत् दण्ड देना न्याय कहता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीघ्रोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आँख आदि अवयवों का बनानेद्वारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उस को संगुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीरधारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलकार बना देता है ( प्रश्न ) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? ( उत्तर ) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पात्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किञ्चित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है । ( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं



है । ( उत्तर ) वह क्या चाहता है, जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है ! जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? ( उत्तर ) अनादि अर्थात् (जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं) इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर ) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये । ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छोड़ा देगा ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? ( उत्तर ) उन के करने का फल अन्य ही है ( प्रश्न ) क्या है ? ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का साक्षात्कार होना । ( प्रश्न ) इन को स्पष्ट करके समझाओ ( उत्तर ) जैसे—

स पर्यगाच्छुक्रमकायमवृणामस्नाविशुद्धमपापविद्धम् । क-  
विर्मनोषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्युद्धान्छ्वाश्रुतीभ्यः  
सर्माभ्यः ॥ यजु० अ० ४० । मं० ८ ॥

( ईश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण ( अकाय ) अर्थात् वह कभी शरीरधारण वा जन्म नहीं

लेता जिस में छिद्र नहीं होता नांडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा-  
चरण नहीं करता जिस में क्लेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागाद्वेषादि  
गुणों से पृथक् मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है इस का फल  
यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना जैसे वह  
न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के  
गुण कीर्त्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उस का स्तुति करना व्यर्थ  
है । प्रार्थनाः—

यां मेधां देवगणाः पितरंश्रोपासते । तया मामद्य मेधयाऽग्ने मे-  
धाविनं कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यजुः० ॥ अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि ।  
बलमसि बलं मयि धेहि । आजोऽस्त्योजो मयि धेहि । मन्युरसि  
मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥ यजुः० ॥  
अ० १९ । मं० ९ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरंगमं ज्योति-  
षां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कर्मा-  
ण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्वं  
यत्नमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥  
यत्पूजानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं पूजासु । यस्मा-  
न्ऽकृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ५ ॥  
येनेदं भूतं भुवनं भाविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्ता-  
यते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्मिन्नृचः  
साम यजूंश्चि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाः । यस्मिंश्चित्तश्च  
सर्वमोतं पूजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥ सुषार-

धिरश्चानिव यन्मनूष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिनऽइव । हृत्प्रतिष्ठं-  
 यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ८ ॥ यजुः० ।  
 अ० ३४ । मं० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

हे अग्ने ! अर्थात् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान् हम को इसी वर्तमान समय में आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्तबलयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी बलधारण कीजिये । आप अनन्तसामर्थ्ययुक्त हैं मुझ को भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर को-पकारी हैं मुझ को भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुझ को वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन मुषुति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म करनेहारे धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के मीतर रहने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा मिश्रयात्मकवृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक् रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्, वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर अधिष्ठादि क्लेशों से पृथक् रहै ॥ ६ ॥ हे परम विद्वान् परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे

मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में धारा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और जिस में अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्यामय सदा रहे ॥७॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्त बेगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥

अग्ने नर्य सुपथा रायेऽअस्मान् विश्वानि देव वयुनानि वि  
हान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणामेनो भूर्यिष्ठां ते नभउक्तिं विधेम  
यजुः० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥

हे सुख के दाता स्वप्रकारस्वरूप सब को-जानने हारे परमात्मन् ! आप हम को श्रेष्ठमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उस से पृथक् कीजिये इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आप की बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ॥

मा नो महान्तमुत मा नोऽअर्भकं मा न उदन्तमुत मा न  
उदितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्त-  
न्वो रुद्र रीरिषः ॥ यजुः० ॥ अ० १६ । मं० १५ ॥

हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःस्वरूप फल को दे के हलानेवाले परमेश्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, आर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिस से हम आप के बरहनीय न हों ॥

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं  
गमयेति ॥ इति पथः ० १४ । ३ । १ । ३० ॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप हमें को असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से

पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दु-  
र्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है  
वह विधिनिषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना क-  
रता है उस को वैसा ही वर्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के  
लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने संप्रयत्न हो सके उतना किया  
करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न  
करनी चाहिये और न परमेश्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप  
मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो  
जाय इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या  
परमेश्वर दोनों का नाश करवे ) जो कोई कहै कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रा-  
र्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उस के शत्रु  
का भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी  
प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में भाड़  
लगाइये वस्त्र धो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे  
आलसी होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा  
है उस को जो कोई तोड़ेगा वह मुख कभी न पावेगा जैसे:—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ॥ यजुः० ॥

अ० ४० । मं० २ ।

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जबतक जीवे तबतक  
कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में  
जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और यत्न करते ही रहते हैं जैसे  
पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि बढ़ते  
घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते  
हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर  
भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं  
देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे-

श्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं, जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यज्ञ करता है उस को शीब वा बिलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है ।  
अब तीसरी उपासना:—

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।  
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

यह उक्ति का वचन है—जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित जिस ने लगाया है उस को जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उस को सर्वव्यापी सर्वान्तर्गामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जोर काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थात्:—

तत्त्वाऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योगशा० सा-

धनपादे । सू० ३० ॥

इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र के हैं -- जो उपासना का आरम्भ करना चाहिये के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रखे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो और निरभिमानी हो अधिमान कभी न करे, ये पांच प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अङ्ग है ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमाः ॥

योगशा० साधनपादे । सू० ३२ ॥

राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख दुःखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे

अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सङ्ग करे और "ओ३म्" इस एक परमात्मा के नाम के अर्थविचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों को मिलाके उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता है। इस के आगे छः अङ्ग योगशास्त्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका \* में देख लेंगे। (जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होंगे। जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़कर मुक्ति तक पहुँच जाता है जो आठ प्रहर में एक धड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दुःख दूर कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और मूर्खता है। ( १५ ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? ( उत्तर ) :—

अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

\* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इन का वर्णन है।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुष महन्तम् ॥  
श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ३ । मं० १९ ॥

परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बात सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है और उस को अब्धिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह इन्द्रियों और अन्तःकरण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है ( प्रश्न ) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? ( उत्तर ) :—

न तस्य कार्य्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।  
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥  
श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ६ । मं० ८ ॥

परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य्य और उस को करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उस के तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थात् जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उस में सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इसलिये वह विभु तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है । ( प्रश्न ) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून क्योंकि वह विद्वान् है । ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उस को उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है “ यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति ” जिस का जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जान कर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है उलटा अज्ञान इसलिये :—



ह्येककर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगसू० ॥  
समाधिपादे सू० २४ ॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ) :—

ईश्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ सां० अ० १ । सू० १९२ ॥

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ सां० अ० ५ । सू० १० ॥

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सां० अ० ५ । सू० ११ ॥

प्रत्यक्ष से षट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्याप्तिसम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं षट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थान् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकार में कहा है:—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तामात्राच्चेत्सर्वैश्वर्यम् ॥ २ ॥

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सां० अ० ५ सू० ८ । १ । १२ ॥

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति हो जाय अर्थात् जैसे प्रकृति मूढम से मिल कर कार्यरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय इस लिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत् की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रैश्वर्ययुक्त है वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे:—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥

श्रुताश्चतर उपनिषद् अ० ४ । मं० ५ ॥

जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा-रूप हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई कपिलाचार्य्य को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और "अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि "अज एकमत" "सपर्यगाच्छुक्रमकायम्" ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता। (प्रश्न) :—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

भ० गी० अ० ४ । श्लो० ७ ॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूँ। (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म ले के श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूँ तो कुछ दोष नहीं क्योंकि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इन को अवतार क्यों मानते हैं? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान् होने से अमजाल में फँस के ऐसी २ अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान

भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है । भला इस अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विरोध उभरा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्या ईश्वर के पृथिवी सूर्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का वध और गोबर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वरके सदृश कोई न है न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता जैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का जाना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कटना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये "ईसा" आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्यों कि राग, द्वेष, लुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, मुक्त, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे । ( प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महापापी हो जायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उन को पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उन को भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं ( प्रश्न ) जीव स्वस्वम्

है-~~न-स्वतन्त्र~~ ? ( उत्तर ) अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है "स्वतन्त्रः कर्त्ता" यह पाणिनीय व्याकरण का मूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है । ( प्रश्न ) स्वतन्त्र किस को कहते हैं ? ( उत्तर ) जिस के आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उस को पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप व पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वर्ग अर्थात् दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन हो कर पाप के फल भोगता है इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है जैसे ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं। परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है ईश्वर नहीं जैसे किसी ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाई ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र

है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है ( प्रश्न ) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? ( उत्तर ) दोनों चेतन स्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन, शिल्पविद्यादि अच्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के:-

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥

न्यायद० अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःख-  
इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिकद० अ०

३ । आ० २ । सू० ४ ॥

( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा ( द्वेष ) दुःखादि की अनिच्छा वैर ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विनाप अप्रसन्नता ( ज्ञान ) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( प्राण ) प्राण को बाहर से भीतर को लेना ( अपान ) प्राण वायु को बाहर निकालना ( निमेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) आंख को खोलना ( मन ) निश्चय स्मरण और अहङ्कार करना ( गति ) चलना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ लुधा, तृषा, हर्ष, शोकादिगुक्त होना ( ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा देह में होता है तभीतक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है ( तब ये गुण शरीर में नहीं रहते ) जिस के होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है। ( प्रश्न ) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा इस से जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने

अपने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जीव करता है । ( उत्तर ) ईश्वर को किना-  
 लवर्सी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल और व होके  
 होवे वह भविष्यत्काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान हाके नहीं रहता तथा न-  
 होके होता है इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस अस्वच्छित्त वर्तमान रहता है  
 भूत भविष्यत् जीवों के लिये हैं हां जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में  
 है स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर ज्ञानता है  
 और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान के  
 ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चिन् वर्तमान और कर्म करने में  
 स्वतन्त्र है । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने  
 का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्ड  
 ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इस में कोई दोष नहीं आता ( प्रश्न ) जीव  
 शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत,  
 स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता  
 इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव  
 सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापकस्वरूप है इसीलिये जीव और परमे-  
 श्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस  
 जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो  
 सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट  
 सकता है असमानाकृति में नहीं । जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस काष्ण  
 से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं जैसे जीव  
 परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव  
 व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है जैसे ही सेव्य सेवक,  
 आधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । ( प्रश्न )  
 जो पृथक् २ हैं तो—

प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥

तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ( उत्तर ) ? यह वेदवाक्य ही नहीं हैं  
 किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं

हिला अर्थात् ( अहम् ) मैं ( ब्रह्म ) अर्थात् ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हूँ । यहां तात्स्थ्यो-  
पाधि है जैसे " मञ्चाः क्रोशन्ति " मञ्चान पुकारते हैं । मञ्चान जड़ हैं उन में पुकार  
में का सामर्थ्य नहीं इसलिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना ।  
कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्थ कहने में क्या विरोध है ? इस  
का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है  
वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध  
में रहता है इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म  
का सहचारी जीव है । इस से जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि  
मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं जैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध  
होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक  
अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म  
स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है ( प्रश्न ) अच्छा  
तो इस का अर्थ कैसा करोगे ? ( तत् ) ब्रह्म ( त्वं ) तू जीव ( अस्मि ) है । हे जी-  
व ! ( त्वम् ) तू ( तत् ) वह ब्रह्म ( अस्मि ) है ( उत्तर ) तुम तत् शब्द से क्या  
लेते हो, "ब्रह्म" ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ?

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयं ब्रह्म ॥

इस पूर्व वाक्य से । तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो  
वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा भ्रूँट क्यों कहते किन्तु छा-  
न्दोग्य में तो:-

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम् ॥

छां० प्र० ६ । खं० २ । मं० १ ॥

ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं ( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्या लेते  
हैं ? ( उत्तर )

स य एषोणिमा ॥ एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा

तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० । प्र० ६ ।

खं० ८ मं० ६ । ७ ॥

वह परमात्मा जानने योग्य है जो वह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का अत्मा है वही सत्यस्वरूप और अपना अत्मा आप ही है । हे अन्तर्यामी भिन्न पुत्र !

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमपि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अतिरुद्ध है क्योंकि:-

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् । आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिस को मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है । जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उन के फल जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अर्थ दूसरा कर सकता है ? "अयमात्मा ब्रह्म" अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते ( प्रश्न ) :-

अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ।

छां० प्र० ६ । खं० ३ । मं० २ ॥

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तैत्तिरीय० ब्रह्मानं० अनु० ६ ॥

परमेश्वर कहता कि मैं जगत् और शरीर को रचकर जगत् में व्यापक और जीव-रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ । परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बनाकर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥ ( उत्तर ) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रावेश



अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सच नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। ( प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्रावृत्समये मथुरायां दृश्यते” अर्थात् जो देवदत्त मैने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हू। यहां काशी देश उष्ण काल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है जैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है यहां क्या कह सकाये ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? ( प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। ( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ( प्रश्न ) हमारे मत में :—

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्धिभेदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तच्चित्तोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ।

कार्यकारणानां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥

ये “संक्षेपशारीरक,, और “शारीरकभाष्य” में कारिका हैं- हम वेदान्ती छः पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान, और छठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट हो जाते हैं इसलिये सान्त अर्थात् नाशवाले कहते हैं। ( उत्तर ) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत

में सिद्ध नहीं हो सकता इस से "तच्चित्तोयोगः" जो छूटा पदार्थ तूम ने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छुः नहीं। तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उम के एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान का जानेगा बाहर (और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं) और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा निपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर) चलता फिरता है (प्रश्न) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है। (प्रश्न) जब अन्तःकरण जिम २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो कहो कि ब्रह्म एक है

तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इस से वह भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ? इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकतेगे किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है और न होगा । ( प्रश्न ) तो “ सदेव सोम्येदमग्र आसीद-कमेवाद्वितीयम् ” छान्दोग्य० अद्वैतसिद्धि कैसी होगी हमारा मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है । ( उत्तर ) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य विशेषणविद्या का ज्ञान करो कि उस का क्या फल है जो कहो कि “व्यावर्तकं विशेषणं भवतीति” विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि “प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करना है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे “अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंहः” किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है । इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है न्यून तो हैं । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ परवादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं उनका निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हैं किन्तु न्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्व तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इस से जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इस से न अद्वैतसि-

द्वि और न द्वैतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पड़ो सोचो और समझो (प्रश्न) ब्रह्म के सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होती है फिर क्यों खण्डन करते हो । ( उत्तर ) किंचित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इन में वैधर्म्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, काटि-न्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निर्भान्तिव और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सब भ्रान्तिव और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी ( परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उस से कुछ स्थूल होने से ) भिन्न है । ( प्रश्न ) :—

अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयादौ भयं भवति ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । ( उत्तर ) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उस की आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से बैर करे उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से मुक्त से कञ्च सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझ को मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है । और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है । ( प्रश्न ) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी होते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च्छ द्रव्य जड़त्व होने से और कभी घ-

थक् न रहने से एकता और आकार के विभु मूढम अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय (अर्थात् अवकाश के विना मूर्त्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता) और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ा और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात् उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, और होंगे इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते (आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणो पुरुष के समान अन्वयकी और पङ्के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य वैधर्म्य और विशेषणभाव न हो) ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ( उत्तर ) दोनों प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं । एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं ? ( उत्तर ) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलिये “यद्गुणैस्सह वर्त्तमानं तत्सगुणम्,, “गुणैभ्यो यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्,, जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिस में केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है । ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्झायां करते हैं

कैसे प्रतिपाद्यवस्तुक्त मनुष्य अडबड करता है वैसे ही अविद्वानों के कहे-कहे को  
को अर्थ समझना चाहिये ( मन्त्र ) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? ( उत्तर ) दोनों में  
कहीं क्योंकि राम अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ  
उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को छोड़  
देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं  
सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । ( मन्त्र ) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? ( उत्तर )  
किसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख-विशेष  
होके उस की होती है तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ व कोई  
उस से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये ई-  
श्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन  
और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है । इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही स-  
ज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥

यस्माद्वचो अपातन्न यजुर्यस्मादुपाकषन् । सामानि यस्य  
लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः त्विदं

सः । अथर्व० कां० १० । प्रपा० २३ । अतुं० ४ । मं० २० ॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कौन का  
देव है ? इस का ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयम्भूर्याथात्थ्यतोऽर्थान् व्युद्धान्छ्वाश्वतीभ्यः समान्यः ॥

यजुः० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप प्रजा  
के कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । ( मन्त्र )  
परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? ( उत्तर ) निराकार मानते हैं ( मन्त्र )  
अब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश बिना मुख के वल्लोचरण कैसे हो सका होगा ?  
क्योंकि षण्ठी के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिहा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये ।  
( उत्तर ) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति  
से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख विद्या

वेदों का उद्देश्य अपने से मिन को बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अर्थों में ही नहीं। क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूढ़ के देखा सुनो कि जिह्वा मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्तर्भावित से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। (जब परमेश्वर विरहकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता।)

(प्रश्न) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर):--

अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।

शत० ११ । ४ । २ । ३ ॥

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अक्षिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया। (प्रश्न) :-

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥

श्वेताश्व० अ० ६ । म० १८ ॥

इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अन्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहे ? (उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा है:--

अग्निवायुरविम्यस्तु तयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम् ॥ मनु० १ । २३ ॥

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अक्षिरा से अृग्यजुः साम अथर्व वेद का ग्रहण किया। (प्रश्न) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) वे ही और सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये ऋषि ब्रह्मा का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करने संभव में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर

किसी ही आता क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनाता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया भी किसी देश की भाषा नहीं और वेदभ्रम अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एक सी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है । ( प्रश्न ) वेद ईश्वरकृत हैं अथवा मनुष्यकृत नहीं इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित, शुद्ध, गुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं और जिस में सूक्ष्म प्रत्यक्षादि प्रमाण आसों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में आन्तरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्ता है वैसा ही ईश्वर, सृष्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तरहवें और चौदहवें समुल्लास में की जायगी । ( प्रश्न ) वेद की ईश्वर से होमे की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर परचात पुस्तक भी बना लेंगे । ( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान् नहीं होते और जब उन को कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान् हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता । इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के आविर्भाव को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों या पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा सङ्ग है वैसा ही हो जायगा । इस का दृष्टान्त जंगली भील आदि हैं जबतक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इजिप्ट के कुतुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रों लाखों



कोई वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुनः सुरिक्षा के पाने से विद्वान् हो गये हैं, कैसे परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये।

स पूर्वेषामपि गुरुः क्लिनानवच्छेदात् ॥ योगसू०

समाधिपादे सू० २६ ॥

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पद ही के विद्वान् होने हैं जैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पदालेहारा है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता उस का ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। (( प्रश्न ) वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अर्भीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहासपूर्वक ग्रंथ बनाये। उन का नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और:—

५ ऋषयो मन्त्रदृष्टयः मन्त्रान्सम्प्राददुः ॥ निरु० १।२० ॥

जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावे उन को मिथ्यावादी समझे वे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक हैं। ( प्रश्न ) वेद किन ग्रंथों का नाम है ? ( उत्तर ) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मन्त्रसंहिताओं का अन्य का नहीं ( प्रश्न ) :—

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञामूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? ( उत्तर ) देखो

इति। पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा गया है और अथर्ववेद पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा गया है। निरुक्त में:—

इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम् । नि० अ० ५ । खं० १ । ४१॥

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ अष्टाध्या० ४ । २ । ६ । ६॥

इस से भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्रभाग और ब्राह्मण व्याख्याताम है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई "ऋग्वेदविभाष्यभूमिका" में देख लीजिये। वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का बचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उस के जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रन्थ भी उस के जन्म के पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस शब्द से विधा का बोध होवे उस शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर) आसहस्रैस्तस्यैव । (प्रश्न) शाखा क्या कहाती हैं ? (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । (प्रश्न) संसार में विद्वान् वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिक सा शिवा करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस शब्द से प्रसिद्ध मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में "इपे त्वोर्जे-त्वेति" इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनी आदि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" में देख लें जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जायें । (प्रश्न)

वेद नित्य हैं वा अनित्य ? ( उत्तर ) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उन  
के ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण कर्म स्वभाव नित्य और  
अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । ( प्रश्न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्तर )  
नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ।  
किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं । ( प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों को  
ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञानसे उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? ( उत्तर ) ज्ञान-  
वञ्चय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द षड्जादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के  
ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है  
किं इस प्रकार सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को पढ़ने के परचात् व्याकरण  
निरुक्त और छन्द आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्यार्थी के प्रकाश के लिये किये हैं जो  
परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके इसलिये वेद परमेश्वरोक्त  
हैं इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि  
तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में  
कहा है हम उस को मानते हैं ॥

अब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर और वेदविषय  
में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्र.

काशे सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये

सप्तमः समुल्लासः सम्पूर्णाः ॥ ७ ॥

## अथाष्टमसमुल्लासारम्भः

अथ सृष्ट्युत्पत्ति स्थिति प्रलय विषया नव्याख्यास्यामः ।

इयं विसृष्टिर्धृतं आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्य-  
ध्यक्षः परमे व्योमन्सो अद्भ वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥ +

तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकृतं संलिल सर्वमा इदम् । तुच्छये-  
नाभ्वर्षिहितं यदासीत्तपस्तन्माहिना जायतैकम् ॥ २ ॥ ऋ० मं०  
१० । सू० १२१ । मं० ७ । ३ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्थ ज तः पतिरेक आसीत् । स दौधार  
पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवार्य हविषा विधेम ॥ ३ ॥ ऋ० मं०  
१० । सू० १२१ । मं० १ ॥

पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भान्यम् । उतामृतत्वस्येशानौ  
यदभेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः० अ० ३१ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्र-  
यन्त्यभिसंविशन्ति तद्दिजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ ५ ॥

तैत्तिरीयोपनि० भृगुवल्ली । अनु० १ ॥ ३५१ नन्दकी १ पृष्ठ ३६४

हे (ब्रह्म) मनुष्य ! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और प्रलय करता है जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पादित है

प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे को तू विकृता मत मान ॥ ३ ॥ यह सब जगत् सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत्त रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सम्मुख एकदशी आच्छादित था परन्तु परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने पृथ्वी से ले के सूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उस के जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरकसू० अ० ३ । पा० १ । सू० २ ॥

जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है ( प्रश्न ) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? ( उत्तर ) ( निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है ) ( प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? ( उत्तर ) नहीं, वह अनादि है । ( प्रश्न ) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? ( उत्तर ) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं । ( प्रश्न ) इस में क्या प्रमाण है । ( उत्तर ) :-

हा सुपर्णा सयुजा सर्वाया समानं वृद्धं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्यर्शनजन्यो अभि चाकशीति ॥ १ ॥

ऋ० म० १ । सू० १६४ । म० २० ॥

शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः० अ० ४० । म० ८ ॥

( प्रश्न ) जो ब्रह्म और जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापकभाव से संयुक्त ( सर्वाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि

हैं और ( समानम् ) वैसा ही ( वृक्षम् ) अनादि मूलरूप कारण और शास्त्ररूप कार्य-  
युक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में त्रिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि  
पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक  
जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप-पण्यरूप फलों को ( स्वाद्वृत्ति ) अच्छे प्रकार  
भोगता है और वृक्षरूप परमात्मा कर्मों के फलों को ( अनभ्रम् ) न भोगता हुआ चारों  
ओर अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव  
और दोनों से प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ ( शश्वती० ) अर्थात् अनादि  
सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेदद्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥ २ ॥

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वद्वीः प्रजाः सृजमानां  
स्वरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येतां भुक्तभो-  
गामजोऽन्यः ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि ! अ० ४ । म० ५ ॥

प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता  
और न कभी वे जन्म लेते अर्थात् वे तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई  
नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करना हुआ फंसना है और उस में परमात्मा  
न फंसता और न उसका भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वरविषय में  
कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं :-

सत्वरजस्तमसां सान्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽ-  
हङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मा-  
त्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥

साङ्ख्यसू० । अ० १ सू० ६१ ॥

( सत्त्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिल कर  
जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्तत्त्व बुद्धि उस से अहङ्कार  
उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा न्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं  
से पृथिव्यादि पांच भूत वे चौबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है  
इन में से प्रकृति अधिकारिणी और महत्तत्त्व अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्मभूत प्रकृति का

कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादन कारण और न किसी का कार्य है ( प्रश्न ) :—

१ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ॥ १ ॥ छांदो० । प्र० ६। खं० २॥  
 असहा इदमग्र आसीत् ॥ २ ॥ तैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव०  
 अनु० ७॥ आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥ ३ ॥ बृह० अ० १। ब्र० ४। मं० १॥  
 ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ॥ ४ ॥ शत० ११ । १ । ११ । १ ॥  
 हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत् । १ । असत् । २ । आत्मा । ३ ।  
 और ब्रह्मरूप था । ४ । पश्चात् :—

तदैक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां पूजायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु० ६ ।

वही परमात्मा अपनी इच्छा से वहरूप हो गया है ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।

यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं । ( उत्तर ) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में :—

एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्सोम्य-  
 शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ  
 सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सहायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ छा-  
 न्दो० प्र० ६ । खं० ८ । मं० ४ ॥

हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान, कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उस को जान, यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव न था और जो ( सर्व खलु ) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुणवा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्योंकि—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥

छान्दो० प्र० ३ । खं० १४ । मं० १ ॥ श्रौतः—

नेह नानास्ति किंचन । कठोपनि० अ० २ । वल्ली० ४।८३

मं० ११ ॥

जैसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं । मुनो इसका अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और जघिन होता है जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सह चरित है उस को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखण्डैकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन (एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उस को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिस के बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारण और प्रत्यक्ष करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्यान्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव ) (उपादान कारण प्रकृति परमात्मा जिस को सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है ) । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । (जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन



बल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान, और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, अस्त्र, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकता है) ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं :—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च ॥ मुण्डकोपनि० मुं० १ ।

खं० १ । मं० ७ ॥

यह उपनिषद् का द्वाचन है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आपही उस में खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहु रूप अर्थात् जगदाकार हो जाऊं सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बन गया क्योंकि:—

अदावन्ते च यन्चारित वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ गौडपदै० य कारिका उक्तो० ३१ ॥

यह माण्डूक्योपनिषद् पर कारिका है । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं:—

कारणमुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशेषिक ॥ अ० २ ।

भा० १ । सू० २४ ॥

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्कार्यरूप से असत् जड़ और आनन्दरहित ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है ब्रह्म अखण्ड और जगत् खण्डरूप है जो ब्रह्म से पृथिव्यादि

कार्य उत्पन्न होंगे तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़दि गुण ब्रह्म में भी होंगे अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । जैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके सान्नीभूत आनन्दमय हो रहा है ॥ और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है । जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं जानता ॥ और जो वह कारिका है वह भ्रममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी बार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत् का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि:—

तमं आसीत्तमसा गूढमग्र ॥ ऋ० मं० १० । सू० १२९ । मं० ३ ।

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु० १ । ५ ॥

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारम्भ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव सिद्धात्मा सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिस को प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ?

( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? ( प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द में

बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थों की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे मुगुप्ति में पड़े रहते हैं—और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उस का क्या प्रयोजन विना जगत् की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को बनावे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । ( प्रश्न ) बीज पहिले है वा वृत्त ? ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है । ( प्रश्न ) (जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? ( उत्तर ) सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहाला है कि जो असम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात् जैसा कारण के विना कार्य को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मों आदि हो सकता है वा नहीं ? ( जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है ) ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीरयुक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश

काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीरधारी हैं इस से त्रैलोक्य, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वर में नहीं ला सकते हैं, वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उस की अनन्त शक्ति बल पराक्रम है उन से सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगद्भाकार कर देता है) । ( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उन का सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) (यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं) ( प्रश्न ) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) नहीं, क्यों कि जिस का अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरशुक्र का धनुष् और दोनों खपुष्प की माला परिरे हुए थे, मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्व नगर में रहते थे वहां बहल के बिना वर्षा पृथिवी के बिना सब अन्न की उत्पत्ति आदि होती थी वैसे ही कारण के बिना कार्य का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “ मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च ” । अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ, बिल में सर्प न था निकल आया मैं कहीं नहीं था ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं ऐसी असम्भव बात प्रसन्न गीत अर्थात् पागल लोगों की है । ( प्रश्न ) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है

जैसे पृथिवी धर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण-प्रकृति है वह अनादि है ।

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यद० अ० १ । सू० ६७ ॥

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता इस से अकारण सब कार्यो का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है (वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न हो तो जगत् भी न हो ।)

अत्र नास्तिका आहुः—शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्म-  
त्वाहिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यद० अ० १ । सू० ४४ ॥

१४ अभावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपपद्य प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥

१६ ईश्वरः कारणं पुण्यकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

२२ अनिमित्तनो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्षण्यादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

२५ सर्वमनित्यमुत्पत्तिर्विनाशधर्मकत्वान् ॥ ५ ॥

२६ सर्वं नित्यं पञ्चभूतानित्यत्वात् ॥ ६ ॥

३४ सर्वं पृथक् भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥ ७ ॥

३९ सर्वमभाशो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥

न्यायनू० ॥ अ० ४ । आ० १ ॥

यहां नास्ति क लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उस का अभाव होकर शून्य हो जायगा । ( उत्तर ) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से बर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का

जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई, (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमर्दन कौन करता और उत्पन्न कमी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दीक्षने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन है । ( उत्तर ) ( जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक-कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबूल आदि वृक्षों के काटे तीक्ष्ण आशुजले देखने में आते हैं इस से विदित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं । ( उत्तर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है बिना कंटकी वृक्ष के काटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और बिनाशवाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है-नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । ( उत्तर ) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है । ( उत्तर ) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्तमान में अनित्यत्व और परममूढम कारण को अनित्य कहना कमी नहीं हो सकता

जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उस को भी अनित्य मानो जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उन का वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इसलिये वहां उन का ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । ( प्रश्न ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य होजाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उन का अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है । इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥ ५ ॥ छःठा नास्तिक-कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है । ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्यों कि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक-कहता है कि सब पृथक् २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता । ( उत्तर ) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक् २ पदार्थ समूहों में एक २ हैं उन से पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता इसलिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् २ हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जैसे "अनन्धो गौः । अगौरश्चः"

गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये ।  
 ( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “ गवि गौरश्वेऽश्वो भावरूपो-  
 वर्तत एव ,, गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं होसक-  
 ता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे? ॥ = ॥ नववां  
 नास्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन्न एकत्र हो  
 सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि और  
 पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्रफेन,  
 हल्दी चूना और नीबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्व-  
 भाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनानेवाला कोई भी नहीं ( उत्तर ) जो स्वभाव से  
 जगत् की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो  
 उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश  
 की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश  
 मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा जो स्वभाव  
 ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव  
 नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य  
 आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २  
 ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि  
 उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी चूना और नीबू का रस दूर २ देश से आ  
 कर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उस में भी यथायोग्य मिलाने से  
 रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति परमाणुओं  
 को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलायें विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि  
 के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु पर-  
 मेश्वर की रचना से होता है ॥१॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्ता न थान है और न होगा  
 किन्तु अनादिकाल से यह जैसा का वैसा बना है न कभी इसकी उत्पत्ति  
 हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर ) विना कर्ता के कोई भी क्रिया  
 वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से  
 रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं होसकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व



नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इन में परमाणु पृथक् २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ ( प्रश्न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अलिमादि ऐश्वर्य्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है । ( उत्तर ) जो अनादि ईश्वर जगत् का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहाँ से होता ? जीव चाहै जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अघि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वरकृत सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादिसिद्ध परमे श्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता ( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? ( उत्तर ) जैसी कि अब है वैसी पहिले भी और आगे होगी भेद नहीं करता:-

- सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं  
चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १९० । मं० ३ ॥

( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ इसलिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिस का ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं ( प्रश्न ) सृष्टिविषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? ( उत्तर ) अविरोध है । ( प्रश्न ) जो अविरोध है तो:-

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशा-

हायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या  
 ओषधयः । ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स  
 वा एष पुरुषोऽनरसमयः ॥ तैत्तिरीयोपनि • ब्रह्मानन्दव • अनु • १ ॥

उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है ~~सम्पन्न~~ ~~में~~ ~~आ~~ ~~काश~~ ~~की~~ ~~उत्पत्ति~~ ~~नहीं~~ ~~होती~~ ~~क्योंकि~~ ~~(~~ ~~बिना~~ ~~अवकाश~~ ~~के~~ ~~प्रकृति~~ ~~और~~ ~~परमाणु~~ ~~कहाँ~~ ~~उत्तर~~ ~~सकें)~~ आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वायु, वायु से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है, यहाँ आकाशादि क्रम से और छान्देोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस को सच्चा और किस को भ्रूटा मानें ? (उत्तर) इस में सब सच्चे कोई भ्रूटा नहीं वह भ्रूटा है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात् आकाशादिक्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जलक्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहाँ २ प्रलय होता है वहाँ २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे, छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है । मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिस के बनाने में कर्म चेष्टा न की जाय" वैशेषिक में "समय न लगे बिना बने ही नहीं" न्याय में "उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता" योग में "विद्या, ज्ञान, विचार न किंवा जाय तो नहीं बन सकता" सांख्य में "तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता" और वेदान्त में "बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके" इस लिये सृष्टि छः कारणों से बनती है उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्त्र में है इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर धरें वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्रकारों ने

मिलकर पूरी की है जैसे पांच अंधे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाड़ू, पांचवे ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ मैसा सा आकारवाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत ग्रंथ न पढ़ कर नवीन क्षुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के झूठा झगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो ग्रंथों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावें ? वैसे ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है ( प्रश्न ) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तबतक उस को यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-

नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां  
परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथग्वर्त्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगा-  
रम्भः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ।

अनादि नित्यस्वरूप सत्व, रजम् और तमोगुणों की एकावस्धारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बन्ती है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहावती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य कहता है वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है । क्या आंस की आंस, दीपक

का दीपक, और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्ता कहाता है ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शाभेः ॥

भगवद्गी० अ० २ । १६ ॥

कभी असत् का भाव वर्तमान और सत् का अभाव अवर्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आप्रही मलिनात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान् सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जानकर औरों को निष्कपटता से जानते हैं इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता (जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है) उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्त्व और जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्म भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूल भूत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की ओषधियां वृक्ष आदि उन से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है (परन्तु आदि सृष्टि मैथनी नहीं होती क्योंकि जब ही पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है) देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान् लोग देख कर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, मीहा, यकृत, फेफड़ा पंखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत् ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत,

स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का वि-  
भागकरण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता  
है ? इस के विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आ-  
दि के बीजों में अति मूढम रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से  
युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध  
रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोडों भू-  
गोल मूर्त्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के  
विना कोई भी नहीं कर सकता।) जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का  
ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बना-  
नेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया देखा तो विदित  
हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान् कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह  
नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। ( प्रश्न )  
(मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? ( उत्तर ) पृथिवी आदि की, क्योंकि  
पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) सृष्टि की  
आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? ( उत्तर ) अनेक, क्योंकि  
जिन जीवों के कर्म ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि  
में ईश्वर देता क्योंकि “ मनुष्या अष्टयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त ” यह यजु-  
वेद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सैकड़ों स-  
हस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक  
मा बाप के सन्तान हैं। ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा वृ-  
द्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? ( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक  
उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृ-  
द्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है। ( प्रश्न )  
कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात  
के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी  
प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्र-  
लय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं

किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसे ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कर्त्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पक्षपात आता है । ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता ( प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? ( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात् जिस को "तिब्बत" कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात् "विजानीह्यार्यान्वे च दस्यवः" यह ऋग्वेद का वचन है । श्रेष्ठों का नाम आर्य्य विद्वान् देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य्य और दस्यु दो नाम हुए "उत शूद्रे उतार्ये" अथर्ववेदवचन—आर्य्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आर्य्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य्य अर्थात् अनाड़ी नाम हुआ । ( प्रश्न ) फिर वे यहां कैसे आये ? ( उत्तर ) जब आर्य्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बसेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जान कर यहीं आ कर बसे इसी से इस देश का नाम "आर्यावर्त्त" हुआ । ( प्रश्न ) आर्यावर्त्त की अवधि कहां तक है ? ( उत्तर ) :—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमान् ।  
तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।

नद्यानन

तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्त्तं प्रचक्षते ॥ मनु० २।२२।१७ ॥

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाले के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त्त इसलिये कहते हैं कि यह आर्यावर्त्त देश अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त्त कहाया है । ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ? ( उत्तर ) इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात् तिब्बत से मूधे इसी देश में आकर बसे थे । ( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिन को अमुर और राक्षस कहते थे आर्यलोग अपने को देवता बतलाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया । ( उत्तर ) यह बात सर्वथा झूठ है क्योंकि:—

विजानीह्यार्यान्ये च दस्थवो वहिष्मते रन्धया शासदन्नतान् ।

ऋ० मं० १ । सू० ५१ । मं० ८ ॥

उत शूद्रे उतोर्य ॥ अथर्व० कां० ११ । व० ६२ ॥

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, आस पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात् अनाड़ी है । जब

वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते और देवामुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो श्री रामचन्द्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवामुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को रामरावण अथवा आर्य्य और गन्त्यों का संग्राम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य्य लोग ईरान से आये और यहां के जंगलियों को लड़ कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ? औरः

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः । मनु० १० । ४५ ॥

म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ मनु० २ । २३ ॥

जो आर्य्यवर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं इस से भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था । अब भी देख लो हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आर्यावर्त की मूध पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तिय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन के नागवंशी अर्थात् नाग नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पाण्डव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहता तथा इस में यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के



स्वाम्भवादि सात राजा और उन के सन्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने ने यह आर्यावर्त बसाया है । अब अभाम्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमत्तान्तर के आग्रहहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना अतिदुष्कर है विना इस के छूटे परम्पर का पूर्ण उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है ( प्रश्न ) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? ( उत्तर ) एक अर्ब, छानवे कोड़, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका \* में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात् जो काटा नहीं जाता उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्व्यणु जो स्थूल वायु है तीन द्व्यणु का अग्नि, चार द्व्यणु का जल, पांच द्व्यणु की पृथिवी अर्थात् तीन द्व्यणु का त्रसरेणु और उस का दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । ( प्रश्न ) इस का धारण कौन करता है, कोई कहता है शेष अर्थात् सहस्र फणवाले सर्प के शिर पर पृथिवी है, दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खँची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में कि-

\* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो ।

स बात को सत्य मानें ( उच्चार ) जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सर्प और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं ? बैलवाले मुसल्मान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्पवाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेष और बैल किस का बच्चा है ? कहेंगे कश्यप कद्रू और बैल गम्भ का। कश्यप मरीचि का, मरीचि मनुका, मनु विराट् का और विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा अर्द्ध-सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किस ने धारण की थी ? अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो “ तेरा चुप मेरी भी चुप ” और लड़ने लग जायेंगे। इस का सच्चा अभिप्राय यह है कि जो “ बाकी ” रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने “शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्” ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ कर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसी से उस को “शेष” कहने हैं और उसके आधार पृथिवी हैः।

सत्येनोत्तमिता भूमिः ॥ अथर्व० कां० १४१व० ११ मं० १॥

( सत्य ) अर्थात् जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है ॥

उच्चा दाधार पृथिवीमुत द्याम् ॥

यह ऋग्वेद का वचन है— इसी ( उच्चा ) शब्द को देख कर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उच्चा बैल का भी नाम है परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा ! इस लिये उच्चा वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करनेवाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। ( प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर

कैसे धारण कर सकता होगा? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भांतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभुः प्रजम्भु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के पर कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन सकते हैं तो समष्टि कहाती है और एक २ वृक्षादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाती है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिन कर जगत् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्त्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत् को रचता है वही:-

स दाधार पृथिवीं धामृतेमाम् ॥ यजुः० अ० १३ । मं० ४ ॥

जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशरहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत् का कर्त्ता और धारण करने वाला है। (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर? (उत्तर) घूमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि:-

आयं गौः पृथिवीं क्रमदिसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥

यजुः० अ० ३ । मं० ६ ॥ ज्ञानेदपता

अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इसलिये भूमि घूमा करती है ॥

आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेश्यन्नमृतं मर्त्यं च ।  
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥  
यजुः० अ० ३३ । मं ४३ ॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्ता प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान् द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्त्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाशक हैं जैसे:—

दिवि सोमो अर्धे श्रितः ॥ अथ० कां० १४।अनु० १।मं० १॥

जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड़ में हो जाता है उतने में रात अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्यान्ह, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् “ अमेरिका ” में अस्त होता है और जब आर्यावर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होना है जब आर्यावर्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है (जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं) क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम ( ब्रध्नः ) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और करोड़ों कोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता । और गुरु पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी कहते हैं कि पृथिवी

घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं क्यों ? जो नीचे २ जली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है । (प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं । क्योंकि:—

एतेषु हीदं सर्वं वसु हितमेते हीदं सर्वं वासयन्ते तद्य-

दिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्भव इति ॥ शत० कां० १४ ।

प्र० ६ । ब्रा० ७ । कं० ४ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इन का वसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और ये ही सब को वसाते हैं जिसलिये निवास करने के घर हैं इसलिये इन का नाम वसु है जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात् उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है । (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में भेद होने का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हबश और आर्यावर्त्त, यूरोप में अवयव और रङ्ग रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि:—

मूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च  
पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ मं० १० । सू० १९० ॥

( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के मूर्ये चन्द्र चौ भूमि अन्तरिक्ष और तत्रस्थ मुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरो मे भी बनाये हैं भेद किंचित्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक-सी है । ( प्रश्न ) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? ( उत्तर ) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत् रक्षक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हों ? इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान् सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है ॥

इस के आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्षविषय में लिखा जायगा—यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिद्वारा सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय-

विषयेऽष्टमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

## अथ नवमसमुल्लासारम्भः

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः॥

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेशो भयं स ह । अविद्याया मृत्युं ती  
र्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ यजु० ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षणः—

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।  
पात० द० साधनपादे सू० ५ ॥

यह योगसूत्र का वचन है—जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात् जो कार्य जगत् देखा मुना जाता है, मदा रहेगा सदा से है और योगबल से यही देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है, अशुचि अर्थात् मलमय स्त्र्यादि के और मिथ्याभाषण चेरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुख बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात् “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या + यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति अमादन्यस्मिन्नन्यन्निश्चिनोति यथा साऽविद्या” जिस से पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अ-

न्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तरक्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मन्त्र में कहा है कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्युःदुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है ( प्रश्न ) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती ? ( उत्तर ) जो बद्ध है । ( प्रश्न ) बद्ध कौन है ? ( उत्तर ) जो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीव है । ( प्रश्न ) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती ( प्रश्न ) :—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

गौडपादीयकारिका प्र० २ । का० ३२ ॥

यह श्लोक माण्डूक्योपनिषत् पर है—जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात् न कुछ साधना करने हारा है, न लूटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फलभोगरूप बन्धन में फँसता, उस के लुढ़ाने का साधन करता, दुःख से लूटने की इच्छा करता और दुःखों से लूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है । ( प्रश्न ) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमात्र है शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है ( उत्तर ) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उन को शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उस को स्पर्श करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उन को भूख न पिपासा किन्तु प्राणवाले जीव को क्षुधा तृषा लगती है वैसे



ही मन भी जड़ है न उस को हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव करता है जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दण्ड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारनेवाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती वैसेही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप माधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्ता भोक्ता है । कर्मों का साक्षी तो एव. अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करनेवाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है वह ईश्वर साक्षी नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्मका प्रतिबिम्ब जीव तबतक है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है । ( उत्तर ) यह बालकपन की बात है क्यों कि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण आकारवाले हैं और पृथक् भी हैं जो पृथक् न हों तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भीर खच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार खच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है इसलिये इस को चिदाभास कहते हैं । ( उत्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जब आकाश से स्थूल वायु को आंख से नहीं देख सकता तो आकाश को क्योंकर देख सकेगा । ( प्रश्न ) यह जो ऊपर को नीला और धूधलापन दीखता है वह आकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो वह क्या है ? ( उत्तर ) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के त्रसरेणु दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धूधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूली उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कभी नहीं । ( प्रश्न ) जैसे घटाकाश, मठाकाश मेवाकाश और महाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । ( उत्तर ) यह

भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी द्विज भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लाओ,, इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ इस-  
 लिये यह बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश  
 के बीच में पत्नी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं  
 वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि में लोहा वैसे  
 चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चय है वैसे जीव को  
 ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं  
 क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि  
 गुण उसमें होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो  
 कि ब्रह्म आवृत और अखण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो कि अखण्डित है तो बीच में  
 कोई भी परदा नहीं डाल सकता जब परदा नहीं तो सर्वज्ञा क्यों नहीं ? जो कहो कि  
 अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं  
 नहीं चला तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सर-  
 कता जायगा वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी हो जायगा और जितना २ नृपता जायगा  
 वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को  
 अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्र-  
 माणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे मुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस  
 ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २  
 हैं । ( प्रश्न ) यह सब अध्यारोपमात्र है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्या-  
 रोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इस के व्यवहार का अध्यारोप करने  
 से जिज्ञामु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं ( प्रश्न ) अध्यारोप का  
 करनेवाला कौन है ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किस को कहते हो ( उत्तर )  
 अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही  
 ब्रह्म ? ( उत्तर ) वही ब्रह्म है ( प्रश्न ) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की झूठी  
 कल्पना करली ? ( उत्तर ) हो, ब्रह्म की इस से क्या हानि ( प्रश्न ) जो मिथ्या क-  
 ल्पना करता है क्या वह झूठा नहीं होता ? ( उत्तर ) नहीं, क्यों कि जो मन वाणी  
 से कल्पित वा कथित है वह सब झूठा है । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से झूठी

कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं। (उत्तर) हो, हम को इष्टापत्ति है ! (वाह रे भूटे वेदान्तियो ! तुम ने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति-का कारण नहीं है) ? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कल्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दगड़ दिया अर्थात् 'उलटि चोर कोतवाल को दगड़े' । इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दगड़े परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दगड़ देवे वैसे ही तुम मिथ्यासङ्कल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होंगे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय क्योंकि वह एकरस है सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुम्हारे हैं ब्रह्म के नहीं जिस को तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न हो कर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

### अब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किस को कहते हैं ? (उत्तर) "मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सः मुक्तिः" जिसमें छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किस से छूट जाना ? (उत्तर) जिस से छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किस से छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिस से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किस से छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से । (प्रश्न) छूट कर किस को प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या कुसङ्ग कुसंस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पञ्चापातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने, और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पञ्चापातरहित न्यायधर्मा-

नुसार हां करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विररीत ईश्वरगज्ञाभंग करने आदि काम से बन्ध होता है । (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? ( उत्तर ) विद्यमान रहता है । ( प्रश्न ) कहां रहता है ? ( उत्तर ) ब्रह्म में । (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है । (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता ( प्रश्न ) फिर वह मुख और आनन्दभोग कैसे करता है ? ( उत्तर ) उस के सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिकसङ्ग नहीं रहता जैसे:-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् प्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयंश्चित्तम्भवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भवति ॥ ज्ञानपथ० कां० १४ ॥

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिये प्राण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है (विसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है) ( प्रश्न ) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौबीस प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है । इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का मुख कौन भोगता ? और जो जीव के नाश हो को मुक्ति समझते हैं वे तो महाभूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से छूट कर

आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शरीरकसूत्रों में:—

अभावं वादरिराह ह्यवम् ॥ वेदान्तद० ४।४।१० ॥

जो वादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते वैसे ही:—

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ वेदान्तद० ४।४।११ ॥

और जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों, और प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ वेदान्तद० ४।४।१२ ॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदा पञ्चावनिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥ कठो० अ० २ ।

ब० ६ । मं० १० ॥

जब शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उस को परम गति अर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥

य आत्मा अपहृतपापमा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजि-  
धत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा-  
सितव्यः सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान् यस्तमात्मान-  
मनुविद्य विजानातीति । छान्दो० प्र० ८ । ज्व० ७ । मं० १ ॥

स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसंतान् कामान् पश्यन्  
रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते

तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आप्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाश्च  
लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजाना-  
तीति ॥ छान्दो० प्र० ८ । खं० १२ । मं० ५ । ६ ॥

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याशरी-  
रस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरी-  
रस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाचसन्तं न प्रियाप्रिये  
स्पृशतः । छान्दो० प्र० ८ । खं० १२ । मं० १ ॥

जो परमात्मा अपहृतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, लुधा, पिपासा से रहित सत्यकाम सत्वसंकल्प है उस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये जिस परमात्मा के संबन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है (जो ये ब्रह्म लोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्ति करनेवाले विद्वान् लोग करते हैं उस से उन को सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह १ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं) क्योंकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मी है और जैसे सिंह के मुखमें बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख और दुःख से सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि शरीररहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा अमनन्व में रहता है ( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ? क्योंकि:-

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत इति । छान्दो० प्र० ८ ।  
खं० १५॥ अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ वेदान्तद० अ० ४ ।  
पा० ४ । सू० ३३ ॥

यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । भगवद्गी०

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है:-

कस्य नूनं कंतमस्यामृतानां मनामहे चारुं देवस्य नाम । को  
नो मृषा अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ १ ॥ अ-  
ग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुं देवस्य नाम । स नो मृषा  
अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ २ ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० २४ । मं० १ । २ ॥

**इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांख्य० अ० १ । सू० १५६ ॥**

( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जाने ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हम को मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ ( उत्तर ) हम इस स्व-प्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने जो हम को मुक्ति में आनन्द भुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बद्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न ) :-

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापा-  
यादपवर्गः । न्यायद० अ० १ । सू० २२ । २ ॥

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय द्रुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जैसे "अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते" बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इससे यही बिदित होता है कि इस को बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये । ( प्रश्न ) जो मुक्ति से भी जावे फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? ( उत्तर ) :-

ते ब्रह्मलोकैर्षु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । २८१

मुराडक ३ । खं० २ । मं० ६ ॥

वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त हो के ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं । इस की सँख्या यह है कि तैंतालीस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे सप्त वर्षों का एक परान्तकाल होता है इस को गणित की रीति से यथावत् समझ लीजये । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । ( प्रश्न ) सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न आवें । ( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीवका सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त नहीं सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात् जीव निश्चेष होजाने चाहिये । ( प्रश्न ) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता है इसलिये निररोष नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ मड़कका हो जायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का



पारावार न रहैगा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे फट्टु न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो फट्टु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धनकोश हो परन्तु जिस में व्यय है और आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही व्यवस्था ठीक है ( कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है ? । क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंडवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मामला है ? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है ) ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य-मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा । ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है इसलिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इसलिये श्रम करना व्यर्थ है । ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जब तक ११००० ( बत्तीस सहस्र ) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुन इस का उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदिके लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में आना है तथापि

उसका उपाय करना अत्यावश्यक है ( प्रश्न ) मुक्ति के क्या साधन हैं ? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहै वह जी-वनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुख रूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छोड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहै वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है । सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात् सत्याऽसत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य का निश्चय अवश्य करें पृथक् २ जानें और शरीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करें । एक “ अन्नमय ” जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा “ प्राणमय ” जिस में “ प्राण ” अर्थात् जो बाहर से भीतर आता “ अपान ” जो भीतर से बाहर जाता “ समान ” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “ उदान ” जिस से कण्ठस्थ अन्न पान सैंचा जाता और बल पराक्रम होता है “ ग्यान ,, जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है, ताँसरा “ मनोमय ” जिस में मन के साथ अहंकार, वाक्, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं, चौथा, “ विज्ञानमय ” जिस में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है, पांचवां “ आनन्दमयकोश ” जिस में प्रीति प्रसन्नता न्यून आनन्द अधिकानन्द और आधार कारण रूप प्रकृति है । ये पांच कोष कहते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन अवस्था; एक “ जागृत ” दूसरी “ स्वप्न ” और तीसरी “ सुषुप्ति, अवस्था कहाती है । तीन शरीर हैं; एक “ स्थूल ” जो यह देखता है । दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय “ सूक्ष्मशरीर ” कहाता है यह सूक्ष्मशरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है । इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्मभूतों के अंगों से बना है । दूसरा स्वाम्भाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है, इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है । तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निद्रा हांती है वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है । चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का

पराक्रम मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोष अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता कहाता है । जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उस को जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इन को सुख दुःख का भोग व पाप पुण्यकर्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इन के सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है । जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है । जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । दूसरा साधन "वैराम्य" अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है । तत्परश्चात् तीसरा साधन "षट्क सम्पत्ति", अर्थात् छः प्रकार के कर्म करना एक "शम" जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरति" जिस से दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तितिक्षा" चाहै निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "श्रद्धा" जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण आप्त विद्वान् सत्योपदेष्टा महारथों के वचनों पर विश्वास करना, छःठा "समाधान" चित्त की एकाग्रता ये छः मिल कर एक "साधन" तीसरा कहाता है । चौथा "मुमुक्षुत्व" अर्थात् जैसे लुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । ये चार साधन और चार अ-

नुबन्ध अर्थात् साधनों के परचात् ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा "सम्बन्ध" ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समझ कर अन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। "तदनन्तर श्रवणचतुष्टय" एक "श्रवण" जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुन कर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शङ्का हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने और मनन करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थका स्वरूपगुण और स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवणचतुष्टय कहाता है। सदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद, आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात् शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मैत्री) सुखी जनों में मित्रता, (करुणा) दुःखी जनों पर दया, (मुदितः) पुण्यात्माओं से हर्षित होना (उपेक्षा) वृष्टात्माओं में न प्रीति न वैर करना। नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घटापर्यन्त मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हों। देखो? अपने चेतन स्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, अनन्दिता, वा विषादयुक्त होता है उस को यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदृष्ट का स्मरणकर्ता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षणकर्ता और सब से पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । योगशास्त्रे  
पादे २ । सू० ३ ॥

इन में से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक् वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता, मुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखो । जैनी लोग मोक्ष शिला, शिवपुर में जा के कुम्भचप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में विवाह लड़ाई बाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, जैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव वैकुण्ठ, और गोकलिये गोसाईं गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौराणिक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जैसे उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, ( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं । ( उत्तर ) जैनी ( १२ ) बारहवें, ईसाई ( १३ ) तेरहवें और ( १४ ) चौदहवें समुदास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं । जैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृतिवाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है । और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतङ्ग परवादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये "सालोक्य" मुक्ति अनायास प्राप्त है "सामीप्य" ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इसलिये "सामीप्य" मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है "सानुज्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतःबन्धुवत् है इस से "सानुज्य" मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इस से "सायुज्य" मुक्ति भी स्वतःसिद्ध

है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुचे गदहे आदि को भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्ष शिला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलारा, वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हों तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उस के समान बन्धन में होंगे (मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटकें नहीं, न भय, न शंका, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। ( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता और जिप्त मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ से जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ वारें हुई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात् गाढ निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस और किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शक्य करनी केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अज्ञ है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उस को ज्ञान हो कि हम ने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वह पापकर्मों से बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । ( उत्तर )

तो जब तुम जन्म से ले कर समय २ में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि मुख दुःख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवेद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता है और अविद्वान् नहीं जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता है मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिस से मुझे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत् में विचित्र मुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्यादि दुःख और बिना पूर्वसञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और मुनुद्धिता उस को क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख मुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है ( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु है उस को वह चाहे जैसे रखे उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उस को दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । ( उत्तर ) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायार्थांश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे क्या इस जगत् में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । ( उत्तर ) उस का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । ( प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही मुख दुःख है बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी—

जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो बाजार में हो के उस को जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्द पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिरसेदार के पास, आज हारूंगा वा जीतूंगा न जाने क्या होगा और कहार लोग तमावू पीते परस्पर बातें चीते करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठ जी दुःखसागर में डूब जाय और वे कहार जैसे के बैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछौने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उस को भट्ट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो । ( उत्तर ) यह समझ अज्ञानियों की है क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते देखो एक जीव विद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान शुक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाइ से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घूंसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आर्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुख



दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे मेरे पीछे भी जिस को चाहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जायगा इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य और अन्य पशवादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न २ जाति के ? ( उत्तर ) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पशवादि में और पशवादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं ? ( उत्तर ) हां, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पशवादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता है और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल पशवादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यम मनुष्य के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात् आकाशस्थ वायु में रहता है । क्योंकि "यमेन वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है । गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं । इस का विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे । पश्चात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः बीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीरधारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीरधारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुरुष के शरीरधारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता:

है और नपुंसक गर्भ की स्थितिसमय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजर्वर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञानको करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता है। (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्योंकि:—

भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिंश्चिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् वृष्टे पराऽबरे ॥

मुण्डक २ । खं० २ । मं० ८ ॥ १११

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है—क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जायें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तैत्तिरी० ।

आनन्दबल्ली । अनु० ? ॥ ११२

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस “विपश्चित्” अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है वही मुक्ति कहाती है। (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना

अधिक सुनो (जैसे सांसारिक मुझ शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि-विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकान्तरों में अर्थात् जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उस को सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है। यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयतृष्णा में फँस कर दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता है। “स्वः” सुख का नाम है “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः” “अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जबतक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उन को सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे:—

छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापं क्षीये दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति:—

{ मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाऽशुभम् ।  
वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ १ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पश्चिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्राप्य तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥

(सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्मृतम् ।

एतद् व्याप्तिप्रदेशेषां सर्वभूताश्रितं वदुः ॥ ४ ॥

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धात्तं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हरि देहिनाम् ॥ ६ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।

अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥

आरम्भरुचिताऽवैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥

लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता ।

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥

यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चैव लज्जति ।

तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ १२ ॥

येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।

न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥

यत्सर्वेषुच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चावरन् ।

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।

सत्त्वस्य लक्ष्मणधर्मः श्रेष्ठ्यमेवां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥

मनु० अ० १२॥ इति० ८ । ६।२५-३३ । ३५-३८ ॥

अर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान कर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और वह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उस को मन, वाणी से किये को वाणी, और शरीर से किये को शरीर अर्थात् सुख दुःख को भोगता है ॥ १॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उस को वृत्तादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पत्नी और मृगादि, तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्त्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम और जब रागद्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब सांसारिक पदार्थों में व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धमानयुक्त वर्त्ते तब समझना कि सत्त्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में हृष्य उधर गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में रुचिता धैर्यत्याग असत् कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात्

वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फँसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि च इत्ता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे कार्यों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म की सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं:—

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः ।

तिर्यक्तं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥

हस्तिनश्च तुरगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥

ऋक्षा मृगा नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ।

दूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥

गन्धर्वा गुरुका यक्षा विमुधानुचरारश्च ये ।  
 तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपुस्तमा गतिः ॥ ७ ॥  
 तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।  
 नक्षत्राणि च दैत्यारश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥  
 यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।  
 पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ९ ॥  
 ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।  
 उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहूर्मनीषिणः ॥ १० ॥  
 इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च ।  
 पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ११ ॥

मनु० अ० १२ । श्लो० ४० । ४२-५० । ५२ ॥

जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कुमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, स्तेच्छ, निन्दित कर्म करनेहारे सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण ( जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ) सुन्दर पत्नी, दाम्भिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मद्यादि के आहार कर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम रजोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे मल्ला अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे मल्ला अर्थात् नौका आदि के चलानेवाले नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रियवर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद-

विवाद करनेवाले, दूत, प्राइविवाक ( वकील बारिस्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ९ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धर्व ( गानेवाले ), गुह्यक ( वादित्र बजाने हारे ), यक्ष ( धनाढ्य ), विद्वानों के सेवक, और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूपवाली स्त्री उन का जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलानेवाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुणयुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्त्ता, वेदार्थवित्, विद्वान्, वेद विद्युत् आदि और कालविद्या के ज्ञाता, रत्नक ज्ञानी, और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अश्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ९ ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टिकम विद्या को जान कर विविध विमानान्त्रि यानों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होने हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़ कर अधर्म करने हारे अविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व, रज और तमोगुणयुक्त वेग से जिस २ प्रकार कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणानीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावों में न फँस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि:—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ पा० १ । २ ॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ पा० १ । ३ ॥

ये योगशास्त्र पातञ्जल के मूत्र हैं - मनुष्य रजांगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उस का निरोध कर एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इन के अभ्रभागमें चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ २ ॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और:—

अधत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । सांख्ये अ०१।सू०१॥

जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीरसम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से



दुःखित होना, अधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और भक्त्याऽभक्त्य का विषय लिखेंगे ॥ ९ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे  
सुभाषाविष्णुषिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषये  
नवमः समुह्यासः सम्पूर्णः ॥ ९ ॥

## अथ दशमसमुल्लासारम्भः

अथाऽऽचाराऽनाचारभङ्ग्याऽभङ्ग्यविषयान्  
व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहाता है उनको लिखते हैं:-

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।  
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥  
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।  
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥  
सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः ।  
व्रतानि यमधर्मारच सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥  
अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।  
यथादि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥  
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशालि च तद्विदाम् ।  
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥  
सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।  
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै ॥ ६ ॥  
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।  
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ७ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।  
 स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥  
 वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।  
 एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥  
 अर्थकामेष्वसकानां धर्मज्ञानं विधीयते ।  
 धर्मं जिज्ञाममानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥  
 वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिविजन्मनाम् ।  
 कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥  
 केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।  
 राजन्यबन्धोर्द्वादशे वैश्यस्य द्वाद्यधिके तनः ॥ १२ ॥ मनु०अ०२ ।  
 रत्नो० १-४ । ६ । ८ । ९ । ११-१३ । २६ । ६५ ॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन राग द्वेष-  
 रहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस को हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्तव्य जानें वही  
 धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और  
 निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से  
 सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहै कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ वा हो जाऊँ तो  
 वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्यभाषणादि व्रत, यम, निय-  
 मरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन  
 आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आत्म का  
 खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा  
 ऋषिप्रणीतशास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अ-  
 र्थात् भय, शंका, लज्जा जिन में न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो! जब  
 कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका,  
 लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य स-  
 म्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरोद्ध अच्छे प्रकार विचार

कर ज्ञान नेत्र करके श्रुतिप्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम मुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्तव्याऽकर्तव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य कर दें क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥८॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लान्त होता है ॥९॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय सेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उन के लिये वेद ही परम प्रमाण है ॥१०॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के सोलहवें, क्षत्रिय के बाईसवें और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केरात कर्म क्षीर मुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रख के अन्य डाढ़ी मूँड़ और शिर के बाल सदा मुदवाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाहै जितने केरा रखे क्षीर जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उस से बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूँड़ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेन्द्रियान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवस्त्रं च भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तर्पांसि च ।  
 न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥  
 वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।  
 सर्वान् संसाधयेदर्थानाच्छिवेन योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥  
 श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च शुकृत्वा घ्रात्वा च यो नरः ।  
 न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥  
 नापृष्टः कस्यचिद् दूयान्न चान्यायेन पृच्छतः ।  
 जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ ७ ॥  
 वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।  
 एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यन्नदृत्तरम् ॥ ८ ॥  
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।  
 अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ९ ॥  
 न हायनैर्न पालिनैर्न वित्तैर्न न बन्धुभिः ।  
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ १० ॥  
 विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणान्तु वीर्यतः ।  
 वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥  
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पालितं शिरः ।  
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥  
 यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।  
 यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १३ ॥  
 अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।  
 वारु चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥

मनु० अ० २ ॥ श्लो० ८८ । ९३ । ९४ । ९७ । १०० । ९८ ।

११० । १३६ । १५३ — १५७ । १५६ ॥

मनुष्य का यह मूल्य आचार है कि जो इन्द्रियांचित्त को हरण करनेवाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथि रोककर शुद्धमार्ग में चलाता है इसप्रकार इन को अपने वश में करके अधर्ममार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा चलाय करे ॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इन को जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और धी डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उस को विप्रदुष्ट कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्तुति मुनके हर्ष और निन्दा मुन के शोक अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख सुन्दररूप देखके प्रसन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछनेवाले को कि जो कपट से पूछता हो उस को उत्तर न देवे उन के सामने बुद्धिमान् जड़ के समान रहे हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उन को विना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धनसे उत्तम बन्धु, बन्धुसे अधिक अवस्था, अवस्थासे श्रेष्ठ कर्म और कर्मसे पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र प्राप्त विद्वान् अज्ञानी को

बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ १० ॥ अधिक वर्षों के बीतने, स्वैत बल के होने अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के बाल श्वेत होने से बुढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा वह जैसा काष्ठ का हाथी तथा चमड़े का शृग होता है वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ बिद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध हो जाय ॥

**आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ॥**

मनु० अ० १ । १०८ ॥

जो सत्यमाणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है ।

**मा नो वर्षीः पितरं माते मातरम् ॥**

यजुः ० अ० १६ । मं० । १५ ।

**आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥**

अथर्व० कां० ११ । व० १५ । मं० १७ ॥

**मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ॥ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७ । अनु० ११ ॥**

माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है और जिस २ कर्म से जगत् का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही

मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आप जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । ( प्रश्न ) आर्यवर्त्त देशवासियों का आर्यवर्त्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार और धर्मभ्रष्ट कभी न होगा और जो आर्यवर्त्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचारभ्रष्ट कहावेगा जो ऐसा ही होता तो :-

मेरोहरेश्च द्वे वर्षे वर्षे हैभयतं ततः ।

क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षेभ्यःसद् ॥

स देशान् विविधान् पर्यंश्रीजहूणा निषेवितान् ॥

महाभार० शान्ति० मोक्षध० । अ० ३२७ ॥

ये श्लोक भारत शान्तिपूर्व मोक्षधर्म में व्यास शुकसंवाद में हैं—अर्थात् एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्यसहित पाताल अर्थात् जिस को इस समय “अमेरिका” कहते हैं उस में निवास करते थे शुकाचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्माविद्या इतनी ही है वा अधिक ? व्यास जी ने जान कर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की सान्नी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र तू मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य कोण में जो देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अर्थात् वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को संस्कृत में ‘हरिवर्ष’ कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन को हूण “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस को अग्निमान गौता कहते हैं उन पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को



ले आये थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को 'कंधार,, कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ। माद्री पाण्डु की स्त्री 'ईरान्,, के राजा की कन्या थी और अर्जुन का विवाह पाताल में जिस को 'अमेरिका,, कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं? मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आजकल झूतझात और धर्मनष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है जो मनुष्य देश देशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भाति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण नुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाभ्रष्ट स्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारभ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में झूत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? हां, इतना कारण तो है कि (जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और चीर्ष्यान्निधत्तु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उन के संग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण न लग जाय) यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उन से युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उन को देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वैर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में ल-

गते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीख लें जिस से कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके । क्या बिना देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता ! पाखण्डी लोग यह समझते हैं कि जो हम इन को विद्या पढ़ावेंगे और देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखण्डजाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसीलिये भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें । हां, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में भी चौका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही अचार और पराजित होना अनाचार है । इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते विरोध करते करते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और इच्छा करते हैं कि कृच्छ्र पदार्थ मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त देशभर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है । हां जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना । ( मश्र ) सखरी निखरी क्या है ? ( उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी । यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस को खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रयत्न रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं । ( मश्र ) द्विज अपने हाथ से रसोई बनाके खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई

खावें ! ( उत्तर ) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व  
 र्गस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में  
 तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के बिना  
 न खावें सुनो प्रमाणः—

**आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कारार्ःस्युः ॥ आपस्तम्ब धर्म-  
 सूत्र । प्रपाठक २ । पटल २ । खण्ड २ । सूत्र ४ ॥**

आर्यों के घर में शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र  
 आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब रमों बनावें तब मुख बांध के बनावें क्योंकि  
 उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन क्षौर  
 नखच्छेदन करवें स्नान करके पाक बनाया करें आर्यों को खिला के आप खावें । ( प्रश्न )  
 शूद्र के हुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगते हैं तो उस के हाथ का बनाया  
 कैसे खा सकते हैं ! ( उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जिन्होंने ने गुड़,  
 चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने ने जानो सब जगत् भर के  
 हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ई-  
 साई आदि लोग खेतों में से ईख का काटते झीलते पील कर रस निकालते हैं तब  
 मलमूत्रेत्सर्ग करके उहीं बिना भोये हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सांठा चूस रस  
 पीके आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते  
 हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले में बिष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली  
 लगी रहती है उन्हीं जूतों से उस को रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का  
 जल डालते उसी में घृतादि रखते और आटा पिसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों  
 से उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूल कंद  
 में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ का  
 खा लिया । ( प्रश्न ) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते ?  
 ( उत्तर ) बाह जी दाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या भूल राख खाते  
 गुड़ शकर मांठी लगती दूध घी पृष्टि करता है इसी लिये यह मतलब सिन्धु क्या नहीं र-  
 चा है अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्था-

न में बनाकर तुम को आके देवे तो खा लोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है । हां; मुसलमान ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मद्यमांससदि खाना पीना अपराध पीछे लग-पड़ता है परन्तु आपस में आर्यों का एक मोजन होने में कोई भी दोष नहीं देखता जबतक एकमत, एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है । परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बात नहीं करते तबतक बढ़ती के बदले हानि होती हैं । विदेशियों के आर्वावर्त्त में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यवस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है । क्या तुमलोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सबलोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयंकर राक्षस कभी झूटगा वा आर्षों को सबमुखों में लुड़ाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाय । मद्याऽभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैषकशास्त्रोक्त जैसे धर्मशास्त्र में :—

अभक्ष्याणि द्विजानीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० । ५। ५ ॥

द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मलिन विष्टा मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना ।

वर्जयेन्मधु मांसं च ॥ मनु० २ । १७७ ॥

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि :—

बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । शाङ्गधर अ० ४ ।

श्लो० २१ ॥

जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करें और जितने

अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बनेहुए और (मद्यमंसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य मांस के परमपुत्रों ही से पूरित है उन के हाथ का न स्वावें) जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छःसौ मनुष्यों को मुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारे, न मारने दें। जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक नाभ से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उस का मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४६० ( चौबीस सहस्र नौ सौ साठ ) मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं उस के छः बछियां छः बछड़े होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बछड़ियों के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४००० ( एक लाख चौबीस सहस्र आठ सौ ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्मभर में ५००० ( पांच सहस्र ) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध और अन्न मिला ३७४००० ( तीन लाख चौहत्तर सहस्र आठ सौ ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से भिन्न बैल गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे जैसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आर्यों ने गाय को गिना है। और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से २५६२० ( पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस ) आदिमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। \* इन पशुओं को मारवेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करनेवाले जानियेगा। देखो! जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकार गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्यावर्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द

\* इस की विशेष व्याख्या " गोकर्णानिधि में " की है।

में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से निम्नोक्त मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि:—

नष्टे मूले नैव फले न पुष्पम् । वृद्धचाणक्य अ० १० । १३ ॥

जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? ( प्रश्न ) जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं को मार खायें तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? ( उत्तर ) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से भी विद्युक्त कर दें । ( प्रश्न ) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ( उत्तर ) चाहे फेंक दें चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें वा जला दें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी हो कर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात झुल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तंदुलादि गोधूम फल मूल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मितहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का प्रहण करना यह भी भक्ष्य है । ( प्रश्न ) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है सुधार नहीं इसीलिये:—

नोच्छिष्टं कस्यचिद्धानायाश्चैव तथान्तरा ।

न चैवान्यशानं कुर्यान्नचोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥ मनु० २ । ५६॥

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ मुस्त धोये विना कहीं इधर

उधर जाय ( प्रश्न ) “गुरोरुच्छिष्टभोजनम्” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? ( उत्तर ) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्ध स्थित है उस का भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात् शिष्य को भोजन करना चाहिये । ( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहित, बड़ड़े का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये । ( उत्तर ) सहित कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुतसी ओषधियों का सार ग्राह्य, बड़ड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बड़ड़े के पिये पश्चात् जल से उस की मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये । और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता । देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जंठा न खाय । ( प्रश्न ) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उन के भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है । ( प्रश्न ) कहो जी मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमड़े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोषरहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं । क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या म-

लादि भी खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? ( प्रश्न ) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपड़ा बिगड़ता न मलिन होता है जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी, मिष्ठ और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मक्खी कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में झाड़ू लेपनादि से शुद्ध प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पक्का मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है । जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोइला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूठी रकेबी, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वान्त होने का भी सम्भव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे में कंड़े जलाने उस की आग से तमावू पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियां जी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह । ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? ( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोंडे आदि यानों पर बैठके वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । ( प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? ( उत्तर ) जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने चौका देने बर्तन भांडे मांजने आदि बखेड़े में पड़े रहें तो विद्यादि शुभगुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजमूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आयु थे एक ही पाकशाला से भोजन किया



करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया । देखो ! काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पण्डितों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सय की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो इस में सब विद्वान लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बढ़ावें ॥

• यह थोड़ा सा आचार अनाचार भ्रष्टाभ्रष्ट विषय में लिखा इस ग्रन्थ का पूर्वार्द्ध इसी दशमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुल्लासों में विशेष खगडन मगडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ते तबतक स्थूल और सूक्ष्म खगडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्द्ध अर्थात् जिस में चार समुल्लास हैं उस में विशेष खगडन मगडन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खगडन मगडन के विषय में लिखेंगे और पश्चात् चौदहवें समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कोई विशेष खगडन मगडन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ा सा खगडन मगडन किया है इन चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से जो देखेगा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द होगा और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे मुनेगा उस को इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसलिये जो कोई इस को यथावत् न विचारेगा वह इस का अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्यग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही

गुणग्राहक पुरुष विद्वान् होकर धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ १० ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृतैः सत्यार्थप्रकाशे मुभावा-  
विष्णुषित आचारऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये दशमः समु-  
ल्लासः सम्पूर्णः १० ॥  
समाप्तोऽयम्पूर्वार्द्धः ॥

उत्तरार्द्धः

## अनुभूमिका ।

यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ । इन की अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अर्थात् जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं है इन सब मतवादियों इन के चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया है जो २ इसमें सत्यमत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जनाना ही प्रयोजन समझा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उस को सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है । पक्षपात छोड़ कर इस को देखने से सत्याऽसत्य मत सब को विदित हो जायगा पश्चात् सब को अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं उन का संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुह्लास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है । इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्तना अति उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मत म-

तान्तर के विवाद से जगत् में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं और होंगे उन को पक्षपात-रहित विद्वज्जन जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्धवाद न छुटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरांधजाल में फँसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जावें इस के होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान् परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥

अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्वरशिरोमणिवु ॥

उत्तरार्द्धः

अथैकादशसमुल्लासारम्भः

अथाऽऽर्यावर्तीयमतखण्डनमण्डने विधास्यामः ॥

अब आर्य्य लोगों के कि जो आर्यावर्त्त देश में बसनेवाले हैं उन के मत का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यह आर्यवर्त्तदेश ऐसा है जिस के सह्य भू गोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इस भूमि का नाम मुवर्णभूमि है क्योंकि यही मुवर्णादि रत्नों का उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की आदि में आर्य्य लोग इसी देश में आकर बसे इसलिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्य्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दम्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिस को लोहेरूप दरिद्र विदेशी लूते के साथ ही मुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं ॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिञ्चेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मनु०।२।२० ॥

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उस का प्रमाण है । इसी आर्यावर्त्तदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के

मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विधा चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें, और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और महा-भारत युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का ब्रजुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक्त अर्थात् मार्जर के सदृश आंखवाले, यवन जिस को यूनान कह आये और ईरान का शल्य आदि सब राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञाऽनुसार आये थे। जब रहूगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उस को रामचन्द्र ने दख देकर राज्य से नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वयंभव राजा से लेकर पाण्डवपर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात् परस्पर के विरोध से लड़ कर नष्ट हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यकारी, अविद्वान् लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य मांससेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छान्चारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिस का सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सुशु-  
 म्भूरिशुभेन्द्रशुभकुबलयाश्चयौवनाश्चवद्वृद्धवारवपतिनाश-  
 विन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरहयाक्षसेनादयः ।  
 अथ मरुत्प्रभरतप्रभृतयो राजानः । मैत्र्युपनि० प्र०१ । खं० ४ ॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट

होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहां सुद्युम्न, भूरियुम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवलयाम्भ, यौवनाम्भ, बद्ध्यम्भ, अश्रुपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननकु, सर्याति, ययाति, अनरग्य, अक्षसेन, मरुत्, भारतसार्वभौम सबभूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है (प्रश्न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं? और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं? (उत्तर) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन का सम्भव है (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिन से अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे "मन्त्र" अर्थात् विचार से सिद्ध करते और उल्लते थे और जो मन्त्र अर्थात् शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहै आप इसलिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा "राजमन्त्री" अर्थात् राजकर्मों का विचार करने वाला कहाता है वैसा मन्त्र अर्थात् विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है। जब दूसरा इस का निवारण करना चाहै तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके भट्ट वर्षने लग जावे अग्नि को बुझा देवे। ऐसे ही नागफांस अर्थात् जो शत्रु पर छोड़ने से उस के अंगों को जकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक मांहनास्त्र अर्थात् जिस में नशे की चीन् डालने से जिस के धुएँ के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्च्छित हो जाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं "तोप" और "बन्दूक" ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं

संस्कृत और आर्य्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तोप कहते है सं-  
 स्कृत और भाषा में उस का नाम "शतधनी" और जिस को बन्दूक कहते हैं उस को  
 संस्कृत और आर्य्याभाषा में "भुशुगडी" कहते हैं जो संस्कृतविद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम  
 में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं उस का बुद्धिमान लोग  
 प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्य्यावर्त देश  
 से भिश्चवालौ, उन से यूनानी, उन से रूम और उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका  
 आदि देशों में फैली है अबतक जितना प्रचार संस्कृतविद्या का आर्य्यावर्त देश में है  
 उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का  
 बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह  
 बात कहनेमात्र है क्योंकि "निरस्तपादपे देश परगडोऽपि द्रुमायते" अर्थात् जिस देश में  
 कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में परंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं वैसे ही यूरोप  
 देश में संस्कृतविद्या का प्रचार न होने से जर्मन् लोगों और मोक्षमूलरसाहब ने थो-  
 डासा पड़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्य्यावर्त देश की ओर देखें तो  
 उन की बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक "मिन्सिपल" के  
 पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं  
 और मोक्षमूलरसाहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुझको  
 विदित होता है कि मोक्षमूलरसाहब ने इधर उधर आर्य्यावर्तीय लोगों की की हुई टीका  
 देख कर कुछ २ यथातथा लिखा है जैसा कि "युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्त्रुषः ।  
 रोचन्ते रोचना दिवि" इस मन्त्र का अर्थ घोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचार्य्य ने  
 मूर्ख्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई  
 "अग्नेदादिमाष्यभूमिका" में देख लीजिये उस में इस मन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है  
 इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलरसाहब में संस्कृत विद्या का कितना  
 पाण्डित्य है । यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब  
 आर्य्यावर्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखो कि एक "जेकालयट", साहब पैरस अर्थात्  
 फ्रांस देश निवासी अपनी "बायबल इन इण्डिया" में लिखते हैं कि सब विद्या और  
 भलाइयों का भंडार आर्य्यावर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से  
 फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्य्यावर्त  
 देशकी पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये । लिखते हैं



उस ग्रंथ में देखलो तथा " दाराशिकोह " बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अब्बा आदि बहुत सी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का सन्देह छूटकर आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब निस्संदेह होकर मुझ को बड़ा आनन्द हुआ है देखो काशी के " मानमन्दिर " में शिशुमारचक्र को कि जिस की पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अबतक भी खगोल का बहुत सा वृत्तान्त विदित होता है जो " सवाई जयपुराधीश " उस का संभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि देश का महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह !

**विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ वृद्धचाणक्य। अ० १६।१७ ॥**

जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं कोई उन को सुधा समझावे तो उलटा माने और उलटी समझावे उसको सूधी मानें जब बड़े २ विद्वान् राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा जैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में खगड बगड राज्य हो गया पुनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की अवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान् होने में तो कथा ही क्या कहनी ! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मणलोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु बन गये तब झुल कपट अधर्म भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे जो १ पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनिवर्गों के शब्द में लिखा था उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भ-

ला वे प्राप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो २ गण्य मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी सब को अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिये और कहने लगे कि:—

**ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥ पाण्डवगीता**

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानों साक्षात् भगवान् के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात् भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मणनाम वालों को विषयानन्द का उपवन मिल गया यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादिवर्णव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रक्सी और मृतक पर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यहां तक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता ! इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर मरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो बड़े को भित होकर कहते हैं—हम “शप” देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोही विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्णवेद और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मात्मा सब जगत् के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अबश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों उनका न ब्राह्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है ( पृश्न ) तो हम कौन हैं ? ( उत्तर ) तुम पोप हो। ( पृश्न ) पोप किस को कहते हैं ? ( उत्तर ) उस की सूचना रूमन् भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं। ( पृश्न ) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हो। सुना है कि जैसे रूम के “पोप,”

चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे बिना  
 हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चा-  
 हो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुम को मि-  
 लेगी ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा  
 करके "पोप" जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह "पोप" जी ईसा और मरियम  
 की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था "हे खुदाबन्द  
 ईसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे  
 पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में  
 पच्चीस सहस्र रुपयों में बाग़ बगीचा और मकानात, पच्चीस सहस्र रुपयों में सवारी शिका-  
 री और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस स-  
 सहस्र रुपये इस के दृष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना" फिर  
 उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुण्डी उस के हाथों में देकर कह देते  
 थे कि "जब तू मरे तब इस हुण्डी को क़बर में अपने सिराने धर लेने के लिये  
 अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुझे ले जाने के लिये फ़रिश्ते आवेंगे तब तुझे और  
 तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर जिसे प्रमाणे सब चीज़ें तुझ को दिला देंगे" अब दे-  
 खिये जानो स्वर्ग का टेका पोप जी ने ले लिया हो ! जबतक यूरोपदेश में मूर्खता थी त-  
 भीतक वहां पोप जी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोप जी की  
 भूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्त देश में भी  
 जानो पोप जी ने लाख अवतार लेकर लीला फैलाई हो अर्थात् राजा और भजा को वि-  
 द्या न पढ़ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रातदिन बहकाने के सिवाय दूस-  
 रा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छल कप-  
 टादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहाते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान्  
 परापकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों ( मनु-  
 ष्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों ) ही का ग्रहण "पोप" शब्द से  
 करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो !  
 जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित  
 का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आर्षों को वेदादि स-

त्यशास्त्रों में प्रीतियुक्त कर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के !  
 “विषादप्यमृतं ब्राह्मम्” मनु० विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीका  
 से बहकाने में से भी आर्यों का (जैन आदि मतों से बच रहना) जानो विष में अमृत के  
 समान गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा प-  
 ढकर अभिमान में आपके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि  
 ब्राह्मण और साधु अदृश्य हैं देखो ! (ब्राह्मणो न हन्तव्यः) (साधुर्न हन्तव्यः) ऐसे २  
 वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा  
 लिये और भी भूटे २ वचनयुक्त ग्रंथ रचकर उन में ऋषि मुनियों के नाम धरके उ-  
 ण्ही के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की  
 व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन  
 पोपों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि  
 भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोपसंज्ञक कहनेमात्र के  
 ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना अर्थात् उन पर मनमें दंड देने की  
 इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने  
 कराने लगे अर्थात् इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त  
 हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या,  
 द्वेष के अंकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध हो गये जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त  
 में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने मगड़ने लगे क्योंकि: —

उपदेशोपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः । इतरथान्वपरम्परा ।

सांख्य० अ० ३ । सू० ७६ । ८१ ॥

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम, और  
 मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा  
 चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा  
 नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों  
 की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब वे लोग इन के वश  
 में हो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गहरिये के समान भूटे गुरु

और चले फँसे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले पश्चात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात् उन्हीं में से एक वाममार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तन्त्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की बातें लिखीं कि:—

मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।  
 एते पञ्च मकाराः स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥  
 कालीतन्त्रादि में ।  
 प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ।  
 निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥  
 कुलार्थवतन्त्र ॥  
 पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।  
 पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥  
 महानिर्माणतन्त्र ॥  
 मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ।  
 वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥  
 एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।  
 ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥

अर्थात् देखो इन गबर्गण्ड पोपों की लीला जो कि वेदविरुद्ध महाअधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्बण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर:—

अहं भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़के समागम करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते अर्थात् जिन नीचस्त्रियों का लूना नहीं उन को अतिपवित्र उन्हीं ने

माना है जैसे शस्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उन को वाम-मार्गियों ने अतिपवित्र माना है सुनो इन का श्लोक अंडबंडः—

**रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी  
प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुष्कसी प्रोक्ता ॥  
रुद्रयामल तन्त्र ॥**

इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा “तीर्थ” मांस का नाम “शुद्धि,” और “पुष्प” मच्छी का नाम “तृतीया” “जलतुम्बिका” मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और मैथुन का नाम “पंचमी” इसलिये ऐसे नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समझ सके । अपने कौल, आर्द्रवीर, शम्भु और गण आदि नाम रखते हैं और जो वाममार्ग मत में नहीं हैं उन का “कंटक” “विमुख” “शुष्कपशु” आदि नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भैरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का नाम द्विज हो जाता है और जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ हो-जायें । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक बिन्दु त्रिकोण चतुष्कोण वर्तु-लाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखके उस की पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं “ब्रह्मशापं विमोचय” हे मद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो ! एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगाकर पू-जती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं पश्चात् एक पात्र में मद्य भरके मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का आचार्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि “भैरवोऽहम्” “शिवोऽहम्” में भैरव वा शिव हूं कह कर पी जाता है फिर उसी जूठे पात्र से सब पित्ते हैं और जब किसी की स्त्री वा केश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देके उस का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं

तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूटे पात्र से सब लोग एक-एक प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहे कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कु-कर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुकामुक्की, केशाकेशि आपस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं वमन होता है उन में जो पहुँचा हुआ अघोरी अर्थात् सब में सिद्ध गिना जाता है वह धमन हुई चीज को भी खा लेता है अर्थात् इन के सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि:—

**हालां पिबन्ति दीक्षितस्य मन्दिरे सुतां निशायां गणिकागृ-  
हेषु । विराजते कौलवचक्रवर्ती ॥**

जो दीक्षित अर्थात् कलार के घर में जा के बोतल पर बोतल चढ़ावे रण्डियों के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लज्ज निःशंक होकर करे वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि:—

**पाशाबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥**

**ज्ञानसंकलनी तन्त्र । श्लो० ४३ ॥**

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निर्लज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है ॥

उड़ीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों और आलय हों उन में मद्य के बोतल भर के घर देवे इस आलय से एक बोतल पी के दूसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चौथे आलय में जावे खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीके गिरके उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा । वामियों के तन्त्र ग्रन्थों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना

चाहिये इन काममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्यावाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो जाय ऐसे श्वगल महाभूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य भूट चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शंभवी वाममार्गी की मुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध मत खड़ा किया है पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्गी की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात्:—

सौत्रामण्यां सुरां पिबेत् । प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं वैदिकी

हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणे दोषा न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥

मनु० अ० ५ । ५६ ॥

सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीने इस का अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोम-रस अर्थात् सोमबल्ली का रस पिबे प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस स्वाने में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुम्ह और तरे कुटुम्ब को मारके होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्रीगमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना झोकाड़ापन है क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अबतक वाममार्गियों के बिना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहनेवाला सदोष है ऐसे २ वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डालके कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बना कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात् इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणग्रन्थों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का



ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? ( प्रश्न )  
अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? ( उत्तर ) इन का अर्थ तो  
यह है कि:—

राष्ट्रं वा अश्वमेधः । शत० १३ । १ । ६ । ३ ॥ अश्व  
हि गौः । शत० ४ । ३ । ४ । २५ ॥ अग्निर्वा अश्वः ।  
आज्यं मेधः ॥ शतपथब्राह्मणे ॥

घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्यं मारके होम करना कहीं नहीं लिखा केवल  
वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई  
और जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो ! राजा न्याय  
धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान और अग्नि में घी आदि का  
होम करना अश्वमेध, अन्न इन्द्रियां किरण पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब  
मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहा जाता है। (प्रश्न)  
यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके  
फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जो स्वर्ग को  
जाते हों तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होमकर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके  
प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदि  
में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र  
पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने  
से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को  
मार के होम करना जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि घुष्ट्यादि  
कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत्  
को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे क्योंकि जो  
स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते  
(जब इन पोषों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को  
देख कर एक महत्प्रभंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ  
है) सुनते हैं कि एक इसी देश में गौरखपुर का राजा था उस से पोषों ने यज्ञ कराया  
उस की प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने पर पश्चात्

वैराग्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा । इसी की शास्त्रारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था उन्होंने ने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं:—

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।  
 स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥  
 मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृक्षिकारणम् ।  
 गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥

जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ? ॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पाने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उस के नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंचसकता ! उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिपति उन के मत में हुए तब पोप जी भी उन की ओर झुके क्योंकि इन को जिधर गप्पा अच्छा मिले वही चले जायें भट जैन बनने चले जैनों में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वैसमुत्तास में लिखेंगे बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कनौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्होंने ने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोप लीला भ्रान्ति से वेद पर मान कर वेदों की भी निन्दा करने लगे । उसके पठन पाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई दुःख दिया जब उन को भय शंका न रही तब अपने मतवाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे और आप सुख आराम और बमंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋषभदेव से लेके महावीर पर्वन्त अपने तीर्थंकरों की बड़ी २ मूर्तियां बना कर पूजा करने लगे अर्थात्

पाषाणादि मूर्तिपूजा की जब जैनियों से मन्त्रित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्तिपूजा में लगे ऐसा स्वीकार करके अत्यन्त आर्यावर्त में जैनो का सम्मान प्राप्त प्रायः वेदार्थज्ञान से शून्य होगये थे इस बात को अनुमान से अर्थात् सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे ।

बाईस सौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविडदेशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर शोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक वेदमत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इस को किसी प्रकार हटाना चाहिये शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़े थे और उन की युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्होंने ने विचारा कि इन को किस प्रकार हटावें निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहां उस समय मुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिल कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैनमत को मानते हो इसलिये आप को मैं कहता हूं कि जैनियों के परिदत्तों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले और आप भी जीतनेवाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि मुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है । जबतक मुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तबतक संदेह में थे कि इन में कौनसा सत्य और कौनसा असत्य है जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करवेंगे । जैनियों के परिदत्तों को दूर से बुला कर सभा कराई/उस में शंकराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् शंकराचार्य का पक्ष वेदमत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था । शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ, जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता/इस से वि-

रुद्र शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्ता है यह जगत् और जीव भूटा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया वही रक्षण और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आप ही सब जगत् रूप होकर लीला कर रहा है बहुत दिनतक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में मुक्ति और प्रमाय से जैनियों का मत खण्डित और शंकराचार्य का मत अखण्डित रह्य तब उन जैनियों के पण्डित और मुधन्वा राजा ने वेदमत का स्वीकार कर लिया जैनमत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और मुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैनियों का पराजय होने से पराजित होते गये पश्चात् शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में घूमने का प्रबन्ध मुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उन की रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में घूम कर जैनियों का खण्डन और वेदों का खण्डन किया परन्तु शंकराचार्य के समय में जैनविध्वंस अर्थात् जितनी मूर्त्तियाँ जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो विना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें वे अबतक कहीं २ भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचरित था उस का भी खण्डन किया वासमार्ग का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और मुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेदमत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे (इतने में दो जैन ऊपर से कम्पमान वेदमत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात् कपटमुनि थे शंकराचार्य उन पर अतिप्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयक बात खिलाई कि उन की लुधा मन्द हो गई पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर बूट गया) तब सब निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया) जो २ उन्होंने शारीरकभाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शृङ्गेरी पूर्व में भृगुवर्धन उत्तर में जोसी और द्वारका में सारदा मठ बांध कर शंकराचा-

र्य के शिष्य महन्त वन और श्रीमान् होकर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के परचात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

अब इस में विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् स्मिध्या शंकरा-  
चार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैमिनों के खण्डन के लिये  
उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है  
( प्रश्न ) जगत् स्वप्नवत्, रज्जु में सर्प, सीप में चाँदी, मृगतृणिका में जल, गंधर्वनगर  
इन्द्रजालवत् यह संसार झूठा है एक ब्रह्म ही सच्चा है । ( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किस  
को कहते हो ? ( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु  
ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से । ( सिद्धान्ती )  
अध्यारोप किस को कहते हो ? ( नवीन ) "वस्तुन्यवस्वारोपणमध्यासः" "अध्यारोपाप-  
वादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपंच्यते" पदार्थ कुछ और हो उस में अन्य वस्तु का आरोपण क-  
रना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों से  
प्रपञ्चरहित ब्रह्म में प्रपञ्चरूप जगत् विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जु को वस्तु  
और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो  
कि रज्जु में नहीं तो देशान्तर में और उसका संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी  
अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चाँदी आदि की व्यवस्था समझ लेना  
और स्वप्न में भी जिन का मान होता है वे देशान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा  
में भी हैं इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं । ( नवीन )  
जो कभी न देखा न मुना जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की  
धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्योंकि हो  
सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्योंकि बिना देखे  
मुने संस्कार नहीं होता संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात् अनुभव  
नहीं होता जब किसी से मुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई वा  
बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा  
मुना उस का संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह जाग्रत् के पदार्थ से अलग  
होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिन को देखा वा मुना होता दे-  
खता है जब अपने ही में देखता है तब जानों अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर

ज्योती ब्रह्म की भास को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समय नहीं किन्तु जैसे ब्रह्मण्य निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा क्रिये हुआ को आत्मा में से निकाल कर कर्मण पर लिख देते हैं अथवा प्रतिबिम्ब का उतारनेवाला बिम्ब को देख आत्मा में आकृति को घर बराबर लिख देता है। हां इतना है कि कभीरस्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में प्रतीतिज्ञान को साक्षात्कार करता है तब स्मरण नहीं कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता, सुनता वा करता हूँ जैसा जाग्रत में स्मरण करता है जैसा स्वप्न में नियमपूर्वक नहीं होता, देखो जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यापक और अध्यापक का लक्षण भूटा है और जो वेदान्ती लोग विवर्षवाद् अर्थात् रज्जु में सर्प आदि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। ( नवीन ) अधिष्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीति नहीं होता जैसे रज्जु में हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जु में सर्प तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात् रज्जु को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से काँपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत् की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति हो ज्योती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है। ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत् का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव को। ( सिद्धान्ती ) जीव कहां से हुआ ? ( नवीन ) अज्ञान से। ( सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किस को हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को। ( सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? ( नवीन ) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूल-जाता है। ( सिद्धान्ती ) उस के भूलने में निमित्त क्या है ? ( नवीन ) अनिष्ठा। ( सिद्धान्ती ) अनिष्ठा सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? ( नवीन ) अल्पज्ञ का। ( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ञ केन्द्र के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो

तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैल जाय जैसे शरीर में फोड़े का पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मे कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय । ( नवीन ) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य ? ( नवीन ) अनिर्वचनीय है अर्थात् जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना "बदतो व्याघातः" के तुल्य है क्योंकि कहते हो अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्, असत् नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ़ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहो गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं । ( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और महदाकाशोपाधि अर्थात् बड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं वास्तव में महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अभिम प्रमाण में क्या कहा है:-

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिः ॥

कठउ० वल्ली ५ । मं० ६ ॥

जैसे अग्नि लम्बे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दीखता और उन से पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणोऽकार हो रहा है परन्तु उन से अलग है । ( सिद्धान्ती ) वह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट मठ, मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारणकार्यरूप जगत् और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इन से भिन्न मान लो ? ( नवीन ) जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट हो कर देखने में तदाकार दीखता है इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है जैसे जल के सहस्र कूड़े धरे हों उन में सूर्य के सहस्र प्रतिबिम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्य एक है कूड़ों के नष्ट होने से अल

के चलने वा फैलने से मूर्ख न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिस को चिदाभास कहते हैं पड़ा है जबतक अन्तःकरण है तभीतक जीव है जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बंधनों से नहीं छूटता। ( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य्य आकारवाला जल कूड़े भी साकार हैं सूर्य्य जल कूड़े से भिन्न और सूर्य्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिबिम्ब कभी न होता और जैसे परमेस्वर निराकार सर्वत्र आकारावत् व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक् नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात् अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभाव संबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता क्योंकि विना आकार के आभास का होना असम्भव है जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ और ब्रह्म अचल और अखण्ड है यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक् २ न मानोगे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहां २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता है वहां २ प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां से हटता है वहां २ के प्रकाश को आवरणरहित कर देता है वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण २ में ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखण्ड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह चेतन है और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ से कारी में नहीं हो सकता क्योंकि “ अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात् ” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास कारी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह कारीस्थ ब्रह्म नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक् नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का प्रति-



बिम्ब पृथक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा । जो कहे कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और (एसे २ दृष्टान्तों से नित्य, बुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुम ने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध, आदि दोष युक्त कर दिया है और अस्वर्ग को स्वर्ग २ कर दिया)

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादिमें आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किमी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है वैसा ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है । ( सिद्धान्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा गहरा वा झिदरा साकार वस्तु दीखता है निराकार नहीं । ( नवीन ) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है वही आदर्शवाले में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? ( सिद्धान्ती ) वह पृथिवी से उड़ कर जल पृथिवी और अग्नि के त्रसेरण हैं जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से झिदरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है । ( नवीन ) क्या हमारे रज्जु सर्प और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है सो हम ने पूर्व लिख दिया भला यह तो कहे प्रथम अज्ञान किस को होता है ? ( नवीन ) ब्रह्म को । ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? ( नवीन ) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित में होती है । ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन है ? ( नवीन ) ब्रह्म । ( सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहे कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् कल्पना करनेवाला कौन है ? ( नवीन ) जवि ब्रह्म है वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिस ने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिस की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकता है ? ( नवीन ) हम सत्य और असत्य को भूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । ( सिद्धान्ती ) जब तुम भूठ कहने और मानने वाले हो तो भूठ क्यों नहीं ? ( न-

बीन) रही, भूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधि-  
 दान हैं। ( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य और भूठ के आकार हुए तो साहूकार और  
 चोर के सदृश तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता  
 है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूठ न माने, भूठ न बोले और भूठ  
 कदाचित् न करे जब तुम अपनी बात को आप ही भूठ करते हो तो  
 तुम अपने आप मिथ्यावादी हो। ( नवीन ) अनादि माया जो कि  
 ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं ?  
 ( सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न  
 हो और भासता है तो इस बात को वह मानेगा जिस के हृदय की आंख फूट गई हो  
 क्योंकि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा मन्ध्या के पुत्र का प्र-  
 तिबिम्ब कभी नहीं हो सकता और यह "सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः" इत्यादि छान्दोग्य आदि  
 उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ शंकराचार्य आदि  
 और निश्चलदास पर्यन्त जो तुम से अधिक परिणत हुए हैं उन्होंने ने लिखा है उस को ख-  
 रडन करते हो ? हम को तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते  
 हैं। ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ? ( नवीन ) हम भी कुछ विद्वान्  
 हैं। ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का  
 हमारे सामने स्थापन करो हम खरडन करते हैं जिस का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है।  
 जो उन की और तुम्हारी बात अखरडनीय होती तो तुम उन की युक्तियां लेकर  
 हमारी बात को खरडन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय  
 होवे, अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैतियों के मत के खरडन करने ही के  
 लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध क-  
 रने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं  
 और जो इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिथ्या आदि व्यवहार स-  
 चा नहीं मानते थे तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चलदास का वा-  
 शिष्ठ्य देखो ऐसा है "जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्" उन्होंने ने "वृत्तिप्रभाकर" में जीव  
 ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है  
 यह बहुत कमसमम्भ पुरुष की बात के सदृश बात है क्योंकि साधर्म्यमात्र से एक दूसरे  
 के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेदक होता है जैसे कोई कहे कि "पृथिवी जलाऽ-

भिन्ना जड़त्वात्" जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रान्ति त्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रह्म और जीव भिन्न हैं जैसे गन्धवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि उन में कितना पाण्डित्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न वाल्मीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा मुना है क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह मुन सकते थे । ( प्रश्न ) व्यास जीने जो शारीरक सूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है देखो:-

सम्पाद्याऽऽविर्भाव स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥

चित्तितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ३ ॥

एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥ वेदान्तद० अ० ४ । पा० ४ ।

सू० १ । ५-७ । ६ ॥

अर्थात् जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ "अयमात्मा अपहतपाप्मा" । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य्य प्राप्तिपर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ २ ॥ और औडुलोमि आचार्य्य तदात्मकरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य्यप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्य्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सब का अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ अर्थ यह है मुनिये ! जब

तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्बामी ब्रह्म को प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी " तदात्मकत्व " अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवमुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्व संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिमुख को पाता है वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो :—

नेतरोनूपपत्तेः ॥ १ । १ । १६ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १ । १ । १७ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ १ । २ । २२ ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १ । १६ ॥

अन्तस्तदमोपदेशात् ॥ १ । १ । २० ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १ । १ । २१ ॥

शुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदर्शनात् ॥ १ । २ । ११ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १ । २ । ३ ॥

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १ । २ । १८ ॥

शारीरहृषोभयेऽपि हि भेदेनैवमधीयते ॥ १ । २ । २० ॥

व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव ब्रह्म नहीं ॥ "रसं बोवायं लब्ध्वानन्दी भवति" यह उपनिषद् का वचन है। जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्रातिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥

दिव्यो अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो अजः । असायो अ-  
मनाः शुभ्रो अक्षरात्मरतः परः ॥ सुषडकोपनिषदिः सु० ३ ।  
सू० १ मं० २ ॥

दिव्य, शुद्ध, सृष्टिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, ज-  
न्म मरण शरीरधारणादि रहित श्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रका-  
शस्वरूप इत्वादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म  
जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्र-  
तिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव  
का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि  
योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है। इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किये हैं  
और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्या-  
प्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है  
वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण पृथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के योग से  
देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ “ गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके ” इत्यादि  
उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। वैसाही उपनिषदों में बहुत टिका-  
ने दिखलाया है ॥ “शरीरे भवः शरीरः ” शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के  
गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों  
(अधिभूत) पृथिव्यादि भूत (अध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से स्थित है क्योंकि  
उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव  
ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। इत्यादि शारीरकसूत्रों से भी  
स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है जैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार  
भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अर्थात् आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात्  
प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय  
भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं और उत्पत्तिविनाशरहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों  
में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा क्योंकि निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध  
सनातन, चिन्मन्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का  
सम्भव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार ( प्रलय ) के होने पर भी ब्रह्म

कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तिओं की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और मत्यङ्गादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ।

इस के पश्चात् कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यावर्त में फैले थे और आपस में खगडन मगडन भी चलता था शंकराचार्य के तीन सौ वर्ष के पश्चात् उज्जैननगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ जिस ने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की तत्पश्चात् भर्तृहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान् हुआ उस ने वैराभ्यवान् होकर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पांच सौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि जिस के राज्यमें कालिदास बकगी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ, राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था उस को बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त होगये और वाममार्गियों को भी मिलाते रहे वाममार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी है उस के उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हैं उतने शैव नहीं हैं ।

धिग् धिक् कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥

रुद्राक्षान् करुणदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विशती द्वे

षट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्रादशैव ।

बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदिनमेकमेवं शिखायाम्

बक्षस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नलिकरुणः ॥२॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस के कपाल में भस्म और करुण में रुद्राक्ष नहीं है उस को धिक्कार है "तं त्यजेदन्त्यजं यथा" उसः

को चाण्डाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, कृ. कृ. कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात् महादेव के सदृश है ॥ २ ॥ ऐसा ही शक्त भी मानते हैं पश्चात् इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति कर के मग लिङ्ग का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिङ्ग कहते हैं और उस की पूजा करने लगे उन निर्लेज्जों को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पारम्पर्य का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कवि ने कहा है कि "स्वार्थी दोषं न पश्यति" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं उसी पाषण्णदि मूर्ति और भग लिङ्ग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात् जैगी लोग अपने मन्दिरों में मूर्तिस्थापन करने और दर्शन पर्यटन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैनमन्दिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्य्यावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपों ने यह श्लोक बनाया: —

न च्छ्यावर्त्तं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छंज्जैनमन्दिरम् ॥

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावन्त अर्थात् स्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है । ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे जब उन से कोई प्रमाण पृच्छता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहते थे कि हां है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का व. न त्तिखा है राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को विदित होने से उन परिडतों को हस्तच्छेदना दि दण्ड दिया और उन से कहा कि जो काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के बन्धये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वाञ्जियर के राज्य "भिड" नामक नगर के तिवाडी ब्राह्म-

यों के घर में है जिस को लखना के रावसाहब और उन के गुमारते रामदयाल चौने-  
जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चार  
सौ और उन्न के शिष्यों ने पाँच सहस्र छः सौ श्लोकयुक्त अर्थात् सब दश सहस्र श्लो-  
कों के प्रमाण भास्त बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र,  
महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस और अब मेरी आधी उमर  
में तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही बढ़ता चला तो  
महामारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जायगा और ऋषि मुनियों के नम से  
पुराणादि ग्रन्थ बनवेंगे तो आर्यावर्तीय लोग भ्रमजाल में पड़ के वैदिकधर्मविहीन होके  
ब्रह्म हो जायेंगे। इससे विदित होता है कि राजा भोज का कुछ २ वेदों का संस्कार  
या इन के भोजग्रन्थ में लिखा है कि:

**घञ्चैकया शोशदशैकमश्वः सुकृत्रिमा गच्छति चारुगत्या ।**

**वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम् ॥**

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने ने घांड़े के  
आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोस और  
एक घंटे में साढ़े सत्ताईस कोस जाता था वह भूमि और अन्तरेत्त में भी चलता था  
और दूसरा पंख ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य  
चला करता और पुष्कल वायु देता था जो यह दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरो-  
पियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पोप जी अपने चेलों को जैनियों से रोकने  
लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे  
जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे तब पुराणियों ने बि-  
चारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चले जैनी होजायेंगे। प-  
श्चात् पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार, मन्दिर, मूर्ति  
और कथा के पुस्तक बनावें इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थङ्करों के सदृश चौबीस  
अवतार मन्दिर और मूर्तियाँ बनाई और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर  
पुराणादि हैं वैसे अठारह पुराण बनाने लगे। राजा भोज के डेढ़सौ वर्ष के पश्चात् वै-  
ष्णव भक्त का आरम्भ हुआ एक सठकोप नामक कंजरवर्ष में उत्पन्न हुआ था उस से  
शेड्डास चला बस के मन्वात् मुनिवाहन भंगीकुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचार्य  
यवकुलोत्पन्न आचार्य हुआ तत्पश्चात् ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने



अपना मत फैलाया । शैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इसलिये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सत्तातन रख दे तो क्या आश्चर्य है ! अब इन के आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं ।

देखो ! देवीभागवत में “ श्रीः ” नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत् को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा— उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ भिसा उस से हाथ में एक छाला हुआ उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और और फिर हाथ बिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रक्खा उस से भी उसी प्रकार कहा उपने न माना तो उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव रक्खा और उस से कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये, महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा ? इन को जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनोंका तीनों के साथ विवाह हुआ । बाहरे ! माता से विवाह न किया और बहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समझना चाहिये ? पश्चात् इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इन को पालकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्यादि गपोड़े लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने दाता और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो-सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि

की क्षुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी है अर्थात् ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है, जो रुद्राक्ष अर्थात् एक वृक्ष के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु और धुंघुची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि मुक्ति क्यों न पावें और सज्जर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लोटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं होती ? ( पृश्न ) कालाग्निरुद्रोपनिषद् में भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या भूटा है ? और “त्र्यायुषं जमदग्नेः०” यजुर्वेदवचन । इत्यादि वेदमन्त्रों से भी भस्मधारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसीलिये उस के धारण में पुण्य लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे । ( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रसोडिया मनुष्य अर्थात् राख धारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि “यस्य प्रथमा रेखा सा भूलोकः” इत्यादि वचन उस में अर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इस का वाचक कैसे हो-सकती है ? और जो “त्र्यायुषं जमदग्नेः” इत्यादि मन्त्र हैं वे भस्म वा त्रिपुण्ड्रधारण के वाची नहीं किन्तु —“चतुर्वै जमदग्निः” । शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र कौ ज्योति ( त्र्यायुषम् ) तिगुणी अर्थात् तीन सौ वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूँ कि जिस से दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कर्त्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है जो रुद्राक्षभस्मधारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? ( प्रश्न ) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) यह भी वेदविरोधी होने से उन से भी अधिक बुरे हैं । ( पृश्न ) “नमस्ते रुद्र मन्यवे” । “वैष्णवमसि” । “वा-

मनाय च" । "गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे" । "भगवती भूयाः" । "सूर्य आत्म ज-  
गतस्तस्थुषश्च" इत्यादि वेदप्रमाणों से शैवादि मत सिद्ध होते हैं पुनः क्यों त्वष्टन करते हो?  
( उत्तर ) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि "रुद्र" परमेश्वर,  
प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकर्त्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को रूला-  
ने वाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना ( नम इति  
अन्ननाम-निर्घं ०२ । ७ ) जो मंगलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला  
है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये "शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः" ।  
" विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः" । "गणपतेः सकलजगतस्वामिनोऽयं सेवको-  
गाणपतः" । "भगवत्या वाग्या अयं सेवकः भागवतः" । "सूर्यस्य चराचरत्मनोऽयं सेवकः  
सौरः" ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्यभा-  
षणयुक्त वाणी का नाम है । इस में विना समझे ऐसा भगवद्वा मचाया है जैसे—

एक किसी धैरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक ने  
दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि  
एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर  
रहा था इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य  
पग पड़ा उस ने ले डंडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह  
क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में  
दूसरा चेला जो कि बाजार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा  
करने लगा देखा तो पग सूजा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह मेरे सेव्य पग में क्या  
हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया वह भी मूर्ख न बोला न चाला चुपचाप डगडा  
उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई  
तब दोनों चले डगडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे तब तो बड़ा कोला-  
हल मचा और लोग सुनकर आये कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उन में से किसी  
बुद्धिमान पुरुष ने साधु को लुड़ा के पश्चात् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि दे  
खा ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुँचता  
और दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है ॥

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अस्वर्ग

सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप परमत्त्वा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं उस संस्वार्थ को न जानकर शैव शाक्त वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु रुद्र, शिव, आदि नाम एक अद्वितीय सर्वनिश्चिन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुणकर्मस्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिये चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया:—

तापः पुण्ड्रं तथा नाम माला मन्त्रस्तथैव च ।

अग्नी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥

अतस्तनूर्न तदामो अरन्तुते । इतिश्रुतेः ॥

रामानुजपटलपद्धतौ ॥

अर्थात् ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपाके भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात् दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता होगा ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि विना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ( आमः ) अर्थात् कच्चा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उन के गण डरते हैं और कहते हैं कि:—

दोहा—बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माला ।

यम डरपै कालू कहे, भय माने भ्रूपाल ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है । जिस से यमराज और राजा भी डरता है ( पुण्ड्रम् ) त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्रः निकालना ( नाम ) नारायणदास, विष्णुदास अर्थात् दासशब्दान्त नाम रखना ( माला ) कमल-गङ्गे की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जैसे:—

ओं नमो नारायणाय ॥

यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है तथा ।

श्रीमन्नारायणचरखं शरखं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नमः ॥  
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

इत्यादि मन्त्र धनाढ्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं । देखिये यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिनक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मंत्रों का अर्थ— मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूँ ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूँ अर्थात् जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे ॥ जैसे वाममर्गा पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:—

पवित्रं ते विततं ब्रह्मखस्पते प्रभुर्गोत्राणि पर्येषि विश्वतः ।

अतप्ततनुर्न तदामो अश्नुते गुतास इहहन्तस्तत्समाशत ॥ १ ॥

तपोऽप्यवित्तं विततं द्विषस्पदे ॥२॥ ऋ० मं०६।सू० ८३।मन्त्र १।२॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त सर्वशक्तिमान् आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है उस आप का जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वाक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकारस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विन्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र से “चक्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं ? भला कहिये वे विद्वान् थे वा अविद्वान् ? जो कहो विद्वान् थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते ? क्यों कि इस मन्त्र में “अतप्ततनुः” शब्द है किन्तु “अतप्तभुजैकदेशः” नहीं पुनः “अतप्ततनुः” यह नस्वशिखाग्रपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में भोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः ॥

तैत्तिरी ० प्र ० १० । अ ० ८ ॥

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋतं तपः) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्ध्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखो - चक्राकित लोम अक्षय को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूलपुरुष "शठकोप" हुआ कि जो चक्राकितों ही के ग्रन्थ और भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभादूम ने बनाया है उन में लिखा है :-

### विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्राकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं शठकोप योगी शूर्प को बना बैचकर विचरता था अर्थात् कंजरजाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा मुनिना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्राकित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चेला "मुनिवाहन" जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस का चेला "यावनाचार्य" जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ "यामुनाचार्य" भी कहते हैं उन के पश्चात् "रामानुज" ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राकित हुआ उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रन्थ और शरीरकसूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत् प्रपंच सब मिथ्या भ्रमरूप अनित्य है । इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं । यहां शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासहित पश्मेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है । ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, करठी, तिलक, माला, मूर्तिपूजनादि शास्त्रगडमत चलाने आदि बुरी बातें चक्राकित आदि में हैं जैसे चक्राकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं ।

( प्रश्न ) मूर्तिपूजा कहां से चली ? ( उत्तर ) जैनिओं से । ( प्रश्न ) जैनिओं ने कहां से चलाई ? ( उत्तर ) अपनी मूर्तियों से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है ( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जायगा ! यह मूर्तिपूजा केवल पास्वयदमत है जैनिओं ने चलाई है इसलिये इन का स्वरूपन १२वें समुहलास में करेंगे । ( प्रश्न ) शक्त आदि ने मूर्तियों में जैनिओं का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनिओं की मूर्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं । ( उत्तर ) हां यह ठीक है जो जैनिओं के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोधकरना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्गारित स्त्री के सदृश रंग राग भोग विषयासक्तिसहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई है । जैनी लोग बहुत से शंख घण्टा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पोपों के चले जैनिओं के जालसे बच के इन की लीला में आ फँसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये उन का नाम "पुराण" रखकर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, वा लक्ष्मी नारायण और भैरव, हनुमान् आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवाञ्छित फल देवें जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सच ही मानली और उन से पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गल में है चलो मेरे साथ दिखला दू तब तो उन अन्धों ने उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चर्य में होकर उस पोप के फर्माने गिरकर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देंगे उस में इस देवता की स्थापनाकर आप ही पूजा करना और हम लोग भी

इस प्रतापी देवता के दर्शन स्पर्शन करके मनोवाञ्छित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक नै लीला रची तब तो उस को देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ कुछ कपट से मूर्तियां स्थापन कीं । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हानि है ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनयुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वररचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उन को देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ! जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इसलिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के नुरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जानके कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूँगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दंड पाये कदापि न बचूँगा और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मुँह मीठा और नीबू २ कहने से कड़वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है । ( प्रश्न ) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति झूठी है । ( प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? ( उत्तर ) वेदविरुद्ध । ( प्रश्न ) भला अब आप हम को वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? ( उत्तर )



नामरक्षण इस प्रकार करना चाहिये जैसे "न्यायकारी" ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पक्षपातरहित होकर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है ।

( प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीरधारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इस से उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ? ( उत्तर ) हां २ झूठी क्योंकि "अज्ञ एकपात्" "अकायम्" इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरधारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं होसकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और मुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आ सकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिस के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उसका अवतार कहना जानो वन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है मुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो ! :-

न काष्ठे विद्यते देवां न पाषाणे न मृगमये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावाच्चि कारणम् ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहां भाव करै वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है । ( उत्तर ) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्वय न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से लुढ़ाके एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिका में से पुष्प पत्र तोड़के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों लगाते ? धूप को जला के क्यों देते ? बंटा, धरियाल, भांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है क्यों जोड़ते ? शिर में है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलदि में है क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और

तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो पाषाण ल-  
कड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो? और व्याप्य की करते हो तो हम परमे-  
श्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा स-  
त्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

अब कहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के  
अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम मूर्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में  
हीरा पक्का आदि समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दधि आदि और धूलि में मैदा शकर  
आदि की भावना करके उन को जैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भाव-  
ना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों न-  
हीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भाव-  
ना नहीं करते क्यों मर जाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसे में  
वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और  
जल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान  
और अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना को  
अभावना कहते हो ( प्रश्न ) अजी जबतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब-  
तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भट आता और विसर्जन करने से चला  
जाता है। (उत्तर) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति  
चेतन क्यों नहीं हो जाती? और विसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता? और वह क-  
हां से आता और कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता  
है जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए  
पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का  
विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? सुनो भाई ! भोले भाले लोगो ! ये पोपजी तुम  
को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के  
आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है । ( प्रश्न ) :-

प्राज्ञा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मेहागच्छतु  
सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियास्त्रीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु  
स्वाहा ॥

इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? ( उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तन्त्रग्रन्थों की पोषरचित पंक्तियां हैं वेदवचन नहीं । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र झूठा है ? ( उत्तर ) हां, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “स्नानंसमर्पयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि “पाषाणादिमूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्कार्य गन्धादिभिस्संवेत्” अर्थात् पाषाण की मूर्ति बना मन्दिरो में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी नहीं ( प्रश्न ) जो वेदों में विधि नहीं तो खगडन भी नहीं है और जो खगडन है तो “प्राप्तौ स्त्वां निषेधः” मूर्ति के होने ही से खगडन हो सकता है । ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वरके स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अ-पूर्वविधि नहीं होता ? मुनो यह है :—

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भृतिसुपासते । ततो भूय इव-

ते तमो य उ सम्भृत्याऽ रताः ॥ १ ॥ यजुः० ॥ अ० ४० । मं० ६ ॥

न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ २ ॥ यजुः० ॥ अ० ३२ मं० ३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युच्यते ।

४ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

५ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति ।

६ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

७ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रक्षीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥ ८

केनोपनिषद्विषदि ॥

जो असम्भूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं । और सम्भूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्त होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ ३ ॥ जो मन से “ इयत्ता ” करके मन में नहीं आता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव और अन्तःकरण है उस की उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो आंख से नहीं देख पड़ता और जिस से सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उस से भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिस से श्रोत्र सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ ६ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उस की उपासना मत कर ॥ ७ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहां से उठा देना, “अप्राप्त” का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुँवे में मत गिराना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इसलिये पाषाणादि मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । ( प्रश्न ) मूर्तिपूजा में पुत्र्य नहीं तो यक्ष भी नहीं है । ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं—विहित—जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्यपाषाणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध—जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में नि-

विद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? ( प्रश्न ) देखो ! वेद अनादि है उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पछि से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहै तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इस को पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक सब्बे पति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । ( उत्तर ) जब वेदविहित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमत्त करना जानो नास्तिक होना है, मुनोः—

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु० २। ११ ॥

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो न्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाङ्गालिकतया निष्फलान्यन्वृतानि च ॥ ३ ॥

मनु० अ० १२। ६५। ६६ ॥

मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रंथ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःस्वसागर में डुबानेवाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस लोक और परलोक में दुःस्वदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और भ्रूटा है ॥ ३ ॥

इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे हैं और जो वेद विरुद्ध पुस्तक हैं उन में कहीं हुई मूर्त्तिपूजा भी अधर्मरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है इसलिये ज्ञानियों की सेवा सत्त से ज्ञान बढ़ता है पाषाणादि से नहीं। क्या पाषाणादि मूर्त्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं मूर्त्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिस में गिरकर चकनाचूर होजाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सद्बिद्या और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियाँ हैं जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्त्तिपूजा करते-रजानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्त्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत-से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुक्त होकर निरर्थक नष्ट हो जायेंगे। मूर्त्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और सृष्टिविद्या है इस को बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्त्ति गुडियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम अक्षराम्यास सुशिक्षा का होना गुडियों के खेलवत् ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है मुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा। ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्त्तिपूजा रहनी चाहिये। ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन झूट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सा मर्त्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत् का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फैसा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयव होने

से उस में मन स्थिर हो जाता है इसलिये मूर्तिपूजन करना अर्थ है । कृष्ण—उस में कौनों रूपे मन्दिरो में व्यय करके दक्षिण होते हैं और उस में अनाद्य होता है । सैतस—स्त्री पुरुषों का मंदिरों में भेला होने से व्यभिचार लड़ाई बलेडा और रोम दि उदयन होते हैं । कौष—उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं । कञ्जा—नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बड़ा के देश का नाश करते हैं । कृष्ण—उसी के भरोसे में शत्रु का प-राजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय होकर राज्य स्वातन्त्र्य और धन का सुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठिमार के टट्ट और कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक बिष दुःख पाते हैं । सातवा—जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्वार धरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नामपर पाषाणादि मूर्तिबां धरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्यानास परमेश्वर क्यों न करे । आठवा—आन्त होकर मंदिर देशदेशान्तर में घूमते र दुःख पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते ठगों से ठगाते रहते हैं । नववा—दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को बेरया, परस्त्री-मन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बसेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता के सुख का मूल न-ष्ट होकर दुःख होता है । दशवा—माता पिता आदि माननीयों का अपमानकर पा-षाणादि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जाते हैं । ग्यारहवा—उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय र करके रोते रहते हैं । बारहवा—पूजारी परस्त्रियों के संग और पुजारिन् परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित हो कर स्त्रीपुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं । तेरहवा—स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट अष्ट हो जाते हैं । चौदहवा—जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़बुद्धि हो जाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरणद्वारा आत्मा में अवश्य आता है । पन्ध्रहवा—परमेश्वर ने सुषान्त्रियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोम्यता के लिये बनाये हैं उनको पूजारी जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने क्षिप्त तक

सुगन्धि आकाश में चढ़ कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समक समक उस का सुगन्ध होता उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिला सड़ कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा ने परधर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? । लोकहाना—पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प कन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में अक्षर सड़के उस से इतना दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का, और सड़कों जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हैं इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे ॥

( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्या-वर्ष में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उस का यही पंचायतन-पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और मूर्य की मूर्ति बना कर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ? ( उत्तर ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिमान्" जो नीचे कहेंगे उन की पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये वह पंचदेव-पूजा पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूर्तों ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पाँचों की मूर्तियाँ बनाकर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा यह है मुनोः—

मा नो वर्धाः पितरं मोत मातरम् ॥ यजुः० । अ०१६ । मं० १५ ॥

आचाग्र्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्व० कां० ११ ।

व० ५ । मं० १७ ॥

अग्निधिर्गृहानागच्छेत् ॥ अथर्व० ॥ कां० १५ । व० १३ । मं० ६ ॥

अर्चत प्रार्थत प्रियमेवासा अर्चत ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्युचं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्युचं ब्रह्म अदिष्यामि ॥

तैत्तिरीयोपनि० ॥ बल्ली० १ । अतु० १ ॥

कलम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥



ज्ञानपथ० कां० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥  
 मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथि-  
 देवो भव ॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥ व० १ । अनु० ११ ॥  
 पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।  
 पूज्या भूषयितव्यारच बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ मनु०  
 अ० ३ । ५५ ॥

उपचार्यः स्त्रिया साध्व्या सनतं देववत्पतिः ॥ मनुस्मृतौ ॥

प्रथम माता मूर्धिमती पूजनीय देवता अर्थात् सन्तानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कर्तव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचार्य जो विद्या का देने-वाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी । चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, विष्कपटी, सब की उन्नति चाहने वाला, जगत् में भ्रमण करता हुआ, सत्त्व उपदेश से सब को सुखी करता है उस की सेवा करें । पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है । ये पांच मूर्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की समिधियां हैं इन की सेवा न करके जो पाषाणादिमूर्ति पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी हैं । ( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष न ही ! ( उत्तर ) पाषाणादि मूर्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अनेक पाषाणादि में शिर मारन स्वीकार किया । इस को लोगों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा इस से पाषाणादि की मूर्ति बना उस के आगे नैवेद्य धर घंटानाद टंटं पूं पूं और संख बना, कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अर्थात् "त्वमंगुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थं वाऽहं ग्रहीष्यामि" जैसे कोई किसी को छले वा चिड़वे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिखलावे उस के आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन पूजारियों अर्थात् पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है । ये लोग चटक मटक चलक भलक मूर्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य

वन टन के विचारे निर्बुद्धि मूढ़ अनाथों का माल मारके मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्बाह करता । ( प्रश्न ) जैसे श्री-अस्ति की पाषाण-दिमूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे बीतराग शान्ति की मूर्ति के देखने से वैराग्य और शान्ति की प्रप्ति क्यों न होगी ? ( उत्तर ) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है विवेक के बिना वैराग्य, वैराग्य के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उनके संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिस का गुण वा दोष न जानके उस को मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं हांती प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है । ऐसे मूर्ति-जा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावर्त में निकम्मे पूजारी भिन्नक आलसी पुरुषार्थरहित कोड़ों मनुष्य हुए हैं सब संसार में मूढ़ता उन्हीं ने फैलाई है झूठ झल भी बहुतसा फैला है । ( प्रश्न ) देखो काशी में "औरङ्गजेब" बादशाह को "लाटभैरव" आदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उन को तोड़ने गये और उन्हीं ने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहां भमरे के कृत् लग रहे होंगे उन का स्वभाव ही क्रूर है जब कोई उन को छेड़े तो वे कटने को दौड़ते हैं । और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की लीला थी । ( प्रश्न ) देखो महादेव स्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में और बेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गण, उन्हीं ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े २ भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ते जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल और बेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभैरव के डर के मारे बमदूत नहीं जाते और प्रलयसमय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो स्लेच्छों के भूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मंदिर का क्यों नाश होने दिया ? यह सब पोषमाया है ॥

( प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूट कर वहाँ के श्राद्ध के पुण्यप्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पियड़ लेते हैं क्या यह भी बात झूठी है ? ( उत्तर ) सर्वथा झूठ, जो वहाँ पियड़ देने का बड़ी प्रभाव है तो जिन पियड़ों को पितरों के मुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उम का व्यय गयावाल बेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता बिना पयड़ों के हाथों के, यह कभी किसी धूर्त ने पृथिवी में मु. का खांद उस में एक मनुष्य बैठाया होगा पश्चात् उस के मुख पर कुछ निष्ठा पियड़ दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंस के अंधे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं वैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था यह भी मिथ्या बात है । ( प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये अन्धे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हट नहीं सकते वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चक्कर मूर्च्छिपूजारूप गदों में फँस कर दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चन्दन का लकड़ा समुद्र में से स्वयंभूव आता है । चूल्हे पर ऊपर २ सात हथड़े धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं और जो कोई वहाँ जगन्नाथ की परसावी न खावे तो कुष्ठी हो जाता है और धर आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पयड़ा एक बदर्ई मर-जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठन कर सकोगे ? ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था मुझ से मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उस ने ये सब बातें झूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है उस को ले मुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कप-ट बन्द करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने देलने देते हैं भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं उन हंडों के नीचे भी मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका उन के तले मांज कर उस बीचके हंडे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के लवों से बन्द कर दर्यत करनेवालों

को जो कि अनाथ हैं मुलाके दिखलाते हैं ऊपर २ के हंडों से चावल निकाल पके कुछ चावलों को दिखला नीचे के कचे चावल निकाल दिखाके उन से कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो अनाथ के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्मा धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । शूद्र नीच लोग मंदिर में नैवेद्य लाते हैं जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं पश्चात् जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उस के घर पहुंचते और दिन गृहस्थ और साधु सत्तों को लेके शूद्र और अन्त्यजपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महाअनाचार है और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का जूठा न खाके अपना हाथ बना खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हैं नित्यप्रति जूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ कला बनाई है जब उन को सूधी घुमाते हैं घूमती है तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उस की कील को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ पुण्य करो जिस से जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावे अपना धर्म रहे जब तक भेंट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े दुहास्ता ओढ़ कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि "हे जगन्नाथ स्वामिन् ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्खो" इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दंडवत् प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है उसी समय कील को सूधी घुमा देते हैं और जब २ शब्द बोल सहेसों मनुष्य रस्ती लीचते हैं रथ चलता है । जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मंदिर है कि जिस में दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे लैंचकर लगाने के परदे दोनों ओर रहते हैं पंढे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओरवाले ने परदे को लीचा अट मूर्ति अट में आजाती है तब सब पंढे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेंट धरो तुम्हारे पास छूट जायेंगे तब दर्शन

होगा शीघ्र करो वे विचारे भेले मनुष्य धूर्तों के हाथ लुटे जाते हैं और ऋट परदा दूसरा लेंच लेते हैं सभी दर्शन होता है तब जब शब्द बोल के प्रसन्न होकर धके लाके तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रदमन बही है जिस के कुल के लोग अबतक फलफले में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर बनवाया था, इसलिये कि आर्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुड़वें परन्तु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया, राजा पंडा और बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छोटों को दुःख देते होंगे उन्हीं ने संमति करके उसी समय अर्थात् कलेबर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पोला रक्खा है उस में सोने के सम्पुट में एक शालगराम रखते हैं कि जिस को प्रतिदिन धो के चरणामृत बनाते हैं उस पर रात्रि की शयन आर्त्ता में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा उस को धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और भोजनभङ्गों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी भूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं ।

( प्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बड़ जाता है क्या यह भी बात भूठी है ? ( उत्तर ) भूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अंधेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं न पाषाण घटे न बड़े जितना का उतना हरता है ऐसी लीला करके विचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं ( प्रश्न ) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और बाल्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते ? ( उत्तर ) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु वह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान् आदि के साथ लंका से चले आकाशमार्ग में विमान पर बैठ आबोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा कि:—

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोत्त्रिभुः ।

सेतुबन्ध इति ख्यातम् ॥ वाल्मीकिरा० ।

लंकाकां० सर्ग १२५ । श्लो० २० ॥

हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर व्रमते थे और इसी स्वान में चातु-  
र्मात्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभु  
( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उस की कृपा से हम को सब सामग्री  
यहां प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लंका में आके उस रावण को मार तुम्ह को  
ले आये इस के सिवाय वहां वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा । ( प्रश्न ) :—

“रङ्ग है कालियाकन्त को । जिस ने हुका पिलाया सन्त को”

दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अबतक हुका पिया करती है जो मू-  
र्तिपूजा झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाय । ( उत्तर ) झूठी २ यह सब  
पोपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में निकाल के  
भिरी के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुका भरवा पेचवान लगा  
मुख में नली जमा के परदे डाल निकल आता होगा तभी पीछे वाला आदमी  
मुख से खींचता होगा तो इधर हुका गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख  
के साथ लगा होगा जब पीछे फूँके मार देता होता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से  
धुआं निकलता होगा उस समय बहुत से मूर्तों को धनादि पदार्थों से लूट कर धन-  
रहित करते होंगे ।

( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारका से भगत के साथ चली आई एक  
सवा रत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? ( उत्तर )  
नहीं वह भक्त मूर्ति को जुरा लाया होगा और सवा रत्ती के बराबर मूर्ति का तुलना  
किसी अमड़ आदमी ने गप्प मारा होगा ।

( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथ जी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार  
था क्या वह भी मिथ्या बात है ? ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक  
पाषाण लगा रखने उस के आकर्षण से वह मूर्ति आधर खड़ी थी जब “महामूदगुनवी”

आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी पूजा भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पुरश्चरण, पूजा, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि "हे महादेव! इस स्लेच्छ को तू मार डाल हमारी रक्षा कर, और वे अपने चेले राजाओं को समझाते थे कि "आप निश्चिन्त रहिये महादेवजी भैरव अथवा वीरगद को भेज देंगे वे सब स्लेच्छों को मार डालेंगे वा श्रंथा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान् दुर्ग और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे" वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त्त नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि बहकावट में रहे जब स्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ रुपया ले लो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम "बुतपरस्त" नहीं किन्तु "बुतशिकन्" अर्थात् मूर्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्तिभंजक हैं जाके भूट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पाषाण पृथक् होने से मूर्ति गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष बतलाओ मार के मारे भूट बतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उन के चेलों को "गुलाम" बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया, और चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो स्लेच्छों के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियां हैं उन के स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथा-शक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता ।

( पृश्न ) द्वारका जी के रणछोड़ जी जिस ने "नर्सीमहिता" के पास हंडी भेज दी और उस का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या भूट हैं ? ( उत्तर ) किसी सा-

हूकार ने रुपये देदिये होंगे किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत् १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मूर्तियां अंगरेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहां गई थी प्रत्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के संदश कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्तक भार स्थाय उस के शरणागत क्यों न पीटे जायें ? ।

(पूश्च) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खाजाती है और प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और आधा छोड़ देती है मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड़वाई और लोहे के तबे जड़वाथ थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी वैसे हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना करती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, दुँमरा बांधने से पूरा महापुरुष कहाता जबतक हिंगलाज न हो आवे तब तक आधा महापुरुष वजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती है उस में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बंधारके घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा फूँक मारने से बुझ जाती और थोड़े से घी को खा जाती शेष छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी कुल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है इस से वहां क्या विशेष है ? विना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पुजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दलदल का कुण्ड बना रक्खा है जिस के नीचेसे बुदबुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और नुमरे भी उसी प्रकार पोपलीला के हैं उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर नुमरे का बोझ लाद दें तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है ।



( मञ्ज ) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरेछी का फल आधा मीठा, और एक भिखी नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अमृतसर धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों भरता ? भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती नहोमी रीठेकलम के पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखला कर टका हरते होंगे ।

( मञ्ज ) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पैड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमुख, उत्तरकाशी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुक्तनाथमें जानु, पग अमरनाथ में इन के दर्शन स्पर्शन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार और बद्री से स्वर्ग जाना चाहें तो जा सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं ? ( उत्तर ) हरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हरकी पैड़ी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है सब पूछो तो "हाड़पैड़ी" है क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड़ उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकते बिना भोगे अथवा नहीं कटते, "तपोवन" जब होगा तब होगा अब तो "भिलुकवन" है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से दुकानदार भूठ बोलनेवाले भी रहते हैं । " हिमवतः प्रभवति गंगा " पहाड़ के ऊपर से डल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेवालों ने बनाया होगा और वही पहाड़ पोप का स्वर्ग है वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्वानियों लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की लीला है अर्थात् जहां अलखनन्दा और गंगा मिली है इसलिये वहां देवता बस्ते हैं

ऐसे ममोड़े न मारें तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? “गुप्तकारी” तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश बीस पीढ़ी की होमी जैसी खास्त्रियों की धूनी और पासियों की अम्बारी सदैव जलती रहती है, तल्लकुरड भी पहाड़ों के भीतर ऊन्मा गर्मी होती है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे कुरड में ऊपर का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता है इस से ठरदा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक जमे हुए फत्थर पर पुजारी वा उन के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है वहां महन्त पुजारी पक्के आंस के अन्धे गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं जैसे ही बद्रीनारायण में उग विद्यावलि बहुत से बैठे हैं “रावल जी” वहां के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बलबती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग भूर्त्त धनहरे होते हैं जैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है । (परन्तु) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उस के बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मु-रहाये सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, जैसे ही अयो-ध्या कई बार उड़ कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीर्थों से अधि-क, वृन्दावन लीलास्थान, और गोवर्धन व्रजयात्रा बड़े भाग्य से होती है, सूर्यग्रहण में कुल्लेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या है ? (उत्तर) प्रत्य-क्ष तो आंखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पाषाण की मूर्तियां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है और मक्खियां सहस्रों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है; प्र-याग में कोई नापित रलोक बनाने हारा अथवा पोपजी को जो कुछ धन देके मुखडन कराने का माहात्म्य बनाया वा बनबाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौट कर धर में आता कोई भी नहीं दीखता किन्तु धर को सब आते हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उस का जीव भी आकाश में वायु के साथ घूम कर उन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम टका लेनेवालों ने धरा है जड में राजा प्रजा-यात्र करी नहीं हो सकता, वह बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती कुचे गये गंगी चम्पक-व्यसक सहित तीन बार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं

है परन्तु पोपजी के मुखगपोडों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोडा शब्दरूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जाननी, " मथुरा तीन लोक से निराली " तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चौबे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रह कर बकते रहते हैं लाभो यजमान ! भांग मिर्ची और लड्डू खावें पीवें बजमान की जब २ मनवैं, दूसरे जल में कल्लुवे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी न छोड़ें काट खावें धके दे गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं मनो चना आदि अन्न कल्लुवे और बन्दरों को चना गुड़ आदि और पौबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन जब था तब था अब तो बेश्यावनवत् लल्ला लरती और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और ब्रजयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक् हो जाता है। ( प्रश्न ) यह मूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं झूठे क्योंकर हो सकते हैं ? ( उत्तर ) तुम सनातन किस को कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं ( यह मूर्तिपूजा अर्थात् तीन सहस्र वर्ष के इधर २ काममार्गी और जैनियों से चली है ) प्रथम आर्यावर्त में नहीं थी और वे तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिवर, शत्रुञ्जय और आम्ब आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पगडों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सौ अथवा एक सहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष से उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आधुनिक हैं ( प्रश्न ) जो २ तीर्थ वा नाम का महात्म्य अर्थात् जैसे " अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति " इत्यादि बातें हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हैं तो दरिद्रों को धन राजपाट, अन्धों को आंख मिल जाती,

कोटियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) :—

गङ्गागङ्गोति यो ब्रूयाथोजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुबोकं स गच्छति ॥ १ ॥

हरिर्हरति पापानि हरिरित्यन्तरद्वयम् ॥ २ ॥

प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ।

आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोस दूर से भी गंगा २ कहे तो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है ॥ १ ॥ “ हरि ” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का महात्म्य है ॥ २ ॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात् लिङ्ग वा उस की मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दर्शन का महात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या भ्रूटा हो जायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शक्का ! क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूर्खों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । ( प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? ( उत्तर ) है:— वेदादि सत्यशास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्यसेवन, आचार्य्य अतिथि माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि “अना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें उन का नाम तीर्थ है

जल स्थल तराने वाले नहीं किन्तु डुबा कर मारनेवाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥

**समानतीर्थं वासी ॥ अ० ४ । पा० ४ । १०८ ॥**

**नमस्तीर्थ्याय च ॥ यजुः ॥ अ० १६ ॥**

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब सतीर्थ्य अर्थात् समानतीर्थसेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में साधु हो उस को ब्रह्मादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि:—

**यस्य नाम महेशः ॥ यजुः । अ० ३२ । मं० ३ ॥**

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं जैसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सय जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्म विविध जगत् के पदार्थों का बनानेद्वारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय, अधर्म कभी न करे, सब पर दया रखे, प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नानाप्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समझे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है । ( ब्रह्म ) :—

**गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।**

**गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥**

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग धोके पीना जैसी आज्ञा करे वैसा

करना गुरु लोभी तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चंद्र गुरु जी कैसा हो पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अश्रमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि होते हैं उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उस को सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो अर्ध पाष अर्थात् ताड़ना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है मूठ मूठ कण्ठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करनेवाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये जैसे हैं जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेतने चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वैः—

दो० लोभी गुरु लालची चेला, दोनोंं न्वलें दाव ।  
भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव ॥

गुरु समझें कि चले कुंठे न कुछ देवेहंगि और चेला समझें कि चलो गुरु भूठे सौम्यद खाने पाप जुड़ाने आदि लालच से दोनोंं कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं जैसे पथर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर घूड़ रख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़गा । जैसी स्त्रीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी जगत् का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं । ( प्रश्न ) :—

अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥

इतिहासपुराणान्भ्यां वेदार्थमुपदृष्टयेत् ॥ २ ॥ महाभारते ॥

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥

इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदः ॥ ४ ॥

छान्दोग्य० प्र० ७ ॥ खं० १ ॥

दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम् ॥

अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी हैं व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावें क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुस्तक और हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमे दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पञ्चमवेद कहते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इन के प्रमाणों से मूर्तिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्तिपूजा और तीर्थों का विधान है । ( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी होते तो उन में इतने गपोड़े न होते क्योंकि शरीरकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थोंके देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन में व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससदृश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान् लोगों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु:—

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशंसीरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं ( इतिहास ) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद ( पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन ( कल्प ) पुराण ( वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना ) ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना ( नाराशंसीः ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की

प्रशंसा में कुछ मुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का मुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासकृत ग्रन्थ हैं उन का मुनना मुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात् हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ते मुनते मुनते वे इसीलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में वह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । (जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़कर वेदार्थ कैलाशमा इसीलिये उन का नाम "वेद-व्यास" हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे) और शुक्रदेव तथा जैमिनी आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम "कृष्णतृपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे यह बात क्योंकि घट सके ? ( प्रश्न ) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है ? ( उत्तर ) बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई शुक्लचरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पोषों के पुराण-रूप धर की हैं । जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मानके विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उन के दास ठहराये । वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास । देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये, गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास बनये । भला यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन की है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाने में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती हैं । शिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गणेशखण्डवाले ने गणेश से, सूर्यपुराण वाले ने सूर्य से और वायुपुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक २ से एक २ जो जगत् के कारण लिखे उनका उत्पत्ति एक २ से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि



का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्त्ता क्योंकर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे:—

✦ शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाराय को उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलमय है जल की अब्जलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक बुद्बुदा उठा और बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है उन में विवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों साश्चर्य्य हो गये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे, वा थाह लेके न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चना और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनेविग से चले । दिव्यसहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उमी समय एक गाय और एक केतकी का वृत्त ऊपर से उतर आयः उनसे ब्रह्माने पूछा कि तुम कहाँ से आयः ? उन्होंने ने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधर से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग की थाह है वा नहीं ? उन्होंने ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देखो कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध का धारा वर्षाती थी और वृत्त कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देखो तो मैं तुम को ठिकाने पर ले चूँ उन्होंने ने कहा कि हम भ्रूषी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देखोगे तो मैं तुम को अभी भग्न करे देता हूँ ! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देंगे । तब तीनों नीचे की ओर चले विष्णु मध्य ही

आ गये थे, ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पूछा कि तू चाह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझ को इस की चाह नहीं मिली, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया विष्णु ने कहा कोई साक्षी देखो तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के गिर पर थे । तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिस से तू भूट बोला इसलिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढ़ावेगा उस का सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू भूट बोली उसी से विद्या खाया करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेंगे किन्तु पूंज की करेंगे । और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को बर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था भ्रूणों में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भस्म कोई इन पुराणों के बनानेवालों से पूछे कि जब सृष्टितत्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, शिव गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाब के घर में से आगिरे ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभिसे कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उन से दश प्रजापति, उन की तेरह लड़कियों का विवाह करबप से हुआ उन में से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पत्नी, कद्रू से सर्प, सरमा से कुते स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, मधा, भैंसा, घास, फूस और बनूर आदि वृक्ष काटे सहित उत्पन्न हो गये । कहते कहते भागवत के बनानेवाले लाल बुभुक्षु ! क्या कहना तुम को ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई निपट अंधा ही बब मय्य । स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के निरुद्ध पशु, पत्नी, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, ऊंट, सिंह, कुसा, मधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ! और

सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य शरीर से व  
 शु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सकता है ? शोक है इन लोगों की  
 रची हुई इस महा असम्भव लीला पर जिस ने संसार को अभी तक अमा रक्षित है ।  
 मनुष्य इन सब सृष्टि-कार्यों को वे अपने बाप और मातर की कृपा-कारणों-वाले उन  
 के चले-मुनते और मानते हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि वे मनुष्य हैं न अन्य  
 कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनानेवाले क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये ? वा  
 ज्ञानसे सब कर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्ष देश दुःखों से  
 बच जाता । ( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि "जिस का विवाह  
 उसी के गंत" जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास,  
 जब शिवके गुण गांन लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर  
 की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! विना  
 कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौनसी बात अघटित है ! जो  
 करना चाहै सो सब कर सकता है । ( उत्तर ) अरे भोले लोगों ! विवाह में  
 जिस के गंत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उ  
 स को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहे पोष जी तुम भाट और तुलसीदा की चारखों  
 से भी बड़ कर गयी हो अथवा नहीं ? कि जिस के पीछे लगे उसी को सब से बड़ा  
 बनाओ और जिस से विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओ तुमको सत्य और धर्म  
 से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है । माया मनुष्य में हो  
 सकती है जो कि छुनी कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में छलकपटादि दोष  
 न होने से उस को मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की  
 स्त्रियों से पशु, पक्षी, सर्प वृक्षादि हुए होते तो आज कल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं  
 होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोष जी यहीं  
 से घोसा खा कर बके होंगे :—

तस्मात् कारयप्य इमाः प्रजाः ॥ शत० ७।५।१। ५ ॥

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥

कारयपः कस्मात् परयको भवतीति ॥ निरु० अ० २। खं० २ ॥

सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि परयक अर्थात् "परयतीति परयः

पश्य एव पश्यकः ॥ जो निर्गम होकर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकल विद्याओं को बयावत् देखता है और "ब्रह्मविद्या" इस ब्रह्मण्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से "पश्यक" से "करयप" बन गया है इस का अर्थ न जान के भांग के लोटे चद्र अपना जन्म सृष्टिरुद्ध क बन करने में नष्ट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के ऋषीपाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से उस के सद्यः रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज भर जाना रुधिर की नदी का वह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रखे हैं जब रक्तबीज से सब जगत् भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी ? जो कहे कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असम्भव कथा का गपोड़ा भग की लहरों में उड़ाया जिन का और न ठिकाना ॥

अब जिस को "श्रीमद्भगवत्" कहते हैं उस की लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुःश्लोकी भागवत् का उपदेश किया :—

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।

सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया ॥

भा० स्कं० २ । अ० ६० । श्लोक ३० ॥

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अन्न है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्मा जी को बर दिया कि:-

भवाच्च कल्पविकल्पेषु न विमुञ्चति कर्हिचित् ॥

भाग ० स्कं० २ । अ० ६ । श्लोक ३६ ॥

आप कल्प शृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होये ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित हो के बत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अचरय थी उन्होंने ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथिवी न होगी आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे पुनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? उन्होंने ने उन से कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो बिरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे उन की रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्त्तव्य काम था जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुःख दें उन को उन का स्वामी दंड न दें तो उस के नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि अथ विजय का सत्कार और सनकादिक को खूब दंड देते क्योंकि उन्होंने ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धे नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैष्णव कहते हैं उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरण्यनाभ और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए उन में से हिरण्यनाभ को बराह ने मारा उस की कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने धर ली गया विष्णु बराह का स्वरूप धारण करके उस के शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हिरण्यनाभ को मार डाला । इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कछु न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलविद्या के शत्रु हैं, भला जब लपेट कर शिराने धर ली आप किस पर सौया ? और बराह किस पर पग धर के दौड़ आये ? पृथिवी को तो बराह जी ने मुखमें रखी फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी

किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठड़े होंके लड़े होंगे ! परन्तु पोप जी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे “गम्पी के घर-गम्पी आये कोले गम्पी जी” जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गम्पी लोग आते हैं फिर गम्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था उस का पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ । जब उस के बाप ने सुना उस से कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उस को कुञ्ज न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम खंचा हो तो तू इस को पकड़ने से न जलेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ! नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चींटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उस के बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात् प्रह्लाद को लाड़ से चाटने लगा । प्रह्लाद से कहा वर मांग उस ने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुषे सद्गति को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी भागवत मुनने वा बांचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई बचपावे चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रह्लाद को उस का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ! और वह प्रह्लाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ! प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उस को तुम्हारा नारायण भूल गया ! भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है इक्कीस पीढ़ी प्रह्लाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहां उड़ गया ! ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते मुनते और मानते हैं विद्वान् नहीं ।

पूतना और अक्रूर जी के विषय में देखो:—

रथेन वायुवेगेन ॥ भा० स्कं० १० । अ० ३६ । श्लोक० ३८ ॥

जगाम गोकुलं प्रति ॥ भा० स्कं० १० । पू० अ० ३८ । श्लो० २४ ॥

कि अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठकर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुंचे अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्रूर जा अक्रूर मरे होंगे ? ॥

पूतना का शरीर छः कोस चौड़ा और बहुसा लम्बा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दब कर इस पोप जी का घर दब गया होता ! ॥

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है:— उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आज कल भी नारायण स्मरण करने वालों के दुःख लुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची होतो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष् शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उन्चास कोटियोजन पृथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत बोपदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है देखो ! उस ने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्-भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र खो गया है उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हम ने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे—

हिमाद्रेः सचिवस्पर्धे सूचना क्रियतेऽधुना ।

स्कन्ध्याऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च संपेरितम् ।

विदुषा बोपदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अर्थत् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोपदेव परिडत से कहा कि मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिस को देस के भैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोपदेव ने बनाया उस में से उस नष्टपत्र में दश १० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोपदेव के बनाये हैं वे:—

बोधयन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः ।

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रनावनारयोश्चैव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात् ।

नारदस्यात्र हेतुक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

सुप्तघ्नं द्रौण्यमिभवंस्तदम्नात्पाण्डवा वनम् ।

भीष्मस्य स्वपद्प्राप्तिः कृष्णस्य द्वारकागमः ॥ १३ ॥

श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा मनः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात् स्मृतः ।

स्वपरमनिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढ्योक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि बारह स्कंधों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोपदेव परिडत ने बना कर हिमाद्रि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहै वह बोपदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार ग्रन्थ पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़ कर हैं ॥



देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उन का गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आस पुरुषों के सदृश है जिस में कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जीने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतबाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुब्जादासी से समागम, परस्त्रियों से रासमंडल में क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुतसी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निन्दा क्योंकर होती ! शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिङ्ग और जिन में प्रकाश का लेख भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोष जी की हैं । ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य न ही रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूद्रों के लिये क्योंकि इन को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि स्त्रियां और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद "रैक्यमुनि" के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के दूसरे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है पुनः जो ऐसे २ मिथ्याग्रंथ बना लोगों को सत्यग्रंथों से विमुख जल में फँसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विवाहान मनुष्यों को ग्रस लिया है । "आकृष्णेन रजसा०" । १ । सूर्य का मंत्र । "इमे देवा असपलं सुवध्वम्०" । २ । चन्द्र० । "अग्निर्मूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः०" । ३ । मंगल । "उद्बुध्यस्वाग्ने०" । ४ । बुध । "बृहस्पते अतियदयो०" । ५ । बृहस्पति । "शुक्रमन्धसः०" । ६ । शुक्र । "शक्रो देवीरभिष्टय०" । ७ । शनि । "कया नश्चित्र आभुव०" । ८ । राहु । और "केतुं कृण्वन्न केतवे०" । ९ । इस को केतु की कण्डिका कहते हैं (आकृष्णे०) यह सूर्य का है और भूसि का आकर्षण । १ । दूसरा राजगुण विधायक । २ । तीसरा अग्नि । ३ । और चौथा यजमान । ४ । पांचवां विद्वान् । ५ । छुःठा वीर्य्य अन्न । ६ । सातवां जल प्राण और परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मंत्र है । ९ ।

ग्रहों के वाचक नहीं। अर्थ न जानने से अमवास में पड़े हैं। ( प्रश्न ) ग्रहों का फल होता है या नहीं ? ( उत्तर ) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा अतुल्यकालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पेपलीला वाले कहते हैं “सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र मूर्च्छा क्रूर घर में आये हैं अर्थात् वर्ष का शनैश्वर पग में आया है तुम को बड़ा विघ्न होगा घर द्वार खुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कर्म आगे तो दुःख से बचोगे” इन से कहना चाहिये कि सुनो पोप जी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या वस्तु है ? ( पोपजी ) :—

**देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः ।**

**ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदेवताम् ॥**

देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि चाहें जिस देवता को मन्त्र के बान से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम मन्त्र शक्ति न होती तो तुम्हारे सं नास्तिक हम को संसार में रहने ही न देते। ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकर्म लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उन से तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के क्रोध उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर में शनैश्वरादि के तैल आदि का दानदान लेने को मारे ? क्यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो बिचारे गरीबों को क्यों लूटते हो ? तुम को दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हम को सूर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको चंद्र सूर्य और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्वेष्ट महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ जिसपर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उन के जल जा-

मे चाहिये, तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रखें एक को शांत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्यदृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं ? और तुम्हारी डाक वा तार उन के पास आता जाता है ? अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्ररक्षि हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नस्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा बेदधिकृत पोपल्लूना बलावे जब तुम को ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वह ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम न ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरो। सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सके हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी होवे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है "ये गृहन्ति ते ग्रहाः" जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है जब तक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचने तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षान् सूर्य शनैश्वरादि मूर्तिमान् उन पर जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किये उन को कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष् का प्रत्यक्ष फल अकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु के संयोगरूप ग्रहण को पहले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष होजाता है देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी ग्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह ग्रहरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविद्या का है फलित का नहीं, जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे:-

**छाद्यत्यर्कमिन्दुविधुं भूमिभाः ॥**

यह ग्रहलाघव के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है और इसी प्रकार सिद्धान्तशिरोमणि, सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है

तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्रग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्य प्रकाशरूप होने से उस के सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में समको। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं अर्हों से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह अर्हों की गणितविद्या के अनुसार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्रीक पुरुष हो जाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची और अर्हों की गति सुख दुःख भंग में कारण नहीं। भला ग्रह आकाश में और पृथिवी भी आकाश से बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध कर्त्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं, कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगानेहारा परमात्मा है जो तुम अर्हों का फल मानो तो इसका उत्तर देखो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिस को तुम भ्रुवा नुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं तो भूऋ, और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता ? हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे। ( प्रश्न ) क्या गरुडपुराण भी भूऋ है ? ( उत्तर ) हां असत्य है। ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? ( उत्तर ) जैसे उस के कर्म हैं। ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उस के बड़े भयंकर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उस के लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात भूठ क्योंकर हो सकती हैं ? ( उत्तर ) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उन का धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उन का न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं ? और मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते ? जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड बेप जी बिना अपने

घर के कहां धरेंगे ? जब जङ्गल में आग लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर लूटते हैं उन को पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आते तो वहां अन्धकार हो जाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उन के शरीर टोकर खा जायेंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उन के बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने सुनने वालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुंचता है । जो बैतरणी के लिखे गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता है बैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं जलसाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि :—

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाली थी, दूध उस का खादिष्ट होता था, कभी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का नुड्डा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा । कुछ दिनों में दैवयोग से उस के बाप का मरणसमय आया जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे तब पोप जी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपैया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पदो संकल्प ! पोपजी बोला वाह २ क्या बाप बारम्बार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, नुड्डी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये । ( जाटजी ) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उस को न दूंगा तो २० ) रुपये का संकल्प पड़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना । (पोपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी माय को अधिक समझते हो ! क्या अपने बाप को बैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो तुम अच्छे मुपुत्र हुए ? तब तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी हो गये क्योंकि उन सब को पहिले ही

पोपजी ने बड़का स्क्ला था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला उस का पिस्त मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गौ बांध बटलोई घर पुनः जाट के घर आया और सूतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाहकर्म कराया वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई। परचात् दशगात्र सर्पिही करने आदि में भी उस को मूंडा, महाब्राह्मणों ने भी लूटा और भुक्खड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांगमंग निर्वाह किया चौदहवें दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुह बटलोई भर पोप जी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुंचे उस को देख पोपजी बोला आह्ये ! यजमान बैठिये ! ( जाटजी ) तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। ( पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊं ( जाटजी ) नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ। पोपजी बिचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। ( जाटजी ) तुम बड़े भूटे हो। ( पोपजी ) क्या भूठ किया ! ( जाटजी ) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? ( पोपजी ) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये। ( जाटजी ) अच्छा तो तुम ने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा। ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर है ( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोस दूर है क्योंकि उंचास कोटि योजन पृथिवी है और दक्षिण नैर्ऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उस का उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ। ( पोपजी ) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के बिना डाक तारबर्की दूसरी कोई नहीं। ( जाटजी ) इस गरुडपुराण को हम सच्चा कैसे मानें ? ( पोपजी ) जैसे सब मानते हैं। ( जाटजी ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उच को

पार उतार पुनः गाय को घर में ले दूध को मैं और मेरे लड़केवाले पिया करेंगे, लाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला । ( पोपजी ) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । ( जाटजी ) चुप रहे नहीं तो तेरह दिन लो दूध के बिना जितना दुःख हम ने पाया है सब कसर निकाल दूंगा सब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुंचे ।

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो वे लोग कहते हैं कि दशगात्र के पियडों से दश अंग सर्पिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अगुंष्टमात्र शरीर बन के पश्चात् यमलोक को जाता है तो मरती समय यमदूतों का आना व्यर्थ होता है त्रयोदशराह के पश्चात् आना चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? ( पृश्न ) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है इसलिये सब दान करने चाहियें । ( उत्तर ) उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिस में धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में सब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे र वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे मिर्दब, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाके खराब होंवें वहां भले मनुष्यों का क्या काम ! ( पृश्न ) जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहाँ जाता ? और इन का न्याय कौन करता है ? ( उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है किः—

### यमेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि “यम” नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्य कर्ता पक्षपातरहित परमात्मा “धर्मराज” है वही सब का न्यायकर्ता है । ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है । ( उत्तर ) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि सुपात्रों को परोपकारियों को परोपकार्य सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अक्षय्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये (प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है ? ( उत्तर ) जो झुली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त,

पराई हानि करनेवाले, लंपट्टी, मिथ्यावादी, अविद्वान्, कुसंगी, आलसी, जो कोई बात हो उस के पास बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां किये पश्चात् भी हठ से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उस की निन्दा करना, शाप और गालिप्रदानादि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करें तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुमनू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में मग्न रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्ट, मित्रों में अश्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं, और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं, । और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुरील, सत्यवादी, परोपकारमिय, पुरुषार्थी, उदार. विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम वेदाज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करनेहारे, श्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी की लज्जा पचो न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ,समझनेवाले, अविद्यादि वैशेष, हठ दुरात्राऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को "समझनेवाले, संतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मग्नि भी न देने वा बर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लौट जाना, उस की निन्दा न करना, मुस्वी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से "उपेक्षा" अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरहित, गंभीराशुच, सत्यपुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धनको परोपकार करने में लगानेवाले, पराये मुस्कके लिये अपने प्राणों को भी समर्पित कर्त्ता इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं



परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं ॥

(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट-उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्याविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु बेश्यागमनादि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "सब अन्न बारह पसेरी" बेचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर मुखा होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्षापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का स्तकार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्न) दान के फल यहाँ होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? (उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है धर्मात्माओं के मुख की रक्षा करता भुगाला डाकू आदि से बचाकर उन को मुख में रखता है वैसेही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और मुखरूप फलों को यथावत् भुगाला है (प्रश्न) जो ये गरुडपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं। किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसे ही पुराण और तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रंथ हैं इन का मानना किसी विद्वान् का काम नहीं किन्तु इन को मानना अविद्वत्ता है। देखो शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, अश्विन्-पुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र शनैश्चर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पौर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, स्वामिकालिक की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनीकुमार की द्वितीया, आद्यदेवी की प्रतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुराण-

रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्न पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोप और खेपजी के चेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब "निर्यासिंधु" "धर्मसिंधु," "व्रतार्क" आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकदशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादसी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूखे मरने में भी वादविवाद ही करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उस में अपना स्वार्थपन ही है और दया कुञ्ज भी नहीं वे कहते हैं:—

### एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति ।

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोप जी से पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उजटा जुधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा थांच के बहुत ठगे जाते हैं। उस में एक गथा है कि:—

ब्रह्मलोक में एक बेरया थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मे पुनः स्वर्ग में क्योंकर आ सकूंगी ? उस ने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ ज यगी वह विमानसहित किसी नगर में गिर पड़ी वहाँ के राजा ने उस से पूछा कि तू कौन है? तब उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराया कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी क्रोध से स्त्री दिनरात भूखी रही थी दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी उस ने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उस ने छुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जानके करे

तो उस के फल का क्या पारावार है !!! वह रे अश्व के अन्धे लगेगे ! जो वह बात सची हो तो हम एक पान की बीड़ी जो कि स्वर्ग में नहीं होती भेजना चाहते हैं सब एकादशी वाले अपना २ फल दे दो जो एक पान का बीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों क्रोड़ों पान वहां भेंजेगे और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूस्व मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे । इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथक् २ रक्त्वे हैं किसी का “ धनदा ” किसी का “ कामदा ” किसी का “ पुत्रवा ” और किसी का “ निर्जला ” बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्वेशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करनेवालों को महादुःख प्राप्त होता है विशेष कर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है इस निर्देशी कसई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोष को दया से क्या काम ? “ कोई जीवो वा मरो पोष जी का पेट पूरा भरो ” गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अर्जुण हो चुधा न लगे उस दिन शर्करावत् ( शर्वत् ) वा दूध पीकर रहना चाहिये जं भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाणा कोई भी न करे ॥

अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं अथर्ववेद की २११ मन्त्रवेद की १०१ सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६ शाखा है, इन में से बोधी की शाखा मिलती है शेष लोप हो गई हैं उन्हीं में मूर्तिपूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देख कर मूर्तिपूजा में क्या शंका है ? ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस युद्ध की होती है उस के सहाय हुआ करती है विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु उन में विरोध नहीं हो सकता जैसे ही जिसकी शाखा मिलती है जब इन में

पाषाणादि मूर्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्व मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हैं उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रखे हैं वेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो तो "आश्वलायनादि" ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल बड़ और आम आदि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, षंग, उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसी लिये इन ग्रन्थों को शाखा मानी है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐश पत्त करेगा कि लुप्त शाखाओं में बर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात् अन्त्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्तव्यकर्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा होगा तो तुम उस को वही उत्तर दोगे जो कि हम ने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वैसे ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो बर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे । भला जैमिनि व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है ? देखो जैमिनि ने भीमसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपासनाकाण्ड और व्यास मुनि ने शारीरकसूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है 'उन में पाषाणादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इस लिये लुप्त शाखाओं में भी इस मूर्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था । ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासवि लिखे हैं इस लिये वेद में कभी नहीं हो सकते वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इस लिये मूर्तिपूजा का सर्वथा खरबदन है । देखो ! मूर्तिपूजा

से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उन की स्त्री सीता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उन की मूर्तियां मन्दिर आदि में रख के पुजारी लोग उन के नाम से भीख मांगते हैं ! अर्थात् उन को भिखारी बनाते हैं कि आम्ना-महाराज ! महाराज जी सेठ साहूकारो ! दर्शन कीजिये. बैठिये, चरणामृत लीजिये, कुछ भेंट चढ़ाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधा कृष्ण, लक्ष्मीनारायण और महादेव पार्वतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात् जल पान वा स्नान पान भी नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नयुनी आदि राणीजी वा सेठानी जी बनवा दीजिये. अन्न आदि भेजो तो राम कृष्णादि को भोग लगावें, बख सब फट गये हैं, मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन ऊंदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इगर्की आंख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी की आंख न बना सके इसलिये कौड़ी की लगा दी है । रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीतारामादि खड़े और पुजारी वा महन्त जी आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठे हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग बिछाकर सोते हैं बहुत से पुजारी अपने नारायण को डब्बी में बंद कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे कि वानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाथ २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीताराम जी राधाकृष्ण जी और शिवपार्वती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के बिना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं । और रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते हैं, जहां मेला टेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया ब्रह्मा मार्ग में बैठाकर भीख मंगवाते हैं इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और भिन्नक भे ! यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ! इस से बड़ी अपने माननीय पुरुषों

की निन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते कि आओ इन का दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्तियों के कंधे से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता उस को बिना दण्ड दिये कभी छोड़ते! हा, जब उन्होंने से दंड न पाया तो इन के कर्मों ने पूजारीयों को बहुतसी मूर्तिविरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती हैं और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तब तक मिलेगी इस में क्या संदेह है कि जो अय्यर्वावर्त की प्रतिदिन महाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चेला करते हैं तब साधारण को:—

दं दुर्गायै नमः । अं भैरवाय नमः । ऐं ह्रीं क्लीं वामुखायै विद्महे ॥

इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा:—

ह्रीं, श्रीं, क्लीं ॥ शावरतं० वं० प्रकी० प्र० ४४ ॥

इत्यादि और धनाब्जों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मन्त्र:—

ह्रीं ह्रीं हुं वगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र० ४१ ॥

कहीं २

हुं फट् स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र बीज मन्त्र ४ ॥

और मारण, मोहन, उखाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर करानेवाले से धन ले के आटे वा मिट्टी का पतला जिस को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आस, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक वेदि बना कर मांस आदि का होम

करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उस को विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उस को मार डाला तो अपने को भैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं "भैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशी-  
कुरु २, खादय २, भक्षय २, औटय २, नाशय २, मम शत्रून् वशी-  
कुरु २, हुं फद् स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण मं० ५-७॥

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, झुकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरबीचक में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उस को मार होम कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी बजरी करने वाले विद्या मूत्र भी खाते पीते हैं ॥

एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमार्गवाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रबधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिल मिलाकर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्त्र मिलाकर रस्स के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रबधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है। आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते मिड़ते हैं जब प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन २, और पुत्रबधू २ हो जाती हैं। और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

( प्रश्न ) शैव मतवाले तो अच्छे होते हैं ? ( उत्तर ) अच्छे कहां से होते हैं!

“जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे शैव भी “ओं नमः शिवाय” इत्यादि पञ्चाक्षरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर २ बं बं और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुस्से शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और बं बं शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योंकि जब भस्मासुर के आगेसे महादेव भागे थे तब बं बं और ठट्टे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्षप्रजापति का शिर काट आगी में डाल उस के धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्रि प्रदोष का व्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त है वैसे शैव भी, इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरगय, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ “दोनों धोंड़ों पर चढ़ते हैं” अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने वैष्णव भी रहते हैं उन का:—

**अन्तःशाक्ता बहिरशैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ।**

**नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥**

यह तन्त्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी बाहर शैव अर्थात् रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं ! (उत्तर) क्या घूड़ अच्छे हैं ! जैसे वे वैसे ये हैं देख लो वैष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हैं उन में से श्रीवैष्णव जो कि चक्राहित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं है ! (प्रश्न) क्यों ! सब कुछ नहीं ! सब कुछ है देखो ! ललाट में नारायण के चरणाविन्द के सदृश तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है इसलिये हम श्रीवैष्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है आलम्बारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ! (उत्तर) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है



क्योंकि यह तो हाथ की कारागरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहां से आया ! क्या कोई वैकुण्ठ में जाकर विष्णु के पद का चिन्ह ललाट में करा आया है ? ( विवेकी ) और श्री जड़ है वा चेतन ? ( वैष्णव ) चेतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा बिना बनाई ? जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णवों का बुरा मुसल अर्थात् शोभारहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और धर २ भीख मांगते और सदावर्ष लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात सीड़ी और निर्लज्जों की है कि कपाल में श्री और महादरिद्रों के काम हों ॥

इन में एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छल कपट कर पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उस को चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लूटे व्याकुल होकर फिरता था नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा, उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है इसलिये तू धन्य है फिर उस ने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में ले गया वहां से जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ लें हम को तो आधी चाहिये बनियां बिचारा भोला भाला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारा आधी सुपारी दे दो बनियां बही आधी सुपारी

देने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो ब्रह्मान में आधी सुपारी है आधा बांट लूँगा राजपुरुषों तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखा है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उस ने न माना आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अर्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है, बुद्धिमान् देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोरम-यडली हैं वा नहीं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब देखो वैष्णवों में फूट टूट भिन्न-तिलक करटी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनो चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाईं श्रीकृष्णचन्द्र जी के हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता २ ही मर गया ऊपर से काक ने विष्टा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जायेंगे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु के दूत मुख से उस को वैकुण्ठ में ले गये नारायण ने उस को वैकुण्ठ में रक्खा देखो जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इस में क्या आश्चर्य है !!! हम पूछते हैं कि जब छोटै से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस से ये बातें सब व्यर्थ हैं । अब इन में बहुत से खास्की लकड़े की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हैं बगुले के समान ध्याना-

वस्थित होते हैं गांजा भांग चर्स के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटीर अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे मांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चले बना लेते हैं बहुत करके मजदूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पढ़ता हो तब उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि :—

**पठितव्यं तदपि मर्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्तव्यम् ॥**

सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना ॥

जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आने उन के पास जो कोई जाता है उन को बच्चा बच्ची कहते हैं चाहे वे खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वैसे ही रुंखड़, सूंखड़, गोदड़िये और जमात वाले सुतरेसाई और अकाली, कानफटे जोगी, औघड़ आदि सब एकसे हैं । एक खाखी का चेला “श्रीगणेशायनमः” घोखता २ कुवे पर जल भरने को गया वहां परिडत बैठा था वह उस को “स्त्रीगनेसाजनमें” घोखते देख कर बोला अरे साधू ! अशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख उसने भट लोटा भर गुरु जी के पास जा कहा कि एक बम्भन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भट खाखी जी उठा रूप पर गया और परिडत से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है ? तू गुरु की लंडी क्या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं “स्त्रीगनेसाजनमें” “स्त्रीगनेसायन्नमें” “श्रीगनेसायनमें” । ( परिडत ) सुनो साधुजी विद्या की बात बहुत कठिन है बिना पढ़े नहीं आती । ( खाखी ) चल बे, सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्तों का घर बड़ा है तू बाबूड़ा क्या जानें । ( परिडत ) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता । ( खाखी ) अबे तू हमारा गुरु बनता है । तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । ( परिडत ) सुनो कहां से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये । ( खाखी ) जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्तों को न माने तो जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा । ( परिडत ) हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुरदजों की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान्, धार्मिक,

परोक्षारी पुरुषों को कहते हैं । ( स्वास्ती ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजे भांग धतूरा की पत्ती की भाजी ( शाक ) बना खाते संखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गूँक रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समझते, भीख मांग कर टिकड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है ? चेत नाबूड़े जो हम को दिक् करेगा हम तुम को भस्म कर डालेंगे । ( परिडत ) ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गवर्गण्डों के हैं साधुओं के नहीं सुनो "साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो, विद्वान्, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं । ( स्वास्ती ) चल वे तू साधु के कर्म क्या जाने सन्तों का घर बड़ा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । ( परिडत ) अच्छा स्वास्ती जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे कारावास भोगोगे बेंत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे यह साधु का लक्षण नहीं । ( स्वास्ती ) चलवे चले किस राजस का मुख दिखलाया । ( परिडत ) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते । ( स्वास्ती ) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गर्ज नहीं । ( परिडत ) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन की तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान होता है । स्वास्ती चला गया आसन पर और परिडत घर को गये जब संध्या आती हो गई तब उस स्वास्ती को बुड़्ढा समझ बहुत से स्वास्ती "डण्डोत २" कहते साष्टांग करके बैठे उस स्वास्ती ने पूछा अबे रामदासिया ! तू क्या पढ़ा है ? ( रामदास ) महाराज मैं ने "वेस्तुसहसरनाम" पढ़ा है । अबे गोविन्ददासिये ! तू क्या पढ़ा है ? ( गोविन्दास ) मैं "रामसतवराज" पढ़ा हूं अमुक स्वास्ती जी के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? ( स्वास्तीजी ) हम गीता पढ़े हैं । ( रामदास ) किसके पास ? ( स्वास्तीजी ) चलवे छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम "परमराज" में रहते थे हम को अक्षर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोतीवाले परिडत को देखता था तब गीता के गोटेके में पछुता था कि इस कलंगीवाले अक्षर का क्या नाम

है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ भासी गुरू एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय ? ॥

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, फ्रांफ पीटना, घंटा बड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ धूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन स्वास्त्रियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण, मजदूर, किसान, कहार आदि अपनी मजदूरी छोड़ केवल खास रमा के वैरागी खास्री आदि हो जाते हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता । इन में से नाथों का मन्त्र "नमःशिवाय" । स्वास्त्रियों का "नृसिंहाय नमः" । रामावतारों का "श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा "सीतारामाभ्यां नमः" । कृष्णोपासकों का "श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः" नमो भगवते वासुदेवाय" और बंगालियों का "गोविन्दाय नमः" । इन मंत्रों को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिखा करते हैं कि बच्चे तुम्हें का मन्त्र पढ़ ले ॥

**जल पवित्रर सथल पवित्रर और पवित्रर कुआ ।**

**शिव कहे सुन पार्वती तूबा पवित्रर कुआ ॥**

भला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान् होने अथवा जगत् के उपकार करने की कमी हो सकती है ? खास्री रात दिन लकड़, छाने ( जंगली कंड़े ) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्त्र ले लें तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहाँ से आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी घर रक्खा है जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो आवें जो जटा बड़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥

( प्रश्न ) कबीरवंशी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) क्यों अच्छे नहीं ? पाषाणादि मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फूलों से उत्सव हुए और अन्त में भी फूल हो गये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब

वे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उक्त को कबीर जानते हैं सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है इन का मंत्र "सत्यनाम कबीर" आदि है । ( उच्चर ) पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात् दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनुगा था वा कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया ? यहां जो यह बात सुनकर आती है वही सच्ची होनी कि कोई जुलाहा कारी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं थे एक समय थोड़ी सी रात्रि थी एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी परिडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई परिडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया तब ऊट पटांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तंत्र ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष परिडित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल में फँस गये जब मर गया तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उस ने जीते जी बनाया था उस को उस के चले पढ़ते रहे कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उस को अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मन की वृत्ति को "मुरति" कहते हैं उस को उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्छों के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े की कंठी बांधते हैं भला विचार के देखो कि इस में आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । ( प्रश्न ) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भी मूर्ति का खण्डन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे देखो उन्होंने ने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था:—

ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्बेर अकावमूर्ते  
अजोनि सहस्रगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी  
सच नानक होसी भी सच ॥ जपजी पौड़ी ? ॥

( ओ३म् ) जिस का सत्य नाम है वह कर्त्ता पुरुष भय और वैररहित अकाल-मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानक जी का आशय तो अच्छा था पर विद्या कुछ भी नहीं थी, हां भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द को "निर्भो" क्यों लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के भी परिडित बन गये होंगे यह बात अपने मानप्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के ग्रंथ में जहां तहां वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे:—

वेद पढ़त ब्रह्मा मरं चारों वेद कहानि ।

◀ साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुखमनी पौड़ी ७ । चो० ८ ॥

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ । चो० ६ ॥

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे ? क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उस की सब बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम साधु होता है वे बिचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उन का सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही

नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानक जी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृतविद्या से सर्वथारहित मुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात् बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हां ! नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने “नानकचन्द्रोदय” और “जन्मसास्त्री” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े ऐश्वर्यवाले थे लिखा है नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बड़ी बात चीत की, सब ने इन का मान्य किया, नानक जी के विवाह में बहुत से छोड़े रथ हाथी सोने चांदों मोती पक्का आदि रत्नों से सजे हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है, भला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गद्दीवालों ने भाषा बना कर ग्रन्थ में रक्खी है अर्थात् इन का गुरु गोविन्दसिंहजी दशमा हुआ उन के पीछे उस ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिली गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बँधवा दी इन लोको ने भी नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़ कर इन के शिष्य झुकते आये इस ने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ विशेष भाक्ति ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मल कहते हैं हम बड़े अकालिये मूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं, इन में गोविन्दसिंह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्होंने ने एक पुरश्चरण करवाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे वाममार्गियों ने “पंच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार” अर्थात् इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अर्थात् जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचाव हो । दूसरा “कंमल” जो शिर के



उपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में "कड्डा" जिस से हाथ और शिर बच सकें। तीसरा "कड्डा" अर्थात् जानु के उपर एक जाँघिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके असाढ़ के मसल और बट भी इस को इसीलिये धारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और अटकाव न हो। चौथा "कड्डा" कि जिस से केश सुधरते हैं। पाँचवां "कड्डा" कि जिससे शत्रु से भेंट भटका होने से लड़ाई में काम आवे। इसीलिये यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के मयोजन के लिये बातें कर्तव्य थीं उन को धर्म के साथ मान ली हैं मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं, क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उस की पूजा करनी सब मूर्तिपूजा है जैसे मूर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी कर ली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेंट चढ़वाते हैं वैसे नानकपंथी लोग ग्रंथ की पूजा करते, कराते, भेंट भी चढ़वाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रंथसाहब वाले नहीं करते हां यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना व देखा क्या करें जो सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमान् लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब सम्प्रदायवाले वेदमत में आ जाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुत सा हटा दिया है जैसे इस को हटाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हटा कर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है ॥

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इन के मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास "आमेर" में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब वेदादिशास्त्रोंकी ही सब बातें छोड़ कर "दादूरामर" में ही मुक्ति मानली है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं। थोड़े दिन हुए "रामसनेही" मत शाहपुरा से चला है उन्होंने ने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के 'रामर' पुकारना अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम" में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं वे भी मूर्तिपूजा को

विकारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं बिरों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी के "रामकी" के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता ॥

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान मैनाड़ से चला है वे "रामर" कहने ही को परममन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदासजी आदि की बाणी हैं ऐसा लिखते हैं—

उन का वचन ॥

भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ ।

तब जम का कागज फट्या, कट्या करम तब जाइ ॥ साखी ॥ ६ ॥

अब बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि "रामर" कहने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कमी छूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फँसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है "रामचरण" उसके वचनः—

महमा नांव प्रताप की, सुखी सरवख चित लाइ ।

रामचरख रसना रटौ, क्रम सकल भड़ जाइ ॥

जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उतरथा पार ।

रामचरख जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार ॥

राम बिना सब झूठ बतायो ॥

राम भजत झूठ्या सब क्रम्मा । चंद अरु सूर देइ परकम्मा ।

राम कहे तिन कूं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागै

राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही घरही ॥

ऊंच नीच कुल भेद विचारै ॥ सो तो जनम आपखो हारै ॥

संता कै कुल दीसै नाहीं । राम राम कह राम सम्हारिं ॥

ऐसो कुब जो कीरति गावै । हरि हरि जन कौ पार न पावै ॥

राम संतां का अन्त न आवै । आप आप की बुदि सम गावै ॥

## इन का खरगडन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़चौप क्यें लिखता, यह केवल इन को भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जाय केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याध, सर्प, बीजू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा। जैसे “शकर २” कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं मुनता तो जन्मभर कहने से भी नहीं मुनेगा और जो मुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चर्य हम मुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं रांड-स्नेही का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रहीं हैं यदि ऐसे २ पाखण्ड न चलते तो आर्य्यावर्त्त देश की दुर्दशा क्यें होती ? ये लोग अपने चेलों को जूठ खिलाते हैं और स्त्रियां भी लंबी पड़के दंडवत् प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्त्रियों और साधुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की शाखा “खेड़ापा” ग्राम मारवाड़ देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाति का देड़ बड़ा चालाक था उस के दो स्त्रियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक औषड़ होकर कुत्तों के साथ खाता रहा पीछे वामी कूण्डापंथी पीछे “रामदेव” का “कामडिया” \* बना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे भूमता २ “सीथल” † में देड़ों का गुरु “रामदास” था उस से मिला उस ने उस को “रामदेव” का पंथ बताके अपना चेला बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उबर शाहपुरे में रामचरण का। उस का भी इतिहास ऐसा मुना है कि वह जयपुर का बनियां था उसने “दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से वेप लिया और उस को गुरु किया और शाहपुरे में आके टिकी जमाई। भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है। जम गई

\* राजपूताने में “चमार,, लोग भगवें वस्त्र रंग कर “रामदेव,, आदि के गीत जिन को वे “शब्द,, कहते हैं चमारों और अन्यजातियों को मुनाते हैं वे “कामडिये” कहलाते हैं ॥

† “सीथल जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है ॥

इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यजपर्यन्त इन में चले बनते हैं अब भी कूडापंथी से ही हैं क्योंकि मट्टी के कुंडों में ही खाते हैं । और साधुओं की जूठन खाते हैं, वेदधर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर लुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को "लुच्छम" \* वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के बिना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो रवास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्यगुरु कहते हैं, और सत्यगुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरु से चेला बुर जावे तो गुरु के नख और डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के बाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उस की परिक्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं उन को साखी:—

**पंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरबलो पाप ।**

**राम २ सुमरयां विना, रइगयो रीतो आप ॥**

**वेद पुराण पदे पढ़ गीता, रामभजन विन रइ गये रीता ॥**

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उस को नीच और चांडाल रामस्नेही हो तो उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि:—

**भगति हेति औतार ही घरही ॥**

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुतसा समझ लेंगे ॥

( प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य्यभोगते

\* लुच्छम अर्थात् सूक्ष्म ।

हैं क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सकता है ? ( उत्तर ) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । ( प्रश्न ) वाह २ ! गुसाइयों के प्रताप से है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? ( उत्तर ) दूसरे भी इसीप्रकार का झूल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या संदेह है ? और जो इन से अधिक धूर्त्ता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है । ( प्रश्न ) वाह जी वाह ! इस में क्या धूर्त्ता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत "तैलङ्ग" देश से चला है क्योंकि एक तैलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ कारी में जा के उस ने संन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उस के माता पिता और स्त्री ने सुना कि कारी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता और स्त्री कारी में पहुंच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों किया देखो ! इस की युवति स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उस को बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्योंकि तू ने झूठ बोलकर संन्यास लिया । उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया ! देखो ! इस मतका मूल ही झूठ कपट से जमा जब तैलङ्ग देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहां से निकल कर घूमने लगे "चरणार्गट" जो कारी के पास है उस के समीप "चंपारण्य" नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों और दूर २ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोड़नेवाले ने यह समझा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लक्ष्मणभट्ट और उस की स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया फिर कारी में जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया कारी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला हो गया वहां से कभी कुछ खटपट होने से कारी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वैसा ही जातिबहिष्कृत ब्राह्मण कारी में रहता था उस की लड़की युवति थी इस ने उस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर ले वैसा ही हुआ जिस के बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ! उस स्त्री को लेकर वहीं चला गया कि

जहाँ ब्रह्म विष्णुशामी के मंदिर में जेता हुआ का विवाह करने से उन को वहाँ से निकाल दिया । फिर बजदोर में कि जहाँ अविष्ठा ने घर कर रक्सा है जाकर अपना प्रबंध अपनेक प्रकार की छत्र युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करते लगा कि श्रीकृष्ण मुझ को मिले और कहा कि जो गोलोक से "दैवीजीव" मर्त्यलोक में आये हैं उन को ब्रह्मसम्बन्ध आदि से ध्विन्न करके गोलोक में भेजो इत्यादि मूर्खों की प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात् ८४ चौरासी वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद रक्सा जैसे:—

श्रीकृष्णः शरखं मम ॥

श्रीकृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ गोपालसहस्रनाम ॥

ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समर्पण कराने का है:—

श्रीकृष्णः शरखं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण-  
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय  
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरष्यतदर्माश्च दारागारपुत्रासचित्तेहपरा-  
ध्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं । "कीं कृष्णाय-  
येति,"—यह "कीं" तन्त्र ग्रन्थ का है इस से विदित होता है कि यह बल्लभमत भी वाममार्गियों का भेद है इसी से स्त्रीसंग गुसाई लोग बहुधा करते हैं । "गोपीजनव-  
ल्लभेति"—क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो लैख अर्थात् स्त्री भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णार्जा ऐसे थे ? अब "सह-  
स्रपरिवत्सरेति,"—सहस्र वर्षों की मरणा ध्वर्थ है क्योंकि बल्लभ और उस के शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ और अज्ञ लों अर्थात् जब लों बल्लभ का मत न था न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने दैवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया ? "ताप" और "क्लेश" ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो "सहस्र" शब्द का पाठ न रक्खना चाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रक्खना सर्वथा व्यर्थ है और जो अनन्त काल लों "तिरोहित" अर्थात् आच्छादित रहै उस की मुक्ति के लिये बल्लभ का

होना भी व्यर्थ है। क्योंकि अन्न-जल-अन्न नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उस के धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ! क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अर्पण से नरवशिखाप्रपर्यन्त देह कहा-ता है उस में जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है मलमूत्रादि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे! और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उन को कृष्णार्पण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होंगे अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाई जी के अर्पण क्यों नहीं होता "बबा मीठा २ ग-डप्प और कड़वार यू" और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अर्पण करना अन्य मतवाले के नहीं यह सब स्वार्थसिन्धुपन और पराये घनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त ध-र्म के नाश करने की लीला रची है। देखो यह बल्लभ का प्रपञ्चः--

श्रावणस्यामले पञ्च एकादश्यां महानिशि ।

साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥

ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥

सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।

संयोगजाः स्पर्शाजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ।

असमर्पितवस्तूनां तस्माद्दर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥

निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।

न मतं देवदेवस्य स्वामिसुक्तिसमर्पणम् ॥ ५ ॥

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।

दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥

न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

तथा कार्यं समर्प्य च सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।

शमात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिबर्धनम् ॥ ८ ॥

इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का मूल तत्त्व है । भला इन से कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहात्तुमः कृष्णकर्म पांच दोषों से होते हैं वह बल्लभ से श्रावण मास की आधी रात को कैसे निकल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला होता है और उस को सब पदार्थों का समर्पण करता है उस के शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है यही बल्लभ का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावें तो रोग दारिद्र्यादि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ! और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक—सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे—किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे—लोक में जिन को भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चौथे—संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात् चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पांचवें—स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मतवाले कमी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गोसाईजी के मत के, इसलिये विना समर्पण किये पदार्थ को गोसाई जी के चले न भागें इसीलिये इन के चले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होवे तब लों उस का स्वामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इस से गोसाइयों के चले समर्पण करके पश्चात् अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करें प्रथम गोसाई जी को आर्षादि समर्पण करके पश्चात् ग्रहण करें जैसे ही हरि को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाई जी के मत से भिन्न मार्ग के वात्सव्यात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कमी न मुँने न ग्रहण करें यही उन के शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ जैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मपुट्टि करे उस के पश्चात् जैसे ब्रह्म में अन्य ब्रह्म मिल कर गङ्गारूप हो जाते हैं जैसे ही अपने मत



में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ = ॥ अब देखिये गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना भयोजन सिद्ध करनेद्वारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे? जो कहे कि इस ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध हो जाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? । भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इसलिये तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहे कि नहीं ? तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ । भला अबलों जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो और मन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनन्द भोगो । और देखिये ! ये गोसाई लोग अपने संप्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्टभोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं । परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगं-दरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे भीकें मरते हैं कि जिस को ये ही जानते होंगे सब पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्टिमार्ग है जैसे कुर्छी के शरीर को सब घृत पिघलर के निकल जाती है और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इन की भी देखने में आती है इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है । इसीप्रकार मिथ्या जाल रत्नके विचारे मोले माले मनुष्यों को जाल में फँसावा और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के लामी बनते हैं । यह कहते हैं कि जितने वैबी जीव गोलोक से वहां आये हैं उन के उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जबलों हमारा उपदेश न ले तब लों गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं । यह जी वाह ! भला तुम्हारा मत है ॥ गोसाइयों के जितने चेल हैं वे सब गोपिकां बन जावेंगी अब विचारिये

भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उस की बड़ी दुर्दशा हो जाती है तो जहां एक पुरुष और कौड़ी स्त्री एक के पीछे लगी हैं उस के दुःख का क्या पारवार है ? जो कहे कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस की स्त्री जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह उन की अर्दांगी है जैसे यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी का अत्यन्त लड़ाई बखेड़ा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् हो गया होगा, अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहते हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा, छि ! छि !! छि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां गोसाईं जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं । अब कहिये जिन का स्वरूप गोसाईं पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईं जी पीड़ित क्यों होते हैं ? । (प्रश्न) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं । (उत्तर) “भोगे रोगभयम्” जहां भोग है वहां रोग अवश्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रोडानक्रोडस्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं तो लड़के होते हैं वा लड़की ? अथवा दोनों ? जो कहे कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह किन के साथ होता होगा ? क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कहे कि लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उन का विवाह कहां और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कूले लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो है भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट हो जामगी और जो कहे कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा । भला यह गोकुल क्या हुआ ! जाते दिवली के बद्राह की स्त्रियों की सेना हुई । अब जो गोसाईं लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो

सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहवेंगे, अब रहा धन उस की वही लीला समझो अर्थात् मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाइयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला और आनन्द करें हम । जितने बल्लभसम्प्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लो तैलंगी जा-जाति में नहीं हैं और जो कोई इन को भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिबाध हो कर अष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाई जी की पधरावनी करता है तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, बिचारा बोले तो तब जो मूर्ख न होवे “मूर्खाणां बलं मौनम्” क्योंकि मूर्खों का बल मौन है जो बोले तो उस की पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर स्व ध्यान लगाकर ताकता रहता है । और जिसकी ओर गोसाईजी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात है और उस का पति, भाई, बंधु, माता, पिता, बड़े प्रसन्न होते हैं वहां सब स्त्रियां गोसाई जी के पग झूती हैं जिस पर गोसाई जी का मन लगे वा कृपा हो उस की अंगुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आदि अथवा धन्यभाष्य सम-झते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब कहते हैं कि तू गोसाई जी की चरणसेवा में जा और जहां कहीं उस के पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां झूती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैं । अब इन की दक्षिणा की लीला अर्थात् इस प्रकार मांगते हैं लामो भेट गोसाईजी की, बहू जी की, लाल जी की, बेटी जी की, मुखियाजी की, बाहरिया जी की, गवैया जी की और ठाकुरजी की. इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं जब कोई गोसाईजी का सेबक मरने लगता है तब उस की छाती में पग गोसाई जी धरते हैं और जो कुछ मिलता है उस को गोसाई जी “गड़क” कर जाते हैं क्या यह काम महात्राक्षण और कटिया वा मुण्डली के समान नहीं है ? । कोई २ चेला विवाह में गोसाई जी को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई २ सेबक जब केशरिमा स्नान अर्थात् गोसाई जी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उ पटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिलके स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्रीजन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईजी पीताम्बर पहिर और खड़ाऊं पर बड़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का आचमन उस के सेबक करते हैं और अच्छे मसाला धरके पान बीड़ी

गोसाईंजी को देते हैं वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं रोष एक चांदी के कटोरे में जिस को उन का सेवक मुखके आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं उस की भी प्रसादी बँटती है जिस को "खास" प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग किसप्रकार के मनुष्य हैं जो मूढपन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही बैद्यों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने ही बैद्यों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों भी लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इन को धोयें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें । वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रक्त, राग, भोग में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रक्त राग भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारियां भर कर लियों के अस्पृशीय अवयव अर्थात् जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईं जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेंचते किन्तु अपने नौकरों चारों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग बेंचते हैं गुसाईं जी नहीं । ( उत्तर ) जो गोसाईं जी उन को मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेंवें ? गुसाईं जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेंच देते हैं वे ले जाकर हाट बाजार में बेंचते हैं जो गुसाईं जी स्वयं बाहर बेंचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईं जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाईं जी भी बेंचते हैं रसविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त की अधोगति कर दी ॥

( प्रश्न ) स्वामी नारायण का मत कैसा है ? ( उत्तर ) 'यदृशी शीतला देवी तदृशो बह्वनः स्वरः' जैसी गुसाईं जी की धनहरणादि में विचित्र लीला है वैसी ही स्वामिनारायण की भी है । देखिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी हो कर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुज आदि देशों में फिरता था उस ने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इन को अपने मत में झुका लें वैसे ही वे लोग झुक सकते हैं । वहां उसने दो चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार

और बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम "दादा खाचर" गड़ड़े का भूमिया ( जिर्मांशर ) था उस को शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है वह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर और संस्र चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उस के चेलों ने कहा कि एक बार आंस उठा देखके फिर आंस मीच लेना और भट्ट इधर को चले आना जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात् चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उस को लेगये वह सहजानन्द कलावत् और चलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अंधेरी कोठरी में खड़ा था उस के चेलों ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादाखाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर भट्ट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बाते कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चले हो-जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं । वह दादाखाचर इन के जाल में फँस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था कभी २ किसी साधु की कण्ठ की नाडी को मल कर मूर्च्छित भी कर देता था और सब से कहता था कि हमने इन की समाधि चढ़ादी है ऐसी २ धूर्त्ता में काठियावाड़ के भोलेभाले लोग उस के पेच में फँस गये जब वह मर गया तब उस के चेलों ने बहुत सा पाखण्ड फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता कपड़ा गन्ना या न्यायाधीश ने उस को नाक कान काट डालने का दंड किया जब उस की नाक काटी गई तब वह धूर्त्त नाचने गाने और हंसने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यों हंसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी कौन सी बात है ? उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखी

लोगोंने कहा कहे, क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े में देख कर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ । लोगों ने कहा हम को दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण देखे नहीं तो नहीं । उन में से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ, उस ने उस की नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा । उस ने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहाँ उसी के सम्मान पाचमे, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कहने लगा कि मुझ को भी नारायण देखता है जैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुंड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रखवा किसी मूर्ख राजा ने सुना उन को बुलाया तब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है ? उन्होंने ने कहा कि साक्षात् नारायण हम को देखता है । ( राजा ) हम को क्यों नहीं देखता ? ( नारायणदर्शी ) जब तक नाक है तब तक नहीं देखेगा और जब नाक कटवा लगे तब नारायण प्रत्यक्ष देखेंगे । उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषीजी मुहूर्त देखिये । ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो हुकम, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है । वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी । राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा १० वर्ष का दीवान था उस को जाकर उस के परपोते ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब वृद्ध ने कहा कि वे घूर्त हैं तू मुझ को राजा के पास ले चल । वह ले गया । बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिबे महाराज ! ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिये बिना परीक्षा किये परचात्पाप होता है ! ( राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे ? ( दीवान ) झूठ बोलो वा सच बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे क-

ह सकते हैं ? ( राजा ) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) निष्ठा सखिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ( राजा ) जो पदा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? ( दीवान ) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । ( राजा ) जो विद्वान् न मिले तो ? ( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है ( राजा ) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? ( दीवान ) मैं बुढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ और अब षोड़े दिन जीउंगा मैं इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊँ तत्पश्चात् जैसा उचित समझे वैसा कीजियेगा । ( राजा ) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुहूर्त देखो ( ज्योतिषी ) जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्र पंचमी में १० बजे का मुहूर्त अच्छा है जब पञ्चमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुढ़े दीवान जी ने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये । ( राजा ) वहाँ सेना का क्या काम है ? ( दीवान ) आप की राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो, साढ़े नौ बजे सवारी कर के राजा सब को लेकर गया । उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक कटी थी उस को बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ, उस ने कहा अच्छा दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी उस ने पैना चकू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवान जी को नाक से रुधिर की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँस कर सब से कहिये कि मुझ को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा बड़ा उट्टा होगा, सब लोग हँसी करेंगे, वह इतना कह अलग हुआ और दीवानजी ने अगोछा हाथ में ले नाक की आड़े में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं ? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दिखता वृथा इस धूर्त ने सहस्रों को भ्रष्ट किया राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इन को पकड़ के कठिन दण्ड पैना चाहिये जब लों जीवें तब लों बन्दीखर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी बुढ़शा के साथ मारना चाहिये जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्हीं ने डरके भागने की तैयारी की

परन्तु जारों और फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियाँ डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गंध पर चढ़ा इस के कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोकरो से धूड़ राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुँचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करत न डरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककटे का संप्रदाय बंद हुआ । इसीप्रकार सब बेवबिरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की लीला है ये स्वामिनारायण मतवाले धनहरे ब्रह्म कपटयुक्त काम करते हैं कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जाने के लिये आये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रक्खी है मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रस्तते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसीप्रकार एक नारियल दिन में सहस्र वार बिकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बचते हैं जिस जाति का साधु हो उस से वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापिन हो उस से नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का, शूद्र से शूद्र आदि का काम लेते हैं अपने चलों पर एक कर ( टिकस ) बांध रक्खा है लाखों कोड़ों रुपये ठगके एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, आभूषणादि पहिनता है जहां कहीं पधरावनी होता है वहां गोकुलिये के समान गुसाई जी ब्रह्मजी आदि के नाम से भेंट पूजा लेते हैं अपने को "सत्संगी" और दूसरे मतवालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान् पुरुष क्यों न हो परन्तु उस का मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के साधु स्त्री जनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुओं की परस्त्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुबे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज संवह वैकुण्ठ में गये सहजानन्दजी आके लेगये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इन को न ले जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं हमने



अपनी आंख से सहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उस के बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि मैं कल रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा सुना है कि उस रात में जो उस के प्राण न बूटें और मूर्च्छित हो गया हो तो भी कुवे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दे तो झूठे पड़े इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाईं मरता है तब उन के चेले कहते हैं कि "गुसाईं" जी लीला विस्तार कर गये" जो इन गुसाईं स्वामी-नारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है "श्रीकृष्णः शरणं मम" इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हों ऐसा भी होसकता है। ये सब जितने मत हैं वे ऊटपटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की जानकारी नहीं है ॥

(प्रश्न) माध्व मत तो अच्छा है ? (उत्तर) जैसे अन्य मतवलम्बी हैं वैसा ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माध्व पाण्डित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। (महात्मा) तुम ने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सक्ता है इसलिये यह भी पूर्वा के सदृश है ॥

(प्रश्न) लिङ्गांकित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते और नारायण के बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिङ्गांकित लिङ्गांकित से दागे जाते और बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिङ्गांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं

जब पानी भी पीते हैं तब उस को दिखाके पीते हैं उन का भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता है ॥

### ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज ॥

( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? ( उत्तर ) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी बुरी हैं । ( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं । ( उत्तर ) नियम सर्वांग में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पाषाणदि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभाक्ति बहुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेटभर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भर पेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना अंगरेजों के सृष्टि में आजपर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ आर्य्यावर्त्तों लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक् नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "ईसा" "मूसा" "मुहम्मद" "नानक" और "चैतन्य" लिखे हैं किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आर्य्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्नजल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना, ब्राह्मसमाजी और प्रार्थनासमाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृतविद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर झटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४-अंगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा इन्होंने ने बड़ी संमत्ता होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी

बातों से सुधार तो कहाँ है उलटा बिगाड़ होता है । ५-( प्रश्न ) जातिभेद ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत ? ( उत्तर ) ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है । ( प्रश्न ) कौनसा ईश्वरकृत और कौनसा मनुष्यकृत ? ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियाँ परमेश्वरकृत हैं जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियाँ, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिभेद हैं ईश्वरकृत हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यकृतत्व उन के गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है । भोजनभेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णा भैंसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यकृत है । ( प्रश्न ) देखो यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी-लिधे अपनी बढ़ती करते जाते हैं । ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यवस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या मुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् होकर जिस किसी के पासगड में नहीं फंसते जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय ( आफिस ) और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं, इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियों को हुए और आज तक ये लोग मोटे कपड़े आदि पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया

इसी से तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान् ठहरते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उन की उन्नति है मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कर्मों से नहीं बड़े हैं और इन में जातिभेद भी है देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहै कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश अन्यमतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े । वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं विद्यावान् नीरोग और विद्यारहित अविद्यारोग से ग्रस्त रहता है उस रोग के झुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है उन को अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्मभ्रष्ट हो गया उस की बात न सुननी और न उसके पास बैठते न उस को अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुम ने सहस्रों का उपकार नारा करके अपना ही सुख किया सो यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है इसलिये विद्वान् को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस में उन की और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं । ( प्रश्न ) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वांग सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं होती इस से उन के बनाये ग्रन्थ सब भ्रान्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते

हैं चाहे सत्य वेद में, बाइबिल में वा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को प्राण्य है असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात से तुम त्यसमाही होना चाहते हो उसी बात से असत्यमाही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो जब भ्रान्तिसहित के वचन सर्वाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चौबे जी छुब्बेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुबे जी बन गये” कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिखा आये है वैसा तुम को अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो ब्रह्मस्ततो ब्रह्मः” होना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिन में असत्य कुछ भी नहीं तो उन के ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आर्यावर्त की उन्नतिके कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिन्नक ठहरे हो तुमने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकेंगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें जैसे ही आप लोगों की गति है भला वेदादि सत्यशास्त्रों को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्यावर्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की ओषधि तुम्हारे पास नहीं और युरोपियन् लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्तीय लोग तुम को अन्य मतियों के सदृश समझते हैं, अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगे तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की

इच्छा करते हो क्योंकि तुम को वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? ६-दूसरा जगत् के उ-  
पादान कारण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा  
ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्या-  
ख्या में देख लीजिये कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु  
का नाश न होना भी वैसा ही असम्भव है एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप  
और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत् में बहुत से पाप बढ़ ग-  
ये हैं क्योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और ती-  
र्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोबा:" करने से पाप का छूट  
जाना बिना भोग के मानते हैं इस से पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो-  
गई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थनासमार्जी भी पुरानी आदि के समान हैं जो वेदों  
को सुनाते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धर्म में  
सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । =-  
जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के  
गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है । ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है स-  
सीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट  
हो जाय, और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अ-  
नन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट  
जायगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है । ( प्रश्न ) हम  
स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि  
जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा  
समझ समझ सकते इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । ( उत्तर ) यह  
तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक  
नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह घट बढ़ सकता उससे  
उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तो  
भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का का-  
रण है । देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्तव्याऽकर्तव्य और धर्माऽधर्म कुछ भी ठीकर  
नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्तव्याऽकर्तव्य और धर्माऽधर्म को समझने

लगे इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं— १- जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इस का भी उचर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान् का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा रहेगा— और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि और अकृताभ्यागम नैर्गुण्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल विना शरीरधारण किये नहीं होता बसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकि होवे जो पूर्वजन्म के पापपुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल हो जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं। १०— और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता— ११— एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं। १२— ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं। १३— और विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असम्भव है। १४— और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? १५— और ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आर्यावर्त्त में बहुत से विद्वान् हो गये हैं उन की प्रशंसा न कर के युरोपियन् ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद के विना क्या कहा जाय ? १६— और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहाँ से आया और संयोग किन का हुआ जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना

यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा इसलिये जो उन्नति करना चाहें तो "आर्यसमाज" के साथ  
 मिलकर उस के उद्देशानुसार अभ्यन्तरीकरण करनी स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हद तक न समझें  
 क्योंकि हम और आप को अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर ब-  
 ना अब भी पालन होता है आगे होगा उस की उन्नति तब मन धन से सब जने मिल-  
 कर प्रीति से करें इसलिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है  
 वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है  
 क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं। ( प्रश्न ) आप  
 सब का खंडन करते ही आते हो परन्तु अपने धर्म में सब अच्छे हैं खंडन किसी का  
 न करना चाहिये जो करते हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो? जो बतलाते हो  
 तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था? और न है? ऐसा अभिमान करना आप को  
 उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं  
 किसी को धमंड करना उचित नहीं? ( उत्तर ) धर्म सब का एक होता है वा अनेक?  
 जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि वि-  
 रुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो कि अविरुद्ध  
 हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही  
 हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशकों को कोई राजा इकट्ठा करे तो  
 एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी  
 और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं कोई राजा  
 उन की सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे महाराज ! मैंने आज तक  
 कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म कि-  
 स का है ? जिस को मैं ग्रहण करूं। ( वाममार्गी ) हमारा है। ( जिज्ञासु ) ये नौ सौ  
 निन्द्यान्वेष कैसे हैं ? ( वाममार्गी ) सब झूठे और नरकगामी हैं क्योंकि "कौलात्परतरन्नास्ति"  
 इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है। ( जिज्ञासु ) आप का  
 क्या धर्म है ? ( वाममार्गी ) भगवती का मानना मद्य मांसादि, पंच मकारों का  
 सेवन और रुद्रयाचल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना, इत्यादि जो तू मुक्ति की इच्छा  
 करता है तो हमारा चेला हो जा। ( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी  
 दर्शन कर पूछ पाछ आज्ञा पश्चात् जिस में मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उस का



चेला हो जाऊंगा। ( वाममार्गी ) अरे क्यों भ्रान्ति में पड़ा है ! ये लोग तुम्हें को बहकाकर अपने जाल में फँसा देंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो- जा नहीं तो पछतावेगा। देख ! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं। ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो भाऊ आगे चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उस ने दिया इतना विशेष कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण और लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती। वह उस को छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया। ( जिज्ञासु ) कहो महाराज ! आप का धर्म क्या है ? ( वेदान्ती ) हम धर्माऽधर्म कुछ भी नहीं मानते हम साक्षात् ब्रह्म हैं हम में धर्माऽधर्म कहां है ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहै तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा। ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? ( वेदान्ती ) तुम्हें को शरीर दीखते हैं इसी से तू भ्रान्त है हम को कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के। ( जिज्ञासु ) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है ( जिज्ञासु ) क्या दो ब्रह्म हैं ? ( वेदान्ती ) नहीं अपने आप को देखता है। ( जिज्ञासु ) क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है ( उसने आगे चल कर जैनियों के पास जाके पूछा उन्होंने ने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के विना सब धर्म खोटा जगत् का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं )। आगे चलके ईसाई से पूछा उस ने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किसे इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं कूटता विना ईसा पर विश्वास के प- वित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा”। जिज्ञासु सुनकर मौलवी सा हब के पास गया उन से भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा “लाशरीक खुदा उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता, जो इस मज़हब को नहीं मानता वह दोज़खी और काफ़िर है वाजिबुलकल्ल है”। जिज्ञासु

मुनकर बैष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि "हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है,, । जिज्ञामु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गए क्यों डरेंगे ! फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते मुना सहस्रों से पूछ उन के परस्पर एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की भूठ में नौ सौ निन्न्यानवे गवाह हो गये जैसे भूठ दुकानदार वा बेरया और भडुआ आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जानः—

**तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । समित्पाणिः श्रोत्रियं  
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय  
शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तस्त्वतो  
ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ मुण्डक १ । खं० २ । मं० १२। १३ ॥**

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिक्त हस्त होकर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पास्त्रिडियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञामु विद्वान् के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त जिज्ञामु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से बंध ओता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा किया करे ॥ २ ॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संभवार्थों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्योंकि जो मैं इन में से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौ सौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिस के नौ सौ निन्न्यानवे शत्रु और एक मित्र है उस को मुझ कभी नहीं हो सकता इसलिये आप मुझ को उद्देश्य कीजिये जिस को मैं ग्रहण करूं । ( आसविद्वान् ) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में फँसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे बिचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहस्र एकमत हैं वह वेद-विद्या ही है और जिस में परस्पर विरोध हो वह कल्पित, भूठा, अधर्म, अग्राह्य है ।

( जिज्ञासु ) इस की परीक्षा कैसे हो ? ( आप्त ) तु जाकर इनर बातों को पूछ सबकी एक सम्मति हो जायगी, तब वह उन सहस्रों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? (सब एकस्वर होकर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है । वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म और अविद्याग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एकमत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो) ? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे ? हमारे चले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये शकर से और बुनियां ठगिये मकर से" ऐसी बात है देखो ! संसार में मूढे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है । ( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुम को राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? (मतवाले) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है हम ने पक्का प्रबंध किया है छूटेगा नहीं । (जिज्ञासु) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पड़ोगे थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? ( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? ( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दण्ड मिलता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि: —

**अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु०अ०२१श्लो०५**  
जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और कहाता है जो बुद्धिमान् विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता ॥

अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उन को ठगने में तुम को राजदण्ड अवश्य हीना चाहिये । ( मतवाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन देनेवाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विवाभ्यात कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ावो ३ तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय । ( मतवाले ) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें बाल्यावस्था से युवावस्थापर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात् पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हम को क्या प्रयोजन ? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस को क्यों छोड़ें ? ( जिज्ञासु ) इस का परिणाम तो बुरा है देखो ! तुम को बड़े रोग होते हैं शीघ्र मर जाते हो बुद्धिमानों में निन्दित होते हो फिर भी क्यों नहीं समझते ? ( मतवाले ) अरे भाई !

टका धर्मश्रुका कर्म टका हि परमं पदम् ।

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्तं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि शुण्वत्तमम् ॥ २ ॥

तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और जैसे कौडीरूप अंग कलायुक्त जो रुपैया है वही साक्षात् भगवान् है इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ ( जिज्ञासु ) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुमने जितना यह पास्त्रण्ड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत् का नारा होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही असत्योपदेश से हानि होती है । जब तुम को धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? ( मतवाले ) उस में परिश्रम अधिक और हानि

भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है। देखो ! तुलसीदल डालके चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूँड़ने से जन्म भर को पशुवत् हो जाता है फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता है। ( जिज्ञासु ) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं। ( मतवाले ) धर्म रत्न और मुक्ति के अर्थ। ( जिज्ञासु ) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवालों को क्या मिलेगा ? ( मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। ( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? ( मतवाले ) हम भजन करा करते हैं इस का मुख हमको मिलेगा। ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। ( मतवाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? ( जिज्ञासु ) भीतर के बड़े मैले हो। ( मतवाले ) तुम ने कैसे जाना ? ( जिज्ञासु ) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से। ( मतवाले ) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मैले हो। ( मतवाले ) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। ( मतवाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव भिन्न २ हैं। ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मात्मा न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मात्मा अधिक होते हैं तब दुःख जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो। ( मतवाले ) आज कल कलियुग है सत्ययुग की बात मत चाहो। ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काल का है काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूर्तियां बन

रहे हो जो मनुष्य ही स्वामनुष्य कल्पियुक्त न हों उसे कोई भी संसार में भ्रमर्याणा नहीं होता ये सब संग के गुण दोष हैं स्वामाविक नहीं इतना कह कर आस के पास गया उन से कहा कि महाराज ! तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फँस कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता अब मैं भी इन पास्विडियों का खंडन और वेदोक्त सत्यमत का मंडन किया करूंगा । ( आस ) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पत्र सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये ।

( प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और भूट भूट घटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि में फँसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निर्बलक हैं और जो जैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की ज्ञप्ति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्याऽभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी इधर उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट सा पी कर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फँसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते कापाय बल और दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते जैसे संन्यासी भी जगत् में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत् का हित साधते हैं वे ठीक हैं । ( प्रश्न ) गिरि, पुरी, भारती आदि मुसाई लोग तो अच्छे हैं! क्योंकि मंडली बांध कर इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे । ( उत्तर ) ये सब दस नाम पीड़े से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उन की मण्डलियां केवल भोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है सब ब्राह्मण और साधु सड़े होकर हाथ में पुष्प ले:—

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च समुच्चरन्तरं च ।

व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तम् ॥

इत्यादि श्लोक पदके हर हर बोल उन के ऊपर पुष्प बरसा कर साष्टांग नमस्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना भी कठिन है यह दुग्ध संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत् में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुल्लास में लिख आये हैं उस को न कर के व्यर्थ समय खोते हैं । जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हैं बहुधा ये लोग भस्म, रुद्राक्ष धारण करते और कोई २ शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात् शंकराचार्योक्त का स्थापन और चक्रांकित आदि के खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति और यावत्याखंड मार्ग हैं तावत् के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मखंडन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इन का नाश होता जाता है तो भी इन की आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कुछ उन के मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकेषणा ) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तैषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग ( पुत्रैषणा ) पुत्रवत् शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है जब एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता है ? अर्थात् पक्षपात रहित वेदमार्गोपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियों का मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संयासादि नाम धराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उन से अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सब आश्रम उन्नति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता ?

बने तो तब जब तुम करना चाहो ! जब लो वर्तमान और भविष्यत् में उन्नतिशील नहीं होती तब लो आर्यावर्त और अन्यदेशस्थ मनुष्यों की बुद्धि नहीं होती जब बुद्धि के कारण, वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के यथावत् अनुष्ठान संन्योषदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है । चेत रक्खो ! बहुत सी पालगड की बातें तुम को सचमुच दीख पड़ती हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उस के पास बहुत खी जाती हैं और हाथ जोड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबा जी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है उन में से जिस जिस के पुत्र होता है वह २ समझती है कि बाबाजी के बचन से हुआ जब उस से कोई पूछे कि मुझरी, कुत्ती, गनी और कुकुटी आदि के कबे बके किस बाबाजी के बचन से होते हैं ! तब कुञ्ज भी उतर न दे सकेगी । जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूँ तो आप ही क्यों मर जाता है ! कितने ही पूर्व लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान् भी धोखा खा जाते हैं जैसे धनसारी के ठग, ये लोग पांच सात मिलके दूर देश में जाते हैं जो शरीर से ढौलडाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उस के समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठाते हैं उस के साधक नगर में जाके अज्ञान बनके जिस किसी को पूछते हैं कि तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा मुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता है वह हो जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घरदार छोड़कर देखते फिरते हैं मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं, गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे इसीप्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कह कर रात्रिको इकट्ठे सिद्ध साधक खाते पीते और सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जाके उसीप्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये तुम को दर्शन हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोगनिवारण की और कोई शत्रु के जीतने की, उन को वे साधक ले जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सोचत किया होता है अर्थात् जिस को धन की इच्छा हो उस को दाहनी और, जिस को पुत्र की इच्छा



हो उस को सन्मुख, जिस को रोगनिवारण की इच्छा हो उस को बाईं ओर और बिछ को शत्रु जीतने की इच्छा हो उस को पीछे से ले जा के सामनेवालों के बीच में बैठ लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धि की भरपूर उच्चारण से बोलता है "क्या यहां हमारे पास पुत्र रखे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है ?" इसी प्रकार धन की इच्छावाले से "क्या यहां बैलियां रखी हैं जो धन की इच्छा करके आया ? फकीरों के पास धन कहाँ धरा है?" रोगवाले से "क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावे जा किसी वैद्य के पास परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। उस को देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से कहते हैं देखो ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं ? गृहस्थ कहते हैं हाँ जैसा तुम ने कहा था वैसे ही हैं तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा आभ्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहनेवाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो अपने २ सामर्थ्य के अनुकूल इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि "सेवा से मेघ मिलती है" जो किसी पर प्रसन्न हो गये तो जानें क्या नर दे दें "सन्तों की गति अपार है" गृहस्थ ऐसे लल्लो पत्ते की बातें सुनकर बड़े हर्ष से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पाखंड स्वप्न न देवे उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसीप्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त कह देते हैं जब नगर नगर में इल्ला मचत्त है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं चलो उन के पास। जब मेलों का मेला जाकर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का वृत्तान्त कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मीन साध जाता है और कहता है कि हम को बहुत भक्त सत्ताओ तब तो भक्त उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत सत्ताओ तो चले जायेंगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को अंगल

कुलके पूजता है कि हमारे मन की शक्त कहलाये तो हम सब मानें। साधक जो पूजा कि क्या बात है? धर्मात्म ने उस से कह दी तब उस को उसी प्रकार के संकेत से ले जके नेत्रों देता है उस सिद्ध ने समझ के भट्ट कह दिया तब तो सब मेलामर ने मुन ली कि अहो! बड़े ही सिद्ध गुरुव हैं कोई मिठई, कोई पैसा, कोई रूपका, कोई अशुभाई, कोई कपड़ा और कोई लीधा सामग्री भेंट करता फिर जबतक मानता बहुत ली रही तब तक यथेष्ट खूट करते हैं और किन्हीं २ दो एक आंस के अंधे घांठ के पूरों को पुत्र होने का आशीर्वाद का राख उठाके दे देता है और उस से सहस्र रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सभी शक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इसप्रकार के बहुत से ठम होते हैं जिन की विद्वान् ही परीक्षा कर सके हैं और कोई नहीं इस लिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिस से कोई उस को ठगई में न फँसा सके औरों को भी बचा सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वेही मनुष्य और विद्वान् होते हैं जिन को कुसङ्ग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख पाते हैं इसीलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है ॥

न वेत्ति यो यद्य गुणप्रकर्षं स तद्य निन्दां सततं करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्ति मुञ्जाः ॥

वृ० चा० अ० ११ । श्लोक० १२ ॥

जो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली भाल गजमुक्ताओं को छोड़ मुञ्जा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, गुरुवर्धी, जितेन्द्रिय, मुशील होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है। वह आर्या-वर्तनिवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा इस के आगे जो छोड़ता आर्य राजाओं का इतिहास मिला है इस को सब सज्जनों को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है।

अब आर्यावर्तदेशीय राजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज “युधिष्ठिर” से लेके महाराज “यशपाल” पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज “स्वायम्भव मनु” से ले के महाराज “युधिष्ठिर” पर्यन्त का इतिहास महा भारतादि में

लिखा ही है और इस से सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विहित होमा  
इसमें यह विषय विद्यार्थिसंमिलित "हरिश्चन्द्रचन्द्रिका" और "मोहनचन्द्रिका" को कि  
प्राक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था ( जोसज्जुतावा देय मेवञ्च राज उदयपुर चितौ-  
इयकमें सब को विदित है ) उस से हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे ही इधारे आर्थ-  
सज्जन लोग इतिहास और विद्यापुस्तकों का खोज कर मकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही  
लाभ पहुंचेगा। उस पत्र के संपादक महाराज ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक को  
कि विक्रम के संवत् १७०२ ( सत्रह सौ बयासी ) का लिखा हुआ था उस से महण  
कर अपने संवत् १९३९ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष १९-२० किरण अर्थात् दो प्राक्षिक पत्रों  
में छपा है सो निम्न लिखे प्रमाणे जानिये ।

### आर्यावर्तदेशीयराजवंशावली ।

हन्द्रप्रस्थ में आर्यलोगों ने श्रीमन्महाराज " यशपाल " पर्यन्त राज्य किया जिन में  
श्रीमन्महाराज "युधिष्ठिर" से महाराज "यशपाल" तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४  
( एक सौ चौबीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास ९ दिन १४ समय में हुए हैं इन का  
व्यौरा:—

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	४१५७	९	१४	७ चित्ररथ	७५	३	१०
श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनु- मान पीढ़ी ३० वर्ष १७७० मास ११ दिन					८ दुष्टशैल्य	७५	१०	२४
१० इन का विस्तार:—					९ राजा उग्रसेन	७०	७	२१
आर्यराजा वर्ष मास दिन					१० राजा शूरसेन	७०	७	२१
१ राजा युधिष्ठिर	३६	=	=	२५	११ भुवनपाति	६९	५	५
२ राजा परीक्षित	६०	=	=	=	१२ रणजीत	६५	१०	४
३ राजा जनमेजय	=४	=	=	२३	१३ अक्षक	६४	७	४
४ राजा अश्वमेध	=२	=	=	२२	१४ सुखदेव	६२	=	२४
५ द्वितीयराम	=८	=	=	२	१५ नरहरिदेव	५९	१०	२
६ कुत्रमल	=१	=	=	२७	१६ सुभिरथ	४२	११	२
					१७ शूरसेन (दूसरा)	५८	१०	=
					१८ पर्यन्तसेव	५५	=	१०

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१६ मेधावी	५२	१०	१०
२० सोनपीर	५०	=	२१
२१ भीमदेव	४७	६	२०
२२ नृहरिदेव	४६	११	२३
२३ पूर्णमल	४४	=	७
२४ करदबी	४४	१०	=
२६ अलंमिक	५०	११	=
२६ उदयपाल	३८	६	०
२७ दुवनमल	४०	१०	२६
२८ दमात	३२	०	०
२८ भीमपाल	५८	५	=
३० क्षेमक	४८	११	२१

राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया पीढ़ी १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७ इन का विस्तार:—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ विश्रवा	१७	३	२६
२ पुरसेनी	४२	=	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनङ्गशायी	४७	=	२३
५ हरिजित्	३५	६	१७
६ परमसेनी	४४	२	२३
७ मुखपाताल	३०	२	२१
= कद्रुत	४२	६	२४
८ सज्ज	३२	२	१४
१० अमरचूड	२७	३	१६

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
११ अमीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	५२
१३ वीरसाल	३१	=	११
१४ वीरसालसेन	४७	०	१४

राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने मारकर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५ मास ५ दिन ३ इन का विस्तार:—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजवीरमहा	३५	१०	=
२ अजितसिंह	२७	७	१६
३ सर्वदत्त	२८	३	१०
४ भवनपति	१५	४	१०
५ वीरसेन	२१	२	१३
६ महीपाल	४०	=	७
७ शत्रुशाल	२६	४	३
= संघराज	१७	२	१०
८ तेजपाल	२८	११	१०
१० माणिकचन्द्र	३७	७	२१
११ कामसेनी	४२	५	१०
१२ शत्रुमर्दन	=	११	१३
१३ जीवनलोक	२८	६	१७
१४ हरिराव	२६	१०	२६
१५ वीरसेन (दूसरा)	३५	२	२०
१६ आदित्यकेतु	२३	११	१३

राजा आदित्यकेतु मगध देश के राजा को "धन्वर" नामक राजा प्रयाग के ने

मारकर राज्य किया पीढ़ी २ वर्ष  
३७४ मास ११ दिन २६ इन का

विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा धंधर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	३	२६
३ सनरक्षी	५०	१०	१६
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरवाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ रुद्रसेन	४७	४	२८
८ आरीलक	५२	१०	८
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को सामन्त महानपाल ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १४ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है।

राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने "अवन्तिका" ( उज्जैन ) से चढ़ाई करके राजा महानपाल को मारके राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १३ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७ इन का विस्तारः—

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ समुद्रपाल	५४	९	२०
२ चन्द्रपाल	१९	५	४
३ सहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८
५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
९ अश्रुतपाल	३६	१०	१३
१० बलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल *	११	१०	१३
१४ मदनपाल	१७	१०	१६
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा का राजा ( मलुखचन्द बोहरा था ) उस पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी १० वर्ष १६१ मास १ दिन १६ इन का विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ मलुखचन्द	५४	२	१०

\*किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है।

क्र.	नाम	वर्ष	मास	दिन	क्र.	नाम	वर्ष	मास	दिन
२	विक्रमचन्द	१२	७	१२	१	आर्ष्यराजा	१२	५	२१
३	अमीनचन्द*	१०	०	५	२	राजा आधीसेन	१२	४	२१
४	रामचन्द	१३	११	८	३	विलावलसेन	१२	४	२
५	हरीचन्द	१४	६	२४	४	केशवसेन	१५	७	१२
६	कल्याणचन्द	१०	५	४	५	मोधसेन	१२	४	२
७	भीमचन्द	१६	२	२	६	मयूरसेन	२०	११	२०
८	लोवचन्द	२६	३	२२	७	भीमसेन	५	१०	६
९	गोविन्दचन्द	३१	७	१२	८	कल्याणसेन	४	८	२१
१०	रानी पद्मावती†	१	०	०	९	हरीसेन	१२	०	२५

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र भी कोई नहीं था इसलिये सब मुत्सदियों ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढ़ी ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तारः—

क्र.	नाम	वर्ष	मास	दिन
१	हरिप्रेम	७	५	१६
२	गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३	गोपालप्रेम	१५	७	२८
४	महाबाहु	६	८	२६

राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन में तपश्चर्या करने गये यह बंगाल के राजा आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इन का विस्तारः—

\*इन का नाम कहीं मानकचन्द भी लिखा है।  
†यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी।

राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इसलिये राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना मिलाके राजा के साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को मारकर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इन का विस्तारः—

क्र.	नाम	वर्ष	मास	दिन
१	दीपसिंह	१७	१	२६
२	राजसिंह	१४	५	०
३	रणसिंह	६	८	११
४	नरसिंह	४५	०	१५
५	हरिसिंह	१३	२	२६
६	जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चौहान वैराट के राजा मुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और लड़ाई में जीवनसिंह को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया\* पीढ़ी ५ वर्ष ८६ मास ० दिन २० इन का विस्तारः—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ पृथ्वीराज	१२	२	१६
२ अभयपाल	१४	५	१७
३ दुर्जनपाल	११	४	१४
४ उदयपाल	११	७	३
५ यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर मुलतान शहाबुद्दीन गोरी गढ़ गजनी से चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में संवत् १२४६ साल में पकड़ कर कैद किया पश्चात् इन्द्रप्रस्थ अर्थात् दिल्ली का राज्य आप ( मुलतानशहाबुद्दीन ) करने लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है इसलिये यहां नहीं लिखा ॥ इस के आगे बौद्ध जैन मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिर्निर्मिते सत्यार्थप्रकाशे  
सुभाषाविभूषिते आर्यावर्तीयमतखण्डनमण्डनेः  
विषय एकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

\* इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर मुलतान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई बार हारकर लौट गया अंत में संवत् १२४६ में आपस की फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को ले गया पश्चात् दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का राज्य आप करने लगा—मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ वर्ष ६१३ रहा ।

## अनुभूमिका ( २ ) ॥

जब आर्य्यावर्षेस्य मनुष्यों में सत्याऽसत्य का यथावत् निर्णय करानेवाली वेदविद्या छूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर खडे हुए/यही जैन आदि के विद्याविरुद्ध मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रंथों में वाल्मीकीय और भारत में कथित 'राम कृष्णादि' की गाथा बड़े विस्तार पूर्वक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि ग्रंथों में उन की कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन ग्रंथों के पीछे चला है) कोई कहे कि जैनियों के ग्रंथों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे ग्रंथों में क्यों है ? क्या पिता के जन्मका दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं) इस से यही सिद्ध होता है कि जैनबौद्ध मत शैव शा-कादि मतों के पीछे चला है) अब इस १२ वाहस्ये समुल्लास में जो २ जैनियों के मत-विषय में लिखा गया है सो २ उन के ग्रंथों के पते पूर्वक लिखा है/इस में जैनी लो-गों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा है वह केवल सत्याऽसत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ) (इस लेख को जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याऽसत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता) जब विद्वान् लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्ध-कार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है) यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो) और यह बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मतवालों को अप्रवृत्त लाभ और बोध करानेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मतवाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं



देते) बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्य्यसमाज मुम्बई के मन्त्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास" के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा कारीस्थ "जैनप्रभाकर" यन्त्रालय में छपने और मुम्बई में "प्रकरणरत्नाकर" ग्रन्थ छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। (मला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना)। इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मतवाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हो (परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्युक्त रहते हैं)। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के परचात् दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सन्मुख भरता हूँ जैसा है वैसा विचारें।

किमाधिकलेखेन बुद्धिमद्वय्येषु ॥

## अथ द्वादशसमुल्लासारम्भः

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाक-बौद्ध-जैन-मतख-  
गडनमगडनविषयान् व्याख्यास्यामः ॥

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था। देखिये ! उस का मत :-

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है इसलिये जबतक शरीर में जीव रहै तबतक सुख से रहै जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे ! उस को "चारवाक" उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म हो जाता है कि जिस ने स्वाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा इसलिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य्य को बढ़ाओ और उस से इच्छित भोग करो यही लोक समझो पर-लोक कुछ नहीं। देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिष्कार से यह शरीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि

प्रमाणाभावात् ॥

इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के

साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि भरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने से उन का ग्रहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के आसिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है । ( उच्चर ) (के पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती) जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती)। मद के सामान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं) पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये)। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता)। यही बात बृहदारण्यक में कही है:-

**एतत्पथ- नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छिन्निधर्मायमात्मेति ॥**

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! मैं मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिस के संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से पृथक् है जैसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है । जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता जैसे बिना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य, अवयवी के बिना अवयव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ) । जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिकमुख और उस से दुःख भी होता है वही भी पुरुषार्थ ही का फल होगा)। जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के लुढ़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं । ( चारवाक ) जो दुःखसंयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे भूर्ख हैं जैसे

धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और दुःख का त्याग करता है जैसे संसार में बुद्धिमान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं जो परलोक है ही नहीं तो उस की आशा करना मूर्खता का काम है। (क्योंकि) —

**अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्डनम् ।**

**बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥**

चारवाक्यमतप्रचारक 'बृहस्पति' कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दंड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है। किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और वेद का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है। ( उत्तर ) विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषयदुःखनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है। जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है। (यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं)। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उस को भी परमेश्वरवत् मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। ( चारवाक ) :—

**अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।**

**केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥**

**न शर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।**

**नैव चर्चाभ्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥**

**पशुर्नैव सिद्धतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।**

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥  
 मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेतृत्तिकारणम् ।  
 गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥  
 स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।  
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥  
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृष्टं कृत्वा घृतं पिबेत् ।  
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुरागमनं कुतः ॥ ६ ॥  
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेशं विनिर्गतः ।  
 कस्माद्भूयो न आयाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥  
 ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्वह ।  
 मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥ ८ ॥  
 वयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः ।  
 जर्फरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥  
 अश्वस्यात्र हि शिश्रन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् ।  
 भण्डैस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥  
 मांसानां खादनं तद्वन्नशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

चारवाक, आभारणक, बौद्ध और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण है उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत् का कर्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तृत्तिकारक होता है

तो परदेश में जानेवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जानेवालों के लिये उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुंचा दें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुंच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जबतक जीवे तत्रतक मुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हों तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किस से कौन मागेगा ? और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपयय किया है जो दशमात्रादि मृतक क्रिया करते हैं यह सब उन की जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेहारे भांड, धूर्त और निशाचर अर्थात् राक्षस ये तीन "जर्फरी" "तुर्फरी" इत्यादि पंडितों के धूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो ! धूर्तों की रचना घोड़े के लिंग को स्त्री ग्रहण करे उस के साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठट्टा आदि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो सक्ता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥

( उचर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सक्ते । जो स्वभाव से ही होते हों तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं ? ॥ १ ॥ स्वर्ग मुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है जो जीवात्मा न होता तो मुख दुःख का भोक्ता कौन हो सके ? जैसे इस समय मुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी बर्णाश्रमियों की निष्फल होंगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ पशु मारके होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और धूर्तों का श्राद्ध तर्पण करना कपोलकल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसलिये इस बात का स्मरण अवश्यवर्नीय है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उक्त का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सक्ता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं,

जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुःस्वरूपी नरक भोगते हैं इस में कुछ भी संदेह नहीं ॥ ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उस को पूर्व जन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ७ ॥ (हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खंडनीय है) ॥ ८ ॥ (अब कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांड धूस और निशाचरवत् पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते हां भांड धूस निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं उन की धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चा.वाक, आभाषक, बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चारवेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसीलिये नष्ट अष्ट बुद्धि होकर) ऊट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण शून्य कपोल कल्पित अष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविचाररूपी अगाध समुद्र में जा गिरे) ॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये कि जी से अश्व के लिङ्ग का ग्रहण करके उस से समागम कराना और यज्ञमान की कन्या से हांसी उद्धा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इन महापापी वाममार्गीयों के अष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि बिना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें बिचारे उन में इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्याऽसत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन करते ॥ १० ॥ (और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी निन्दा की है निःसंदेह उन को लगेगा (सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविचाररूपी अन्धकार में पड़ के सुख के बदले दारुण दुःख जितना पावें उतना ही न्यून है) । इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलन समुचित है ॥ ११ ॥ जो वाममार्गीयों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध

करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि कुछ कार्यों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को फलक लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे (और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनिश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया)। जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो भूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें बिचारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जब नष्ट अष्ट होने का समय आता है मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है)।

अब जो चारव कादिकों में भेद है सो लिखते हैं । ये चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता । चारवाक शब्द का अर्थ “जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतरिडक होता है” । और बौद्ध, जैन प्रत्यक्ष विचारों प्रमाण अनन्दि जीव पुनर्जन्म परलोक और भुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु (नास्तिकता, येद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष छः यतना ( आगे कहे छः कर्म ) और जगत् का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं)। यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया ॥

अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं:—

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनान् ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इस के विना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है, बौद्ध चार प्रकार के हैं:—

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रांतिक” और चौथा “वैभाषिक”

“बुद्ध्या निर्बन्धते स बौद्धः”, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इन में से पहिला “माध्यमिक”, सर्व शून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात्



आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था पश्चात् के पश्चात् नहीं रहता और घट ज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है। दूसरा "योगाचार" जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है। तीसरा "सौत्रान्तिक" जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है। चौथा "वैभाषिक" है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे "अयं नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता है। यद्यपि इन का आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में चार पुरुष परस्त्रीगमन और विद्वान् सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में "माध्यमिक" सब को क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा "योगाचार" जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा "सौत्रान्तिक" सब पदार्थ अपने अपने लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़ों के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे सत्त्व लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है। चौथा "वैभाषिक" शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सब को शून्य मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब न शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां है इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है।

सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटकदेशः,, यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है “ यह घट है,, यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है जैसे जो क्षणिक पदार्थ और उस का ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा,, अर्थात् मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं, जो स्वलक्षण ही माने तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसीप्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है ।

**सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकरसंमतम् ॥**

( जिन को बौद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं ) इसीलिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :-

**रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥**

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह “रूपस्कंध” ( दूसरा ) आलसविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “विज्ञानस्कंध” ( तीसरा ) रूपस्कंध और विज्ञानस्कंध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीतिरूप व्यवहार को “वेदनास्कंध”

( चौथा ) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को 'संज्ञास्कन्ध' ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध से राग द्वेषादि क्लेश और लुप्ता तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को "संस्कारस्कन्ध" मानते हैं । सब संसार में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ।

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभिः क्लिप्ताः १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणा ।

भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताद्वयलक्षणाः ॥ २ ॥

अर्थानुपाज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

अर्थात् जो ज्ञानी, विरक्त, जीवन्मुक्त, लोकों के नाथ बुद्धआदि तीर्थकरों के पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त हो के द्वादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह है:—पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और नासिका, पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि, इन ही का सत्कार अर्थात् इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी

चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष देखती है इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इस में मुख दुःख दोनों हैं । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त होकर मुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव मुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है । संसार में धर्म क्रिया विद्या सत्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब मुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कन्ध विचारने लगें तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता । अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में बिना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्सङ्ग किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सन्निपातरोगग्रस्त मनुष्य के बड़ाने के समान है । जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता हां सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाता है इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी है । जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उन से यह बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहाँ रही जहाँ ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इन के बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन को वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी, क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देनेहारी हो सके तो भला कभी आंस मीचके कोई रत्न ढूँढा चाहै वा ढूँढे कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इन की लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई

अब भी मुक्त चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । विवेक-विलास ग्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है:—

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् ।  
 आर्य्यसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥  
 दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।  
 मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥  
 दुःखसंसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः ।  
 विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥  
 पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम् ।  
 धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥  
 रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति वृक्षां हृदि ।  
 आत्मात्मयिस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥  
 क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ।  
 स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥  
 प्रत्यक्षानुमानं च प्रमाणं त्रितयं तथा ।  
 चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥  
 अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ।  
 सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः ॥ ८ ॥  
 आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता ।  
 केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥  
 रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसंभवा ।  
 चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥  
 कृत्तिः कमण्डलुर्मौण्यं चीरं पूर्वाह्णभोजनम् ।

संघो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिगे बौद्धभिधुमिः ॥ ११ ॥

बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष और आर्य्यों की तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् उत्पत्ति होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पंच स्कंध पूर्व कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा २ के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है । और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नारा से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १० ॥ सुगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मुण्ड मुण्डाये, वत्कल वस्त्र, पूर्वाह्न अर्थात् ९ बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहै, रक्त वस्त्र का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उस का गुरु कौन था ? और जो विश्व क्षणभंग हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का वह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इन का मोक्ष भी क्षणभङ्ग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकारा से सहित बुद्धि होवे तबे दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान ही माना जाय तो

ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्धमतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान् विचारशील पुरुष अबलोकन करके जान जायेंगे कि इन की कैसी विद्या और कैसा मत है। इस को जैन लोग भी मानते हैं ॥

यहां से आगे जैनमत का वर्णन है -

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं:—

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १ ) आकाश, ( २ ) काल, ( ३ ) जीव, ( ४ ) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं। इन में काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपघार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उन में से “धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इस की गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह अधर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा “आकाशास्तिकाय” उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है चौथा “पुद्गलास्तिकाय” यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गन्ध, स्पर्श कार्थ्य का लिङ्ग पूरने और गलने के स्वभाववाला होता है। पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्त्ता भोक्ता है। और छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वर्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहता है ( समीक्षक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन नवीन माने हैं वे झूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराणे कभी नहीं होसके क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से अविनारी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माधर्म द्रव्य नहीं किन्तु

मुख्य हैं वे दोनों जीवस्तिकाव में आजाते हैं इसलिये आकार, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैरोधिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पंच तत्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है।

जब जो सौद्ध और जैनी लोच समझकी और स्याद्वाव मानते हैं सो यह है कि "सन् घटः" इस को प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात् घड़ा है इस में अभाव का विरोध किया है। दूसरा भंग "असन् घटः" घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है। तीसरा भंग यह है कि "सन्नसन्न घटः" अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक् हो गया। चौथा भंग "घटोऽघटः" जैसे "अघटः पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाना है युगपत् उस की दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है। पांचवां भंग यह है कि घट का पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है। और सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार :-

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो  
द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥  
स्यादस्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यात् अस्ति  
अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो  
जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो  
जीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

अर्थात्—है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग। जब जीव शरीरधारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से



पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्भंग कहते हैं। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को पंचम भंग कहते हैं। जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चक्षुःप्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को छःठा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता है ॥

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहाता है। (समीक्षक) (यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फँसाने के लिये होता है)। देखो! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इन का सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है? (इस में बौद्ध और जैनों का एक मत है। थोड़ा सा ही पृथक् २ होने से भिन्नभाव भी हो जाता है)।

(अब इस के आगे केवल जैनमतविषय में लिखा जाता है:-)

चिदचिद्वे परे तत्त्वे विवेकस्ताद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तुरागादि तत् कार्यमाचिवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरूपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग "चित्" और "अचित्" अर्थात् चेतन और जड़ दो ही परतत्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २

त्याग करने वाला है उसर के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ अमर का कर्षा और अमासि तथा ईश्वर ने ज्ञयत् किया है इस अविषेकी मत का त्याग और यो-  
म से लक्षित परमन्मोतिस्वरूप को जीव है उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अ-  
र्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते कोई भी अनन्दि सिद्ध ई-  
श्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं / इस में राजा शिवप्रसाद जी "इतिहासतिमि-  
रनाशक" ग्रन्थ में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये प-  
र्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उन के साथ जैनियों  
का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उन का नाम बौद्धों ने बुद्ध र-  
क्खा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन  
राजा शिवप्रसाद जी ने अपने "इतिहासतिमिरनाशक" ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में लिखा  
है कि "स्वामी शंकराचार्य" से पहिले जिन को हुए कुल हजार वर्ष के लग भग गुजरे  
हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था इस पर नोट:- "बौद्ध कहने से  
हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकर-  
स्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और  
संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। (जिन जिस  
से जैन निकला और बुद्ध जिस से बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं) कोश में दोनों  
का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वना दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध  
ग्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है पर उस के  
समय में एक ही उन का मत रहा होगा हम ने जो जैन न लिख कर गौतम के मत  
वालों को बौद्ध लिखा उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देश वा-  
लों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है" ॥ ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है :-

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ १ ॥

षडभिज्ञो दशबलोऽध्यवादी विनायकः ।

मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ।

स शाक्यसिंहः सर्वार्यः सिद्धशौद्धोदनिश्च सः ।

गौतमश्चार्कवन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश का० १ । वर्ग १ । श्लोक ८ से १० तक ॥

(अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या "अमरसिंह" भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल-गया है ? जो अविद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठ मात्र से बर्दाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन" पर्यायवाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं)। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो-जाता है वे जो अपने तीर्थकरों ही को केवली मुक्तिप्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्, केवली, तीर्थकृत, जिन, ये छः चास्ति-कों के देवताओं के नाम हैं) आदिदेव का स्वरूप चन्द्रमूरि ने "आप्तनिश्चयालंकार" ग्रन्थ में लिखा है)।—

**सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।**

**यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥ १ ॥**

वैसे ही "तौतातितों" ने भी लिखा है कि :-

**सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।**

**दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत् ॥ २ ॥**

**न चागमविधिः काश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः ।**

**न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥**

**न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते ।**

**न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥**

जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत् पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो अगम अर्थात् नित्य

अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति विन्दा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्णन और पु-  
 ग्गकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान  
 अर्थात् बहुवीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो स-  
 कता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥  
 ( इस का प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन ) जो अनादि ईश्वर न होता तो "अर्हन्" देव के  
 माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ? विना संयोगकर्त्ता के यथायोग्य,  
 सर्वाऽवयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन  
 पदार्थों से शरीर बना है उन के जड़ होने से स्वयं इसप्रकार की उत्तम रचना से युक्त  
 शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और (जो  
 रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात् दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता)  
 क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने  
 से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी (जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक  
 और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता) क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण  
 कर्म स्वभाववाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता  
 इसलिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष प-  
 दार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द  
 का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण,  
 विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैसे बिना पड़े विद्या  
 के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा  
 भी नहीं देख पड़ता जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जानके गुणों से अव्यवहित  
 सम्बन्ध से पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग दे-  
 ख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उ-  
 त्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता  
 है (अनुमान के होने में क्या संदेह तो सकता है) ॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान  
 के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है इसलिये  
 शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है) जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है तब

अर्धवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि (जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं) उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेगे पश्चात् उस का अनुवाद करना भी सरल है ॥ ४ ॥

इस से जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥

( प्रश्न ) :—

अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कृत्रिमेख त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ।

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥

सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता ।

कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तरादृते ॥ ३ ॥

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य वचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥ १ ॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३ ॥ ( उत्तर )

हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वरस्थीति वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥ १ । २ । ३ ॥ और तुम तीर्थंकरों

को परमेश्वर भवते हो वह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उन का शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्या, ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि बिना चिन्ता के संयोग ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो देलो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुपुंसि दशा में जाता है तब उस को कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यून हो जाता है ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एकदेश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भ्रान्ति-बुद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ? फिर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी ।

### (आस्तिक और नास्तिक का संवाद ॥)

इस के आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिस को बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुन्बई में छपवाया है । ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता बल्कि कुछ होता है वह कर्म से । ( आस्तिक ) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त हैं तो बिना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे ( यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं ) अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । ( आस्तिक ) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब बेतब है तो कर्ता क्यों नहीं ? और

जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक् कभी नहीं हो सकता (जैसा तुम कृत्रिम, बनाकर के ईश्वर-तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो इसप्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय) क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतःसिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। देखो ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य कर्मा, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता ? (जो कर्मों को प्रागभाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है) जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत् जड़ हो जाते एक ठिकने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़ गये। ( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था क्यों हुई ? क्योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये। ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घट सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनताधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वरुणों की व्याख्या जैसी “चतुर्थसमुल्लास” में लिख आये हैं वहां देख लो। ( नास्तिक ) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? ( आस्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता है जैवी सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को लेकर मनुष्य न पीसें, न कूटें, न रोटी आदि

पदार्थ बनावें और न खावें तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करे तो जीव का जीवन भी न हो सके इसलिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात् उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्त्तव्य काम है। ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्दानन्दस्वरूप है तो जगत् के प्रपंच और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ? ( आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपंच और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उस का हो सकता है सर्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? ( जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उमी ने किया है। ) ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप मुख को छोड़ जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा ? ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साथनों से सिद्ध हुए तीर्थचरों के समान एक देश में रहने हारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जगत् को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थचर हैं कभी नहीं पड़ता । इसलिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे मांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं । ( आस्तिक ) जैसे बिना राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसीप्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार यथाबोध्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं



चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जिसने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । ( आस्तिक ) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्यों कि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे। ( नास्तिक ) हे मूढ़ ! जगत् का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयं सिद्ध है । ( आस्तिक ) यह जै-नियों की कितनी बड़ी भूल है भला विना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के विना कोई कार्य जगत् में होता देखता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बनके जैनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास मूत कपड़ा अङ्गुरा दुपट्टा धो-ती पगड़ी आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के विना यह विविध जगत् और नानाप्रकार की रचनाविशेष कैसे बन सकती ? जो हठ धर्म से स्वयं सिद्ध जगत् को मानो तो स्वयं सिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिकों को कर्ता के विना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कौन बुद्धिमान् मान सकता है ? । ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपञ्च में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। ( आस्तिक ) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किस को छोड़े और किस को ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम वा उस को अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता और जीवों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपञ्ची होकर दुःखी होजायगा । ( आस्तिक ) भला अनेकविध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मों में नहीं फँसता न प्रपञ्ची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्य वाला प्रपञ्ची और दुःखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने और अपने तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अ-विद्यादि दोषों से छूटना चाही तो वेददि सत्यशास्त्रों का अभ्यस लेओ क्यों अभ्य में पड़े पड़े जोकरें लगे हैं ? ॥

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसे इन के सूत्रों के अनुसार बिसलाते

और संक्षेपतः मूलार्थ के किये पश्चात् सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं:—

**मूल—सामिअथाह अखन्ते च नृगह संसार धोरकान्तरे ।  
मोहाह कम्मगुरु ठिह विवाग वसनुभभइजीव रो । प्रकरखरत्नाकर  
भाग दूसरा २ षष्ठीशतक ६० सूत्र २ ॥**

यह रत्नसारभाग नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और महावीर का संवाद है ॥

इस का संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत् का कर्त्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । ( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थंकरों को सम्यग्बोध नहीं था जो उन को सम्यग्ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता । मला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है उस की उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इन के आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इस को कोई भी नहीं मान सकता ) और भी देखो ! इन की मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यग्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन की मिथ्या बातों के ये नमूने हैं ) “रत्नसारभाग” ( इस ग्रन्थ को जैनलोग मानते हैं और यह ईसवी सन् १८७६ अग्रेल ता० २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचंद जती ने छपवा कर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ पृष्ठ में काल की इसप्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्मकाल है । और असंख्यात समयों को “आवलि” कहते हैं । एक कोड़ सस्रंठ लाख सत्तर सहस्र दो सौ सोलह आवलियों का एक “मुहूर्त्त” होता है वैसे तीस मुहूर्त्तों का एक “दिवस” वैसे पन्द्रह दिवसों का एक “पक्ष”

वैसे दो पक्षों का एक "मास" वैसे बारह महीनों का एक "वर्ष" होता है, वैसे सत्तर लाख क्रोड़ छप्पन सहस्र क्रोड़ वर्षों का एक "पूर्व" होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक "पत्योपम" काल कहते हैं। असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोदकर उस को जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्तमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हजार छानवें भाग सूक्ष्म होता है जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवें बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५२ अर्थात् बीस लाख सत्तानवें सहस्र एक सौ बावन टुकड़े होते हैं ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उस में सौ वर्ष के अन्तर एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दबे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पड़ें तब एक २ पत्योपम काल होता है। वह पत्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोड़ान् क्रोड़ पत्योपम काल बीतें तब एक "सागरोपम" काल होता है, जब दश क्रोड़ान् क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक "उत्सर्पणी," काल होता है, और जब एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी काल बीत जाय तब एक "कालचक्र," होता है जब अनन्त कालचक्र बीत जावें तब एक "पुद्गलपरावृत्त," होता है, अब अनन्त काल किस को कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त "अनन्त काल" कहाता है, वैसे अनन्त पुद्गल परावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि। मुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम इस को सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखो ! इन तीर्थंकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु और शिष्य हैं जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं और भी इन का ग्रन्थर मुनो रत्नसारभाग पृ० १३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उन के तीर्थंकर अर्थात् ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उन के वचनों का

सारसंग्रह है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उन में रहनेवाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातत्वां समझना अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं। ( रत्न० पृ० १४९ ) वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिये उन का आयुमान अन्तमुहूर्त् होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इन का मुहूर्त् समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इन में है और उस में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैवियों का योजन १०००० दश सहस्र कोशों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है। अब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात् एक उन का शरीर और एक मुख जो शंस कौड़ी और जूं आदि होते हैं उन का देहमान अधिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और उन का आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल जूं जैवियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जूं को देखे!! ( रत्नसार भा० पृ० १५० ) और देखो ! इन का अन्धाधुन्ध बीजू, बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक छः महीने का है। देखो भाई ! चार २ कोश का बीजू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवाला बीजू और मक्खी भी जैवियों के मत में होती है ऐसे बीजू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीजू किसी जैनी को काटें तो उस का क्या होता होगा ! जलपर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक कोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्व वर्षों का इन का आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैवियों के अन्य किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी

लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता । ( रत्नसार भा० पृ० १५१ ) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० एक कोश कोशों का और अणुमान एक कोश पूर्व कर्णों का होता है इतने बड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे । क्या यह महाभूठ बात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न हो सके ! ॥

( अब मुनिये भूमि के परिमाण को ) ( रत्नसार भा० पृ० १५२ ) इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में "जम्बूद्वीप,, प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इस का प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् एक अरब कोश का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाण दो लाख योजन काश का है अर्थात् दो अरब कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो "धातकीखण्ड" नाम द्वीप है उस का चार लाख योजन अर्थात् चार अरब कोश का प्रमाण है और उस के पीछे "कालोदधि,, समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् आठ अरब कोश का प्रमाण है उस के पीछे "पुष्करवर्त्त,, द्वीप है उस का प्रमाण सोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनि के जीव रहते हैं । ( रत्नसार भा० पृ० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं ॥ ( समीक्षक ) मुनो भाई ! भूगोल विद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ? जो जैन भूल गये हों तो तुम उन को समझाओ और जो तुम भूले हो तो उन से समझ लेओ । थोड़ासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य्य और शिष्यों के भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महाअसम्भव ग-पोडा क्यों मारते !? भला ऐसे अविद्वान् पुरुष जगत् को अकर्तृक और ईश्वर को न माने इस में क्या आश्चर्य्य है !? इसलिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान् अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन को ये लोग प्रामाणिक तीर्थंकरों के बनाये हुए सिद्धान्त ग्रंथ मानते हैं उन में इसीप्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इसलिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इन के बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा वह सब प्रपञ्च

जैमिनी ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा भूठ है।  
 हाँ जगत् का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकृतक है प-  
 रन्तु उन में नियमपूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक  
 परमाणु द्रव्य किसी का नम है और स्वभाव से पृथक् २ रूप और जड़ हैं वे अपने  
 आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इन का बनानेवाला चेतन अदृश्य है और वह  
 बनानेवाला ज्ञानस्वरूप है। देखो ! पृथिवी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अ-  
 नन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचनाविशेष दीखता है वह  
 स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता जो कार्य जगत् को नित्य मानेगे तो उस का  
 कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप हो जायगा जो ऐसा कहो तो अपना  
 कार्य और कारण आप ही होने से अन्योन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे  
 अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जग-  
 त् का कर्त्ता अदृश्य ही मानना है। ( प्रश्न ) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते ही  
 तो ईश्वर का कर्त्तृ कौन है ? ( उत्तर ) कर्त्ता का कर्त्ता और कारण का कारण कोई  
 भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कर्त्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है जिस  
 में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस का कर्त्ता वा  
 कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि  
 की व्याख्या में लिखी है देख लेना (इन जैम लोगों को स्थूल बात का भी बधावत्  
 ज्ञान नहीं तो परमसूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है) इसलिये जो जैनी लोग  
 सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और  
 प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्तपर्याय को मानते हैं यह प्रकर-  
 णरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिन  
 का अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उन्हें के सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अ-  
 नन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट स-  
 कती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्यकारण  
 सामर्थ्य को अविभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब  
 एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उस में अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ?  
 ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त प-

व्यर्थों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनिओं का निरचय ऐसा है:—

**चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।**

**सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥**

यह जिनदत्तमूरि का वचन है:—और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में नवचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है। सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कहाते हैं । ( समीक्षक ) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सर्वदा सीमित रहेगा । जैनी लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनिओं के तीर्थंकर भूल खड़े हैं क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुम ने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी ! ( धरम ) जैसे धान्य का झिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता इसीप्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता । ( उचर ) जीव और कर्म का सम्बन्ध झिलके और बीज के समान नहीं है किन्तु

## इन्द्रसमुत्पत्तयः ॥

इव सा समवाय सम्बन्ध है, इस से अनन्दि काल से जीव और उस में कर्म और कर्तृत्वशक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाप्मायवत् हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूटकर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्ति से भी छूटके बन्धन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे वस्त्रों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र्य से निर्मल होता है और मल लगाने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाह रूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । ( प्रश्न ) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है । ( उत्तर ) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार मुक्त में भी लगेगा । ( प्रश्न ) जीव पूर्वोपाजित कर्म ही से शरीर धारण करता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है । ( उत्तर ) जो केवल कर्म ही शरीरधारण में निमित्त हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उस को धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है, तो भी जैसे चोर आप से आपके बन्धीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उस के कर्मनुसार फल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानो । ( प्रश्न ) मद ( नशा ) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवालों को मद कम चढ़ता अनभ्यासी को बहुत चढ़ता है वैसे नित्य बहुत पाप पुंस्य करनेवालों को न्यून और कभी २ छोड़ा २ पाप पुरय करनेवालों को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्मवालों को अधिक फल होवे ।



( प्रश्न ) जिस का वैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फल हुआ करता है । ( उत्तर ) जो स्वभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हां जैसे शुद्ध बंध में निमित्तों से मल लगता है उस के छुड़ने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा भानना ठीक है । ( प्रश्न ) संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसीप्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है । ( उत्तर ) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है वैसेही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वरस्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती । ( प्रश्न ) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहता है । ( उत्तर ) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । ( प्रश्न ) कर्म का बंध सादि है । ( उत्तर ) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्म कर्ता का समवाय अर्थात् नित्य संबन्ध होता है यह कर्मों नहीं छूटता, इसलिये जैसा २ वें समुल्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उस में परिवर्तितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो ( जैनियों में आर्हत लोग देह परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उस की शक्तियां शरीर में प्राण बिजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उन से सब शरीर का वर्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है । अब जैन लोग धर्म इसप्रकार का मानते हैं:—

मूल—रे जीव भवदुहाइं इकं चिय हरइ जिणमयं धम्मं ।

इयरायं परमं तो सुहकूपे मूदमुसि ओसि ॥

प्रकरणरत्नाकर भाग २ । षष्ठी शतक ६० । सूत्राङ्क ३ ॥

अरे जीव ! एक ही जिनमत श्री वीतरागभाषित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरा-मरणादि दुःखों का हरण कर्ता है इसीप्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैनमतवाले को जानना इतर जो वीतराग अष्टभेदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य हरिहर आदि कुदेव हैं उन की अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य उद्योगे भये हैं । इस का यह भावार्थ है कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ( समीक्षक ) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं ॥

मूल—अरिहं देवो 'सुगुरु' सुखं धम्मं च' पंच नवकारो ।

धक्षाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसह हिययम्मि ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० ६० । सू० १ ॥

जो अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान् शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध कषाय मलरहित सम्यक्त्व विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करने वाला है । और अन्य हरिहरसदि का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उन को नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह जैनों का धर्म है ॥ ( समीक्षक ) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अन्धेर और चारित्र के बदले भ्रूखे मरना कौन सी अच्छी बात है (जैनमत के धर्म की प्रशंसा) —

मूल—जइंन कुणासि 'तव चरणं' न पढासि न गुणोसि देसि नो दाणम् । ता इत्तियं न सक्किसिंजं देवो इक्क अरिहन्तो ॥ (१)

प्रकरण० भा० २ । षष्ठी सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न भिक्षादि का भिक्षाकर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में भद्रा स्वना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ ( समीक्षक ) तथापि दया और क्षमा अच्छी

वस्तु है तथापि पक्षपात में फंसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दण्ड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दण्ड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाय, यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहाती है। केवल जल लान के पीना, लुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इसप्रकार की दया जैतियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उस का अज्ञापनादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इन की सच्ची दया होती तो "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा है "एक परमती की स्तुति" अर्थात् उन का गुणकीर्तन कभी न करना। दूसरा "उन को नमस्कार" अर्थात् बंदना भी कभी न करनी तीसरा "आलापन" अर्थात् अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा "संतपन" अर्थात् उन से बार२ न बोलना। पांचवां "उन को अन्न वस्त्रादि दान" अर्थात् उन को खाने पीने की वस्तु भी न देनी। छःठा "गन्धपुष्पादि दान", अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना। ये छः यतना अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें। (समीक्षक) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन (जैनी लोगों की अन्य मतवाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैतियों को दयाहीन कहना संभव है क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घरके समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उन को दयावात् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ?। विवेक० पृष्ठ १०० में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुचि नामक दीवान को जैनमस्त्रियों ने अपना विरोधी समझ कर मार डाला और आलोच्यखा (प्रथश्चित) करके मुद्ध हो गये। क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब अन्य मतवालों पर प्राप्त लेने पर्यन्त वैरबुद्धि रखते हैं तो इन को दयालु के स्थान पर हिसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक्त्व दर्शनानि के लक्षण आर्हत प्रवचन संग्रह परमोपमनसार में कथित है सम्यक् श्रद्धान्, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र

ये चार मोक्षार्थ के साधन हैं इन की व्याख्या वेदवेद ने की है जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित है उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेशादि रहित जो श्रद्धा अर्थात् धिन व्रत में प्रीति है सो सम्यक् श्रद्धान और सम्यक् दर्शन है ।

**रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्श्रद्धानमुच्यते ।**

जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं ॥

**यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा ।**

**यो बोधस्तमश्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥**

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उन का संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग्ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ॥

**सर्वथाऽनवधयोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते ।**

**कीर्तितं तदहिंसादि व्रतभेदेन पञ्चधा ॥**

**अहिंसासूच्यतास्तेष्वब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।**

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का व्रत है । एक ( अहिंसा ) किसी प्राणिमात्र को न मारना । दूसरा ( सूच्यता ) प्रिय वाली बोलना । तीसरा ( अस्तेय ) चोरी न करना चौथा ( ब्रह्मचर्य ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना । इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा करने आदि दोषोंसे सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हरिहरादि का कर्म संस्कार में उद्भव करने वाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिन के ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना/ और अपने महा असंभव जैसे कि पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहनेवाले अपने तीर्थकरों की स्तुति करना केवल इत की बातें हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का समर्थ हो तो भी जैनमत सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उत्सव हो जाय ! और अन्य मतवाले भेद भी अभेद हो जायें ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को आन्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या करें ! इस में यही निहित होता है कि इन के आचार्य

स्वार्थों के पूर्ण विद्वान् नहीं क्योंकि जो सब की निन्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फँसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता। देखो ! यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत दुबाने बल्ल और वेदमत सब का उद्धार करने हारा हरि हरसिद्धिब सुवेव और इन के ऋषभदेवसि सच बुद्धेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगेगा। और भी इन के आचार्य्य और मानने वालों की भूल देख लो:—

मूल-जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्तुत्तले सदेसणउ ।

आणा भंगे पावता जिणमय दुकरं धम्मम् ॥

(१) प्रकर० भाग० २ । षष्ठीश० ६ । सू० ११ ॥

उन्मार्ग उस्तुत्त के लेश दिग्बाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिसप्रकार जिन आज्ञा का भङ्ग न हो वैसा करना चाहिये। (समीक्षक) (जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान् करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो जोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसीप्रकार की इन की बातें हैं ॥

मूल-बहुगुणविज्जा निलयां उस्तुत्तभासीं तथा विसुत्तब्बो ।

(३) जहवरमखिज्जतो विहुविग्घकरो विसहरो लोए ॥

प्रकर० भा० २ । षष्ठी० सू० १८ ॥

जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे (जो जैनमत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पण्डित हो उस को त्याग देना ही जैनियों को उचित है)। (समीक्षक) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इन के चले और आचार्य्य विद्वान् होते तो विद्वानों से श्रेष्ठ करते जब इन के तीर्थंकरसहित अविद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवर्ण को मल वा धूल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रही विद्याहीन होंगे ? ॥

मूल-अह सयपा विषपा मीधम्मि अपब्बे सूतो विपावरया ।

न चलन्ति सुद्धम्मं धन्ना किविपावपब्बेसु ॥

प्रकर० भा० २ । षष्ठी० सू० २६ ॥

अध्वर्यायुः कुलिङ्गी अर्वात् जैनमतविरोधीः उक्तं का श्लोकः भी जैनी लोग न करे ॥  
( समीक्षक ) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पापमय बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं होता इन के आचार्य्वे जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मूर्ख जनों को फँसाओ ॥

सूत्र—नामं पितस्सञ्च मुहं जेषानिदिताहं मिच्छं पब्बाह ।

जेषिं अणुसंगा उधम्मिणविहोहं पार्वमहं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० ६ सू० २७ ॥

जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ ( समीक्षक ) इस से यह सिद्ध होता है कि सब से बैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में डुबाने वाला जैनमार्ग है (जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सब की निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं)? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

सूत्र—हाहा गुरुञ्च कज्जं सामीनहु अञ्चिक्कस्स पुक्ककरिमो ।

कह जिण वयम् कह मुगुरु सावया कहइयु अकज्जं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ३५ ॥

सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के मुगुरु और जैनधर्म कहां और उन से विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ( समीक्षक ) यह बात बेर बेंचनेहारी कूजडी के समान है जैसे वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाती है । इसीप्रकार जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मतवालों की सेवा में बड़ा अकार्य्य अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

सूत्र—सत्थो इकं मरणं कुगुरु अत्ता इदिइ मरणाह ।

तोवरिसत्थं गहियुं मा कुगुरुसेवम् भवम् ॥

प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मखि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में ब्रह्म धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उन का दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के सङ्ग से एक वार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के सङ्ग से अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ( समीक्षक ) देखिये जैनियों के समान, कठोर, भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मतवाले कोई भी न होंगे) इन्होंने ने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन के दौर्भाग्य की है क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इन को यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जैनियों को उचित है कि अपनी निन्दानिन्द मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उन के लिये बड़े कल्याण की बात है ॥

**मूल-किं भणिमो किं करिमो ताण्हयासाण धिठदुठानं ।**

**जे दंसि उण लिंगं खिवन्ति नरयस्मि सुद्धजणं ॥**

**प्रक० भा० । षष्ठी० सू० ४० ॥**

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि जो उस का उपकार करो तो उलटा उस का नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्यमार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) (जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उन का कोई किसीप्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसे अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

**मूल-जहजहतुइइ धम्मो जहजह दुठान्होय अइउदुड ।**

**समदिठिजियाण तह तह उल्लासईस मणं ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ४२ ॥**

जैसे २ सर्वत्रमद्य, निरुक्त, वाञ्छता, उन्नता, तथा कुसीलिकाविक और अन्य दर्शनी, भिद्यडी, परित्राजक तथा विप्रदिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजा-दिक होने जैसे २ सम्यग्दृष्टी जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरबुद्धि युक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये जैनों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

मूल—संगो विजाख 'अहिंउते सिंधम्माइ' जेपकुड्बन्ति ।

मुतूख चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७५ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिका-वेदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैन मत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्मष से भय नहीं करते ॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अतिईर्ष्या द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल—जच्छपसुमहिसंलरका' पव्वं होमन्ति' पावधन वमीए ।

पूअन्तिपि सद्वहाहा ही लावी परीयस्स ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७६ ॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्भ-कृत्वी अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य के स्थानों में चायुरडा, कालिका, उवाला, प्रमुख के अग्रे पापनौमी अर्थात् दुर्गनौमी तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्चसखा आदि व्रत बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है ? यहां बाममार्गियों की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासन देवी और मरुत देवी



आदि को मानते हैं उन का भी खण्डन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं ? और अपने यक्षस्वाण आदि व्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना भूर्खता की बात है हां जो सत्यभाषणादि व्रत धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

**मूल—वेसाणवंदियाण्य माहण्डुं बाणजर कासिरकाणम् ।**

**भक्ता भर कंठाणां विद्याणां जन्ति दूरेण ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सूत्र ८२ ॥**

इस का मुख्य अर्थोक्त यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टी देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के माननेवाले हैं वे सब डुबाने और डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुयें मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य मार्गियों के देवताओं को भूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के श्वेदः मारा उसकी आंख निकाल डाली उस के बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसागर भाग १ पृ० ६० में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

**मूल—किंसोपि जखणि जाओ जाणो जखणी इकिं अगोविदिं ।**

**जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८१ ॥**

जो जैनमत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बड़े क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ( समीक्षक )

देखो ! इन के वीतरागमापित दया धर्म दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल हम का दया धर्म कथनमात्र है और जो है सो क्षुद्र जीवों और पशुओं के लिये है जैनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥

**सूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छन्ति सुद्धिमग्गमि ।**

**जे पुण्णअमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति तं चुप्पं ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८३ ॥**

इस का अर्थ प्रबोधन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हो इस में बड़ा आश्चर्य है इस का फलितार्थ यह है कि जैनमतवाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ ( समीक्षक ) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ?

**सूल-तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाणकारिणी भणिया ।**

**साविद्यमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ ॥**

**प्रक० भाग २ । षष्ठी० सू० ६० ॥**

एक जिनमूर्तियों की पूजा सार और इस से भिन्नमार्गियों की मूर्तिपूजा असार है जो जिक्काम की आज्ञा पालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह सत्वज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाह जी ! क्या कहना ! ! क्या तुम्हारी मूर्ति माषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानों बनते हो और अन्यो को अतत्वज्ञानी बनते हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं है ॥

**सूल-जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति ।**

**इयमुत्ति ऊय युत्तसंजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥**

**प्रक० भाग २ । षष्ठी० सू० ६२ ॥**

जो जिन देव की आज्ञा देवों के समान है उस से अन्य सब आज्ञा अवर्ण  
हैं ॥ (समीक्षक) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैनमत से भिन्न कोई  
भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ?  
हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिह्वा चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की  
होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की  
ऐसी बड़ाई की है कि जन्मे भयों के बड़े भाई ही जैन लोग बन रहे हैं ॥

मूल-वज्रोमिनारया उचिजसिन्दुरकाइ सम्भरंताणम् ।

भव्वाण जणइ हरिहररिदि समिदी विउद्धोसं ॥

प्रक० भाग २ । षष्ठी० सू० ६५ ॥

इस का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक  
का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग क-  
रने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभंग से क्यों न मन्म मरण-  
दुःख पावेगा ? ॥ (समीक्षक) देखिये ! जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति  
अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इन के भीतर की भी खुल गई  
हरिहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन  
के रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे चाहते  
होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और ये दरिद्र हो जायें तो अच्छा  
और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े सुरामदी  
भूटे और डरपुकने हैं क्या भूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये ? जो ईष्याद्वेषी  
हो तो जैनियों से बड़े दूसरा कोई भी न होगा ॥

मूल-जो देइशुद्धधम्मं सो परमण्या जयम्मि नहु अज्ञो ।

किं कप्पहुम्म सरिसो इयरतरु होइकइयावि ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०१ ॥

वे मूर्ख लोग हैं जो जैनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोपदेश  
साधु का गृहस्थ अथवा ग्रन्थकर्ता हैं वे तीर्थिकों के तुल्य हैं उन के तुल्य कोई भी नहीं ॥  
(समीक्षक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकरबुद्धि न होते तो ऐसी बातें क्यों मान

बैठते । जैसे वेदवा-विमत अपने-के दूखी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह मत भी दीखती है ॥

सूत्र-जे असुखि अगुख दोषति कह अघुहाखहुन्तिमकच्छा ।

अहते विहुम कच्छाता विसअमि आख'तुल्लसं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०२ ॥

जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और विमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यह जैनियों का हठ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की बोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब स्पर्कन्व हैं जिस की कुछ बोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेष्टाओं को देखे सुने विचारे तो उसीसमय निःसंदेह छोड़ देगा ॥

सूत्र-वयखे विसुगुरुजिखवल्लहस्सके सिंन उल्लस इसम्मं ।

अहकहदिख मखितेयं उलुआखंहरइ अन्यत्तं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०८ ॥

जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात् अन्यमार्गियों को न मानना ॥ ( समीक्षक ) मलाजो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चले करके न बांधते तो उन के जाल में से छुट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते मला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुम को कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी बरी हैं ॥

सूत्र-सिहुअख जखं मरंत्तं ददूखं निअन्तिजेन अप्पाखं ।

विरमंतिन पावा उद्विडी चिठत्तखं ताखम् ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०९ ॥

जो कृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कर्म जैनी लोग न करें क्योंकि वे कर्म भरक से से बचनेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़

देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारें विचारें सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥

**मूल-तइया हमाख अहमा कारण रहिया अनाख मव्येण ।**

**जेजपान्ति उशुत्तं तेसिदिद्धिहूपिम्मिच्चं ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२१ ॥**

जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अभिमाधम हैं चाहे कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करें ॥ ( समीक्षक ) तुम्हारे मूल पुरुष से लेके आज तक जितने हो गये और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे भला जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चले बन जाते हैं ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

**मूल-जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उस्सन्तले सदेसणओ ।**

**सागर कोड़ा कोड़िंहिं मुइ अइ भी भवरणे ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२२ ॥**

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य क्रोड़ानक्रोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ ( समीक्षक ) वाह रे ! वाह !! विद्या के शत्रुओ तुम ने यही विचारा होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है सो असम्भव है अब कहां तक तुम को समझावें तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध हो कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग के समान समझ लिया है ॥

**मूल-दूरे करणं दूरम्मि साहूखं तहयभावणा दूरे ।**

**जिणधम्म सदहाणं पित्तिर कंदुरकाइनिठुवइ ॥**

**प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२७ ॥**

जिसे मनुष्य से जैवधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैवधर्म संचा है अन्य कोई नहीं इतनी अज्ञानता ही से दुःख से तर जाता है ॥ ( समीक्षक ) भला इस से अधिक भूलों को अपने मतजाल में फँसाने की कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भ्रूँ मत कौनसा होगा ? ॥

पूछ — कइया होही दिवसो जइया सुगुरुख पायमूलम्मि ।

उस्सुत्त सविसलवर हिलेओनिसुखे सुजिणधम्मं ॥

मक० भा० २ षष्ठी० सू० १२८ ॥

जो मनुष्य भ्रूँ से जिनमम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को मुनूंगा उस्सुत्त अर्थात् अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न मुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःख-सागर से तर जाता है ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संचित-कर्मों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ भूट अर्थात् विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इन के अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शक्य देख मुन सत्वाऽसत्य मानकर इन के षोक्ल ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बाँधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सत्संगी चाहे छूट सके तो संभव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है ॥

पूछ — जइजेखं हिंभखियं सुयववहारं विसोहियंतस्स ।

जायइ विमुद बोही जिणआणा राह गन्नाओ ॥

मक० भा० २ । षष्ठी० सू० १३८ ॥

जो भिन्नाचार्यों ने कहे सुत्र निरुक्ति-वृत्ति आत्मनूर्त्ती मानते हैं वे ही सुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र्युक होकर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्वयज्ञ के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूले मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र्य कहें हैं जो भूलों ध्यासा मरना आदि ही चारित्र्य है जो बहुत से मनुष्य अकाल वः जिन को अज्ञान ही मिलते भूले मरते हैं वे शुद्ध होकर सुभ फलों को प्राप्त होने चाहिये तो न वे शुद्ध हों और न तुम किन्तु पिच्छादि के प्रकोप से रोमी होकर सुख

के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचरण ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सब से प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्तना शुभ चरित्र कहता है जैनमतमें जब भूख व्यासा करना अति-कर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक भूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में डूबते हैं ॥

**सूत्र—**जइजाबसि जिणनाहो लोभाया राधिपरकएधुओ ।

तातंतं मन्नं तो कहमजसि लोअ आचारं ॥

प्रक० भा० २ षष्ठी० सू० १४८ ॥

जो उत्तम प्रारब्धकाम मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिनधर्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्ध नष्ट है ॥ ( समीक्षक ) क्या वह नाल भूल की और भूठ नहीं है ? क्या अन्यमत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जैनमत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात् जैनधर्मात्मे आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक वर्तें इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इन की बात अयुक्त है क्योंकि सज्जनपुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को रिक्ता देकर मुशिक्षित करते हैं और जो यह स्त्रिस कि ब्राह्मण, त्रिदशही, परिव्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी और क्षात्रप्रादि अर्थात् बैरागी आदि सब जैनमत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को शत्रुभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धर्म कहां रहा क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेषमूर्तियां जैनिलोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे । आषम वेब से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहे और जैनमत माननेवालों को सन्निपातज्वर से फँसे हुए मानें और उन का धर्म नरक और विष के समान समझें तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा ! इसलिये जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥

**सूत्र—**एगो अंगरु एमो विसाव गोचे इआसि विवहासि ।

तच्छयंजं जिहद्वयं परुपरमं न विवसि ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १५० ॥

सब श्रावकों का देवगुरुधर्म एक है चैत्यवन्दन अर्थात् जिनमन्त्रिभिश्च मूर्तिदेवता  
और जिनमन्त्रिणां की रक्षा और मूर्ति की पूजा अर्थात् धर्म है ॥ ( समीक्षक ) अब देखो !  
विशेष मूर्तिपूजा का भंगना चला है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डों का मूल  
नीचैतन्य है । आद्यदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाणः-

नवकारेण विवाहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावड ॥ २ ॥ वयाई  
इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ५ ॥ यच्चरत्वारं  
तु चिहि पुच्छं ॥ ६ ॥

इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा  
नवकार जपे पीछे में श्रावक हं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुव्रतादि हमारे कितने  
हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक है सो योग  
उस का सब अतीचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग  
कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थात् मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा  
कहेंगे ॥ ५ ॥ छःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहेंगे इत्यादि  
॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् संन्या के भो-  
जन समय में जिनविम्ब अर्थात् तीर्थकरों की मूर्ति पूजा और द्वार पूजा और  
द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने और  
सुधारने से मुक्ति हो जाती है मन्दिर में इसप्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा  
करे "नमो जिनैन्द्रभ्यः" इत्यादि मन्त्रों से स्नानादि कराना । और " जलचन्दनपुष्प-  
धूपदीपनैः" इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें । रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तिपूजा  
का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । ( समी-  
क्षक ) वे बातें सब कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुत से जैन पुत्रारियों को राजादि रोकते  
हैं । रत्नसार ० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा से राग पीडा और महादोष छूट जाते हैं  
एक(किसी ने ५ कौड़ी का फूल चढ़ाया उस ने २० देरा का राज फल उसका नाम  
कुमारपाल हुआ था) इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों को लुभाने की हैं क्योंकि अनेक  
जैनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक जीव का भी राज्य वासायादि मूर्तिपूजा  
से नहीं मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले सो पांच २ कौड़ी के  
फूल चढ़ाके सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ! और राजदंड क्यों भोगते



हैं ? और (जो मूर्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते हो तो जिन मूर्तियों और चरित्रियों करते हो) ! रत्नसागर भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि भोक्तव्य के बंगूटे में अमृत और उस के स्मरण से मनवाञ्छित फल पाता है । ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहिये सो नहीं होते इस से यह इन की केवल मूर्तियों के बहकाने की बात है दूसरे इस से यह इस में कुछ भी तत्व नहीं इन की पूजा करने का श्लोक रत्नसागर भा० पृष्ठ ५२ में:—

जलचन्दनधूपनैरथ दीपाच्चतकैर्नैवेद्यबस्त्रैः ।

उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् कचिरैरथ यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चानल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अतिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थकरों की पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मूर्तिपूजा जैनियों से चली है । ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारनेवाला है । ( विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ ) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय । ( विवेकसार पृष्ठ ५५ ) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिनमूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के केश हूट जायें । ( समीक्षक ) अब देखो ! इन की अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इसप्रकार से पापादि बुरे कर्म हूट जायें, मोह न आवें, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आ जायें, नरक को छोड़ भर्ग में जायें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त हों और सब क्लेश हूट जायें तो सब जैनी लोग मुर्ती और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ! इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । ( विवेकसार पृष्ठ २२५ ) शिव, विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है । ( समीक्षक ) भला जब शिव, आदि की मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं तो इन से कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रूपों के मंदिर में

रहती हैं और चन्दन केसररश्मि चद्रता है पुनः लगनी कैसी ? और शिवरश्मि की मूर्तियां तो बिना वाद्य के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त है सब मर्तों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है । ( मन्त्र ) हमारी मूर्तियां बस आभूषणादि धारण नहीं करती इसलिये अच्छड़ी हैं । ( उत्तर ) सब के सामने कभी मूर्तियों का रहना और रत्नना पसन्द नहीं है । ( मन्त्र ) जैसे ली का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । ( उत्तर ) जो पापखादि मूर्तियों के देखने से कुप परिणाम मानते हो तो उस के जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजयेंगे । जब जड़ बुद्धि होमे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उच्चम विद्वान् हैं उन के संग सेवा से बूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुल्लास में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूर्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं । इसलिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाहल चलाया है वैसे इन के मन्त्रों में भी बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं यह इन का मंत्र है । रत्नसार भाग पृष्ठ १ में :—

नमो अरिहन्ताखं नमो सिद्धाखं नमो आयरियाखं नमो  
उबज्जायाखं नमो लोए सबवसाहूखं एसो पञ्च नमुकारो  
सव्व पावप्पखासखो मङ्गलाचरखं च सव्वे सिपडमं हवइ  
मङ्गलम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह मुख्यमन्त्र है । इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३ :—

नमुकार तउपढे ॥ ६

जउकव्वं । मन्ताखमन्तो परमो इमुत्ति धेयाखधेयं परमं इमुत्ति  
तत्ताखतत्तं परमं पविस्तं संसारसत्ताखदुहाहयाखम् ॥ १० ॥

ताख अन्नन्तु नो अत्थि । जीवाखं भव सायरे ।

बुद्धं ताखं इमं मुत्तुं । न मुकारंसुपोयपम् ॥ ११ ॥

कव्वं । अब्बेगजम्मंतरसं चिन्नाखं । दुहाखंसारीरिअमाणुसाखसाखं

कस्तूरीय भठ्वाणभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्यय है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से पृथक् रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के बिना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीरसम्बन्धी दुःख भन्व जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जबतक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थभूत्र में कहा है और जो अग्नि प्रमुख अष्टपहाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमोघ राक्ष के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुनत केवली का ग्रहण करे और सब द्वा-दशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है । ( नमो अरिहन्ताणं ) सब तीर्थिकरों को नमस्कार (नमोसिद्धाणं ) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार (नमो आय-रिवाणं) जैनमत के सब आचार्यों को नमस्कार । (नमोउबज्झावाणं ) जैनमत के सब उपा-ध्वयों को नमस्कार । ( नमो लोय सब्ब साहूणं ) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में बिना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक है । (तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है । (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके मुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं कल्पमाध्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सबालाख मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इ-त्यादि मूर्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है इसी से समझा जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है । अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये ( विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात् त्यागी होकर स्वर्ग लोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) अर्णकमुनि चारित्र से चूक कर कई वर्ष पर्यन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र

हृदय मुनि की स्थालिया उठा ले गया पश्चात् देवता हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १५६ )  
 जैनमत का साधु त्रिमधारी अर्थात् त्रेशधारी मात्र हो तो भी उस का सत्कार आवश्यक लोग  
 करें चाहें साधु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैं । ( विवेकसार पृष्ठ  
 १६८ ) जैनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है ।  
 ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित अष्टाचारी देखें  
 तो भी उन की सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार पृष्ठ २१६ ) एक चोर ने पांच भूटी  
 लेंच कर चरित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छुठे महीने में केवल ज्ञान  
 पाके सिद्ध हो गया । ( समीक्षक ) अब देखिये इन के साधु और गृहस्थों की लीला  
 इन के मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया और ( विवेकसार पृष्ठ  
 १०६ ) में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । ( विवेकसार पृष्ठ १४१ ) में लिखा  
 है कि धन्वन्तरि नरक में गया । ( विवेकसार पृष्ठ ४८ ) में जोगी, जंगम, काजी, मुझा,  
 कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं । ( रत्नसारभा० पृष्ठ १७१ )  
 में लिखा है कि नव वामुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वामुदेव, द्विपृष्ठ वामुदेव, स्वयंभू वामुदेव,  
 पुरुषोत्तम वामुदेव, सिंहपुरुष वामुदेव, पुरुष पुण्डरीक वामुदेव, दत्त वामुदेव, लक्ष्मण  
 वामुदेव और श्रीकृष्ण वामुदेव, ये सब म्याहरवें, बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें,  
 बीसवें और बाईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये और नव प्रतिवामुदेव  
 अर्थात् अश्वप्रीवप्रतिवामुदेव, तारकप्रतिवामुदेव, मोदकप्रतिवामुदेव, मधुप्रतिवामुदेव,  
 निशुम्भप्रतिवामुदेव, बलीप्रतिवामुदेव, प्रह्लादप्रतिवामुदेव, रावणप्रतिवामुदेव  
 और जरासिंधु प्रतिवामुदेव, ये भी सब नरक को गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि  
 ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए । ( स-  
 मीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचारे कि इन के साधु गृहस्थ और तीर्थकर जिन  
 में बहुत से बेव्याभासी, परस्त्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये  
 और श्रीकृष्ण आदि महाभारतक महात्मा सब नरक को गये यह किताबी बड़ी बुरी बात है ।  
 अत्युत् विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैवियों का संग करना न उनको बेव्याभासी भी  
 पुरा है क्योंकि जो इन का संग करे तो ऐसी ही भूटी २ बातें उस के भी हृदय में  
 स्थित हो जायेंगी क्योंकि इन महाहठी, दुराग्रही मनुष्यों के सङ्ग से सिवाय बुराइयों के  
 अन्य कुछ भी पछे न पड़ेगा । हां ! जो जैवियों में उत्तम जन \* हैं उन से सत्संवादि

\* जो उत्तम जन होगा वह इस असार जैनमत में कभी न रहेगा ।

करने में कुछ भी दोष नहीं। (विभेकसार पृष्ठ ५५) में लिखा है की मंगति तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने विचार, धार्मिकता और अन्व आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्तिवर्धन के देनेवाले हैं। (समीक्षक) वहाँ विचारना चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्वयं जड़स्वरूप हैं वैसे जैनिओं के भी हैं इन में से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है ॥

### जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥

(रत्नसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थंकर गौतमजी से कहते हैं कि ऊर्ध्व लोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्गपुरी के ऊपर पैतालीस लाख योजन लंबी और उतनी ही पौली है, तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुग्ध है उस से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्धशिला १४ चौदहवें लोक की शिला पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम उस में भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहाँ जन्ममरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनिओं की मुक्ति है। (समीक्षक) विचारना चाहिये कि (जैसे अन्यमत में वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी। चौथे आसमान में ईसाई सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनिओं की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। नयों कि जिस को जैनी लोग ऊँचा मानते हैं वही नीचेवाले जो कि हम से भूगोल के नीचे रहते हैं उन की अपेक्षा में नीचा है ऊँचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है। जो आर्यावर्तवासी जैनी लोग ऊँचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं और आर्यावर्तवासी जिस को नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले ऊँचा मानते हैं बाहे वह शिला पैतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोस की होती तो भी वे मुक्त बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी— और सदा उस में रहने की प्रीति और उस से बाहर जाने में अप्रीति भी होगी जहाँ अटकाव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्योंकि कह सकते हैं : मुक्ति तो जैसी नब्बे समुद्रास में वर्णन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है और यह जैनिओं की मुक्ति भी एक प्रकार का बंधन है जैनी भी मुक्तिविषय में अज्ञ से कैसे हैं। यह सब है कि

विना चेदो के अर्थात् अर्थात् के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते)।

अब और थोड़ी सी असम्भव बातें इन की सुनो (विवेकसार पृष्ठ ७८) एककालेक साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कसया। (विवेक० पृष्ठ १३६) दशार्थी राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वहां आई थीं देख कर राजा आश्चर्य्य होगया। (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियोंके खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहियें। श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दाभावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बम्बई, कुआ और तालाब न बनवाना चाहिये। (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो सब लोग जल कहां से पियें ? (प्रश्न) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जैसे जूट २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उस को क्यों नहीं गिनते ? (तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) इस नगरी में एक नन्दमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उस से धर्मअष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में भेडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उस को जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुभध्यान के योग्य से दर्दुरांक नाम महार्द्धिक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुझ को यहां आया जान वन्दनापूर्वक श्रद्धि दिखाके गया। (समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक बख साधु ले लें। (समीक्षक) देखिये इनके साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गये बख तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए। (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूजने कटने, पीसने, अन्न बकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अब देखिये इन की विद्याहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जायें। (रत्नसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाने से एक लक्ष

पाप माली को लगता है । ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इसपर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है । ( तत्त्वविवेक पृष्ठ २०२ ) एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी बेशका बोली कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधु ने सोढ़े बारह लाख अशर्फी उस के घर में वर्षा दी । ( समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नष्ट-बुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? । रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति बोड़े पर चढ़ी हुई उस का जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है । ( समीक्षक ) कहां जैनीजी आज कल तुम्हारे यहां चोरी डाका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? (अब इन के साधुओं के लक्षण) —

सरजोहरणभैक्ष्यभुजां लुञ्चितमूर्डजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुञ्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः ।

ऊर्ध्वासिनो गृहं दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥

भुङ्क्ते न केवलं न श्रीमोक्षमेति दिगम्बरः ।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तमूरि ने ये श्लोकों से कहे हैं ( सरजोहरण ) क्षमरी रखना, और भिक्षा मांगके खाना, शिर के बाल लुञ्चित कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जैनीयों के श्वेताम्बर जिन को यती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात् वस्त्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का भांडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥ २ ॥ (और भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उस के पश्चात् भोजन करे वे जिनर्षि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते हैं) दिगम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग स्त्री का अपवर्ग नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं

इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ यह इन के साधुओं का भेद है इस से जैन लोगों का केशलुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है । निबेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुञ्चन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पांच मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ । ( कल्पसूत्र-भाष्य पृष्ठ १०८ ) केशलुञ्चन करे गौ के बालों के तुल्य रखे । ( समीक्षक ) अब कहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहाँ रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहें अपने हाथ से लुञ्चन करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाँती है । निबेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेताम्बरों में से दूढिया और दूढियों में से तेरह पंथी आदि दोगी निकले हैं । दूढिये लोग पाषाणादि मूर्ति का नहीं मानने और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बांधते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । ( प्रश्न ) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्योंकि "वायुकाय" अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इसीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं । ( उत्तर ) यह बात विद्या और प्रत्याक्ष आदि प्रमाण की रीति से अगुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इन को तुम भी अजर अमर मानते हो । ( प्रश्न ) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उन को पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप होता है इसीलिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव है क्योंकि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित भी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक् नहीं रह सकते । ( प्रश्न ) हां, जहां तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहां हम नहीं बचा सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का वायु रुक के नीचे वा पार्श्व



और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उस से उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी। देखो ! जैसे घर वा कोठरी के सब दरवाजे बंद किये वा परदे डाले जायें तो उस में उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुखबंध किया जाता है तब नासिकाके त्रिद्वों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकला हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता होगा। देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता और कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इस से मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुम को दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंद "जाजरूर" अधिक दुर्गन्ध युक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुम्बपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "विशुचिका" अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दन्त धावन, मुखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहनेवाले बहुत अच्छे हैं जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्मा-ऽनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे

संगियों का भी वर्चमान होता होगा । ( प्रश्न ) जैसे बंद मकान में जलाये हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख-पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचानेवाले हैं । मुख-पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि जलता है उस को आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उन को पीड़ा अवश्य पहुंचती है । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इन को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक उड़ कर वा दुर्गन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है । ( उत्तर ) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवसत्त्व मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्धि बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस से क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गन्ध के अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं लगाते कि वहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक

न गिरे इस से क्या छोटों के उपर धूक गिराना चाहिये ! और उस धूक से बच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उस के शरीर पर वायु के साथ त्रसेरणु अवश्य गिरेंगे उस का दोष गिनना अविद्या की बात है क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उम को पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा भिद्धान्त भूठा है क्योंकि जो तुम्हारे कीर्तिकर भी पुरुष बिद्वान् होते तो वैसे व्यर्थ बातें क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिन की वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो इस में प्रमाणः—

**पञ्चावयवयोगात्सुखसंविद्धिः ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७ ॥**

जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी मुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप वा आगे से सर्प व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्यबहिरीवाले को स्पर्श, पिन्धस रोगवाले को गन्ध और शून्यजिह्वावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है । देवो ! जब मनुष्य का जीव मुषुप्ति दशा में रहता है तब उस को मुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से मुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैद्य वा आज कल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा मुँघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को कोटत वा चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होगा । वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों को मुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे मूर्छित प्राणी मुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्छित होने से मुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उन को मुख दुःख की प्राप्ति ही असंभव नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उन को मुख दुःख क्यों नहीं होगा ? ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम मुषुप्ति में होते हो तब तुम को मुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ! मुख दुःख की प्राप्ति

का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा मुंघा के डाक्टर लोग अंगों को चीरते काँडते और काटते हैं जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अतिमूर्खित जीवों को सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होवे क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोति अर्थात् जितने हरे शाक, पात और कंदमूल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचने से हम लोग पापी हो जावें । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उन को पीड़ा पहुंचनी क्योंकि मानते हो ? मला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखती है तो हम को भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इन को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है मला जब घर का अन्त है तो उस में रहनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है । ( प्रश्न ) देखो ! तुम लम्बे विना उष्ण क्रिये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिय करो । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात अमजाल का है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रन्ध कर वह पानी सोंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उन के शरीरों का "तेजाव" पीते हो इस में तुम बड़े पापी हो । और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पिंयेंगे तब उदर में जाने से किंचित उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इस में पाप किसी को नहीं होगा । ( प्रश्न ) जैसे जाठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मताऽनुसार जीव मरजावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उन के शरीर उस जल में रन्ध

जायेंगे इस से तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं । ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते? इसलिये उस के पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस अम में रहते हैं कि न जाने साधु जी किस के घर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणों रसोई खेती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मानकर ऐसी बात करते हैं वे भी पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होंते हो वा नहीं कि छोटे-बड़े जीवों पर दया करनी और अन्य मतवालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोडानक्रोड जीव तुम्हारे मताऽनुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बन्ध क्यों न किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत् दण्ड देने और भ्रष्टों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमरूप धर्म का नाश है । कितनेक जैनी लोग दुकान करते उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कुकर्म करते हैं उन के निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते । और मुखपट्टी बांधने ढोंगमें क्यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलुञ्चन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े,

बैल, ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते? जब तुम्हारे बड़े ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीर वाले अत्यन्तमूर्च्छित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता।

अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं मुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना रत्नसार भाग १। पृष्ठ १६६—१६७ तक में लिखा है (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पांच सौ) धनुष लंबा और ८४००००० (चौरासी लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (२) अजितनाथ का ४५० (चार सौ पचास) धनुष परिमाण का शरीर और ७२०००००० (बहत्तर लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (३) संबवनाथ का ४०० (चार सौ) धनुष परिमाण शरीर और ६००००००० (साठ लाख) पूर्ववर्ष का आयु। (४) अभिनन्दन का ३५० (साढ़े तीन सौ) धनुष का शरीर और ५००००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (५) सुमतिनाथ का ३०० (तीन सौ) धनुष परिमाण का शरीर और ४००००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (६) पद्मप्रभ का १४० (एक सौ चालीस) धनुष का शरीर और ३००००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (७) पार्श्वनाथ का (दोसौ) धनुष का शरीर और २००००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (८) चन्द्रप्रभ का १२० (डेढ़ सौ) धनुष परिमाण का शरीर और १००००००० (दश लाख) पूर्व वर्षों का आयु। (९) सुविधिनाथ का १०० (सौ) धनुष का शरीर और २०००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (१०) शीतलनाथ का ६० (अधे) धनुष का शरीर और १००००० (एक लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (११) अशंसनाथ का ८० (अस्सी) धनुष का शरीर और ८४००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु। (१२) वामुपूज्य स्वामि का ७० (सत्तर) धनुष का शरीर और ७२०००००० (बहत्तर लाख) वर्ष का आयु। (१३) विमलनाथ का ६० (साठ) धनुष का शरीर और ६०००००० (साठ लाख) वर्षों का आयु। (१४) अनन्तनाथ का ५० (पचास) धनुष का शरीर

और ३००००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १५ ) धर्मनाथ का ४५ ( पैंत-  
लीस ) धनुषों का शरीर और १०००००० ( दश लाख ) वर्षों का आयु । ( १६ )  
शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषों का शरीर और १००००० ( एक लाख )  
वर्ष का आयु । ( १७ ) कुंथुनाथ का ३५ ( पैंतीस ) धनुष का शरीर और ६५०००  
( पंचानवे सहस्र ) वर्षों का आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० ( तीस ) धनुषों का  
शरीर और ८५००० ( चौरासी सहस्र ) वर्षों का आयु । ( १९ ) मल्लीनाथ का  
२५ ( पच्चीस ) धनुषों का शरीर और ५५००० ( पचपन सहस्र ) वर्षों का आयु ।  
( २० ) मुनिमुवृत का २० ( बीस ) धनुषों का शरीर और ३०००० ( तीस स-  
हस्र ) वर्षों का आयु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चौदह ) धनुषों का शरीर और  
१००० ( एक सहस्र ) वर्षों का आयु ( २२ ) नेमिनाथ का १० ( दश ) धनुषों का  
शरीर और १००० ( एक सहस्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पार्श्वनाथ का ६ ( छौ )  
हाथ का शरीर और १०० ( सौ ) वर्ष का आयु । ( २४ ) महावीर स्वामी का ७  
( सात ) हाथ का शरीर और ७२ ( बहत्तर ) वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर  
जैनियों के मत चलानेवाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते  
हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इस में बुद्धिमान् लोग विचार लेवें कि इतने बड़े श-  
रीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुतही  
थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एक लाख  
दश सहस्र और एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनि-  
यों का कथन संभव कैसे हो सकता है ? अब और भी मुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४-नाग-  
केत ने आम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली ( ! ) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५—  
महावीर ने अंगूठे से पृथिवी को दबाई उस से शेषनाग कप गया ( ! ) कल्पभाष्य  
पृष्ठ ४६—महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८  
वें स्वर्ग को गया ( ! ) कल्पभाष्य पृष्ठ ४७—महावीर के पग पर खीर पकाई और  
फन न जले ( ! ) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६—छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया ( ! ) । रत्ना-  
सारभाग १ प्रथम पृष्ठ १४—शरीर के मैल को न उतारे और न खुजलावे । विवेकसार  
भा० १ पृष्ठ १५—जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़-  
कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का अतिप्रिय था । विवेक० भा०  
१ पृष्ठ १२७—राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२७—

एक कोशा वेश्या को पाली में सरसों की देरी सम उस के ऊपर कूलों से ढकी हुई मुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु मुई धर्म में मड़ने न पई और सरसों की देरी बिखरी नहीं (!!!) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८- इसी कोशा वेश्या के साथ एक म्भूत मुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया पश्चात् दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोश वेश्या भी जैन धर्म को पालती हुई सद्गति को गई । विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५- एक सिद्ध की कथा जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८- बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता पिता कुलाचार्य ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होनी ( समीक्षक ) अब देखिये इन की मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है और पृथिवी के ऊपर अंगूठे से दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेषनाग ही नहीं तो कपेगा कौन ? ॥ भत्ता शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं उस को काटनेवाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये वह कितनी मिथ्या बात है ! ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकई तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ भत्ता छोटे से पात्र में कभी ऊट आ सकता है ! ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते और न मुजजाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उस की दया और क्षमा कहाँ गई ? जब महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की देरी पर मुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना मुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव झूठ नहीं तो क्या है ? ॥ धर्म किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय ! ॥ भत्ता कथा वस्त्र का होता है वह नित्य प्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? ॥ अब ऐसी २ असंभव कहानी इन की लिखें तो जैनियों के भोथे पोथों के सदृश बहुत बड़ ज्ञाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् थोड़ी सी इन जैनियों की बातें छोड़के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये:—



दोससि दोरवि पद्मे । दुगुणा लवण मिषाय ईसं मे ।  
 बारसससि बारसरवि । तप्यमि इनि दिठ ससि रविषो ॥  
 प्रकरण० भा० ४ संग्रहकी सूत्र ११ ॥ गाथा ६३

जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात् ४ चार लाख कोस का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं ॥ और इन को तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर ब्यालीस चन्द्रमा और ब्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त ब्यालीस को तिगुणा करे तो एक सौ छब्बीस होते हैं उन में धातकीखण्ड के बाहर लवण समुद्र के ४ चार और जंबूद्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ एक सौ चवालीस चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछिले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूर्वोक्त जंबूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धातकीखण्ड के और ब्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्री जिन(भद्रगणक्षिमाश्रमण)ने बड़ी 'मधयणी', में तथा "योतीसकरण्डक पयला" मध्ये और "चन्द्रपन्नति" तथा "सूरपन्नति" प्रमुखभिद्धान्त ग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है । (समीक्षक) अब मुनिये ! भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ चार सौ बानवे और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यासिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महाअन्धेर में होते तो जन्म भर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जंबूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आ सकें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बड़ी भूल है ॥

दो ससि दो रविपंती एगंतरियाह सठिसंखाया ।

मेरुपयाहिबंता । माकुसन्वित्ते परिअडंति ॥

प्रकरख० भा० ४ । संग्रहख० ७६ ॥ गणिका ६५

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (अर्थात्) वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के आन्तरे से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है इस प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ति में ६६ चन्द्रमा और एक २ सूर्यपंक्ति में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ति जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जम्बूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में बिहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, जैसे ही लवण समुद्र एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकी-खण्ड के ६, कालोदधिके २१, पुष्करार्द्ध के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं । और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी । ( समी-क्षक ) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चन्द्रमा जैनीयों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? और रात्रि में शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फँसते हैं अन्य नहीं । जब एक सूर्य इस भूगोल के रहस अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो के एक वर्षों का दिन और रात होंगे । और (सु-मेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अन्धे में रहेंगे ॥

समस्तचरख सहियासब्बलोगं कुसे निरवसेसं ।

ससयचउदसभाए पंचयसुपदेसबिरईए ॥

प्रकरण० भा० ४ । संस्कृत०-१३५ ॥

सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्रघात अवस्था से सर्व चौदह राज्य-  
लोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरंगे ॥ ( समीक्षक ) जैनी लोग १४ चौदह राज्य मा-  
नते हैं उन में से चौबहवें की प्रिया पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े  
दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली अर्थात् जिन  
को केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे इस लोक में जाते हैं और अ-  
पने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं  
वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस की आत्मा एकदशी है वही  
जाता आता और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं  
हो सकता जो जैनियों के तीर्थंकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्याप-  
क सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यनन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवि-  
त्र, ज्ञानस्वरूप है उस को जैनी लोग मानते नहीं कि जिस में सर्वज्ञादि गुण यथात्म  
घटते हैं ॥

गर्भनभरति पलियाज । तिगाउ उक्कोसते जहजेणं । गर्भ १६  
मुच्छिम दुहावि अन्तमुहु । अङ्गुल असंग्र भागनणु ॥ २४१ ॥

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भज दूसरे गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उन में  
गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर ।  
( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीरवाले मनुष्य इस  
भूगोल में बहुत थोड़े सगा सकें और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिखे अग्र्ये  
हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने  
चाहियें जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य  
निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो  
उन के रहने को नगर भी लाखों कोसों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर  
भी न बस सके ॥

पणया ललरककोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफलिहचिमला ।

(तदुबरि गजोयसंते लोमन्तो तच्छ सिद्धिदि) ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थसिद्धि विमान विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वह

बाटला और लंबेपन और पोलपन में ४५ पैतालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब घ-  
बला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्ध भूमि है इस को  
कोई 'ईषत्' 'प्राग्भरा' ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वाथ सिद्धशिला विमान से १२ यो-  
जन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्यभाग में  
८ योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के  
सदृश पतली उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है (उस शिला से ऊ-  
पर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है) ॥ ( समीक्षक )  
अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा के  
ऊपर ४५ पैतालीस लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो  
तथापि उस में रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर  
निकलने में मुक्ति के मुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उन को वायु  
भी न लगता होगा यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फँसाने के लिये भ्रम जाल है ॥

वित्तचउरिं दिस सरीरं । वार सजोयणति कोसच उकोसं  
जोयणसहस पखिंदिय । उहे बुच्छन्नि विसेसंतु ॥

प्रकरण भा० ४ । संग्रह० सू० २६७ ॥ अथ २२३

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट जानना  
और दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुरिन्द्रिय  
अमरादि का शरीर ४ कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात् ४ स-  
हस्र कोश के शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक ) चार २ सहस्र कोश के प्रमाणवाले शरी-  
रधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस  
भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना  
और मार्ग पूछें और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र  
कोश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये बत्तीस सहस्र कोश का घर तो चा-  
हिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन नुक जाय तो भी घर न बन  
सके, इतने बड़े आठ सहस्र कोश की छत बनाने के लिये लट्टे कहां से लावेंगे ? और  
जो उस में खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बातें  
मिथ्या हुक्मा करती हैं ॥

ते धूला पल्ले विहसं खिज्जाचे बहुति सञ्चेवि ।

तेइकिक्क असंखे । सुहुमे खम्मे एकप्पेह ॥

प्रकरण० भा० ४ लघुच्छेत्र । समासप्रकरण सूत्र ४ ॥

पूर्वोक्त एक अङ्गुल लोम के खण्डों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा कुंआ हो, अङ्गुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख सत्तान सहास्र एकसौ बावन होते हैं और अधिक से अधिक । ३३०७६२१०४" २४६५६२५" ४२१.६६६०, ६७५३६००,, ००००००० तैतीस कोड़ा कोड़ी सात लाख बासठ हजार एकसौ चार कोड़ा कोड़ी,, चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने कोड़ाकोड़ी,, तथा व्यालीस लाख उर्नीस हजार नौ सौ साठ इतनी कांड़ा कोड़ी,, तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार और छः सौ कोड़ाकोड़ी" इतनी वाटला धन योजन पत्योपम में सर्व स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकान्त होता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात मूद्धम रोमाणु होंवें ! ( समीक्षक ) अब देखिये ! इन की गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खण्ड कल्पते हैं; इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मनसे किये भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अङ्गुल रोम के असंख्य खण्ड हो सकें ? ॥

जंबूद्वीपप्रमाणं गुलजायाणलरक वटविरकंभी ।

लवणाईयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुच्छेत्रसमा० सू० १२ ॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजनका प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंबूद्वीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जम्बू-द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छःठा बत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहास्र

परिधिवाले अमोल में कर्षण सम्भूत हैं ! इस से वह बात केवल मिथ्या है ॥

कुरुनइषुलसी सहसा । छुच्येन्नहर्ण उपह विजयं ।

दोदो महानइउ । चनुदस सहसा उपत्तयं ॥

प्रकररवा० भा० ४ । लघुचेत्रसमा० सू० ६३ ॥

कुरुक्षेत्र में ८४ चौरासी सहस्र बंदी हैं ॥ ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में लज्जा भी न आई ।

यामुत्तरा उताउ । इमेग सिंहासनाउ अइपुब्बं । चउ सु-  
वितास निआसण, दिसिभवजिण मज्जणं होई ॥ प्रकररवाकर

भा० ४ । लघुचेत्रसमा० सू० ११६ ॥

उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक सिंहासन जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतीपाण्डुकम्बला, उत्तर दिशा में अतिरक्त कम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं । ( समीक्षक )—देखिये इन के तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला की ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इन की बहुत सी बातें गोलमाल हैं, कहां तक लिखें किन्तु जल छान के पीना, और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवप्रस्त है इतने ही लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा जान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हंडे में बुडते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल विदित हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी बात समझ लेंगे बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं इस के आगे ईसाइयों के विषय में लिखा जायगा

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मितं सत्यार्थप्रकाशं

सुभाषो विभूषिते नास्तिकमतान्तरगतचारवाक-

बौद्धजैनमनखण्डनमण्डनविषये ब्राह्मणः

समुल्लासः सम्पूर्वः ॥ १२ ॥

## अनुभूमिका ( ३ )

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां ( १२ ) तेरहवें समुल्लास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है. इस से यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण समझते हैं । इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने किये है । उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझ को बाइबल में बहुत सी शंका हुई हैं उन में से कुछ थोड़ी सी इस १२ तेरहवें समुल्लास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ । इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इन का मत भी कैसा है इस लेख में यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पक्की प्रतिपत्ती होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्यासत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा । सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असम्मति दें वा लिखें, नहीं तो सुना करें क्योंकि जैसे पढ़ने से परिडित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है । यदि श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझही जाता है जो कोई पक्षपातरूप याना-रूढ़ होके देखते हैं उन को न अपने और न परस्ये गुणदोष विदित हो सकते हैं

मनुष्य का आत्मा बर्थायोग्य सत्याऽसत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में घिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस ग्रन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा भूटे. जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं झगड़ा भूटे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा भूटा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्याऽसत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय। अब मैं इस १३ वें समुदाय में ईसाईमतविषयक थोड़ा सा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करता हूँ विचारिये कि कैसा है ॥

अलपतिलखन विचक्षणवेषु ॥



## अथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भः ॥

### अथ कृश्चीनमतविषयं समीक्षिष्यामः ॥

अब हम के आगे ईसाइयों के मतविषय में लिखते हैं जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मन निर्दोष और इन की बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं । प्रथम बाइबल के तौरों का विषय लिखा जाता है

१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा और पृथ्वी बेडौल और मृनी थी । और गहिरग पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलना था ॥ पर्व १ । आय० १ । २ ॥

समीक्षक आरम्भ किस को कहते हो : ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । ( समीक्षक ) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थी : ( ईसाई ) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते तो हम पुस्तक पर विश्वास क्यों किया : कि जिस मे सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भंग हुए मत में क्यों फंसाते हो : और निःसंदेह सर्वशक्तानिवाक वेदमन को स्वीकार क्यों नहीं करने : जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे : आकाश किस को मानने हो : ( ईसाई ) पोल और ऊपर को ( समीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विभु पदार्थ और अतिमृत्तम है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और आकाश था वा नहीं : जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारण और जीव-कहां रहने थे : विना अबकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौल, उस का ज्ञान कर्म बेडौल होता है वा सब डौलवाला : ( ईसाई ) डौलवाला होता है । ( समीक्षक ) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडौल थी ऐसा क्यों लिखा : ( ईसाई ) बेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी

बराबर नहीं थी। (समीक्षक) फिर बराबर किस ने की? और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है? इस लिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चूक कभी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की मृष्टि बेडौल लिम्बी इस लिये वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है? (ईसाई) चेतन (समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक मनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। (समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किस से देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था?। इस से यही भिन्न होना है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उस के गुण कर्म स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त, मच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्वभाव, अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२. और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्व १। आ. ३। ४ ॥

समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ली? जो सुनी हा तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है? पहिले नहीं जानता था, जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३. और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नाँचे

के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ और विहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ । आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात मुन ली ! और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहा ! (प्रथम-आयत में आकाश को सृज्य था पुनः आकाश का बनना व्यर्थ हुआ ) जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्व व्यापक है इसलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहा से हो गई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥

४-तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ । आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीक्षक-यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उस के सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहाँ से किया ? ( ईसाई ) मट्टी से बनाया । ( समीक्षक ) मट्टी कहाँ से बनाई ? ( ईसाई ) अपनी कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से । ( समीक्षक ) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि है । ( समीक्षक ) जब अनादि है तो जगत् का कारण मनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ( ईसाई ) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी । ( समीक्षक ) जो नहीं था तो यह जगत् कहाँ से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के सदृश न होने से यहाँ निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थात् परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है जैसा कि जगत् की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसा ही मान लो जिस से ईश्वर जगत् को बनाता है, जो आदम

के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५- तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उस के नथुनों में जीवन का श्वास फुंका और आदम जीवता प्राप्त हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और मले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पर्व २ आ० ७।८।९ ॥

समीक्षक-जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बना कर उस में आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जनता था कि इस को पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उस के नथुनों में ईश्वर ने श्वास फुंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश, जन्म मरण, वृद्धि, क्षय, तृषा, तृषा आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इस लिये यह तौरत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६- और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली और उस की सन्ति मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व २ आ० २१।२२ ॥

समीक्षक-जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उस की स्त्री को धूली से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान् लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात् "फिलासफी" चिलकसो है ! जो आदम को एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो तब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ? और स्त्री के शरीर में एक पसली

होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामिथ्री से सब जगत् बनाया उस सामिथ्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इस लिये यह बाहबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥

७—अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से न खाना ? । और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जायेंगी और तुम भले और बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में मुम्बाद और दृष्टि में मुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उस ने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और वे जान गये कि हम बने हैं सो उन्होंने अंजीर के पत्तों को मिला के सिबा और अपने-लिये ओढ़ना बनाया ॥ तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक बन् के पशु से अधिक स्थापित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुम्ह में और स्त्री में और तेरे वंश और उस के वंश में बैर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उस की पड़ी को काटेगा ॥ और उस ने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुम्ह पर प्रभुता करेगा ॥ और उस ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ से मैंने तुम्हें खाने को बर्जा था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर तू उस से पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह काँटे और ऊँट कटारे तेरे लिये उगावेगी और तू खेत का माग पात खायगा ॥ तौरत उत्पत्ति० पर्व० ३ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ ॥

समीक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस भूस्त सर्प अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उस को दृष्ट न बनाता तो वह दृष्टता क्यों करता ? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता

तो बिना अपराध उस को पापी क्यों बनाया ? और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता ? और जो आप भूटा और दूसरे को भूट में चलावे उस को शैतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम और हवा से भूट कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने से क्यों बर्जा और जो बर्जा तो वह ईश्वर भूटा और बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नहीं. जब ईश्वर ने फल खाने से बर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किस लिये की थी ? जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आज कल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं आता क्या ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य झुली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से झुल कपट करेगा वह झुली कपटी क्यों न होगा ? और जो इन तीनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह भूट बोला और उन को बहकाया यह "फिलास-फी" देखो क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था ? और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह भूटा क्यों नहीं ? और जो वह सच्चा हो तो यह भूटा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भला ऐसा पुम्नक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योम्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥

c-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चमकते हुए खड़ा जो चारों ओर

पूमते थे लिये हुए ठहराये जिन से जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पर्व ३ ।  
आ० २२ । २४ ॥

समीक्षक—भला ! ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और अन क्यो हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ! क्या यह बुरी बात हुई ! यह शंका ही क्यों पड़ी ! क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है अब देखो ! आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को भविष्यन् का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः निकालना पड़ेगा इस लिये ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥

९—और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी भुंड \* में से पहिलौठी और मोटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने हावील और उस की भेंट का आदर किया परन्तु काइन का उस की भेंट का आदर नकिया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल गया ॥ तौरे० । पर्व आ० ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हावील का मत्कार और काइन का तथा उस की भेंट का तिग्मकार क्यों करता ! और ऐसा भ्रगड़ा लगाने और हावील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं । बगीचे में आना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इस से विदित होता है कि वह बाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ९ ॥

१०—जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हावील कहां है और वह बोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रख वाला हूँ ॥ तब उस ने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से सापित है ॥ तौ० पर्व ४ । आ० १ । १० । ११ ॥

\* भेड़ बकरियों के भुंड ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर का इन से पूछे बिना हाबिल का हाल नहीं जानता था और लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? वे सब बातें भविष्यत् की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥

११—और हनूक मत्सिलह की उत्पत्ति के पीछे तीस सौ वर्षों ईश्वर के सम्बन्ध चलता था । ती० पर्व ५ । आ० २२ ॥

समीक्षक—भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उस के साथ २ क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त भिगाकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो उन का कल्याण हीवे ॥ ११ ॥

१२—और उन से बेटियां उत्पन्न हुई । तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें व्याहा । और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर के आदम पुत्र की पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए जो आगे से नामी थे । और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बुगी हांती है । तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे आतिशोक हुआ । तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुओं और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूं । ती० पर्व ६ अ० १ । २ । ४ । ५ । ६ । ७ ।

समीक्षक—ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं ? और ईश्वर की स्त्री, सास, श्वसुर, साला और सम्बन्धी कौन हैं ? क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विहाह होने से ईश्वर इन का सम्बन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? (किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जङ्गली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत् की बात जानने वह जीव है क्या अब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था) ? और पछताना आतिशोकदि होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से



अतिरोकादि से पृथक् हो सकता था। भला पशु पत्नी भी कुछ हो गये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता ? इसलिये न वह ईश्वर और न वह ईश्वरकृत पुस्तक हो सकती है जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्रूर, दुःख-शोकादि से रहित "सच्चिदानन्दस्वरूप" है उस को ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १२ ॥

१३—उस नाब की लम्बाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की होगी। तू नाब में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियां तेरे साथ। और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाब में लेना जिस से वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी हों। पंखों में से उस के भांति २ के और दोरु में से उस के भांति २ के और पृथिवी के हर एक रेगवैयों में से भांति २ के हर एक में से दो २ तुझ पास आवें जिस से जीते रहें। और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उन के लिये भोजन होगा। सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। तौ० पर्व ६ आ० १५। १८। १९। २०। २१। २२।

समीक्षक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के बक्त को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाब में हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि क्रोड़ों जन्तु और उन के खाने पाने की चीजें वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १३ ॥

१४—और नूह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंखियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध संधा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी साप न दूंगा इस कारण कि आदमी के मन की भावना उस की लड़काई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मांरूंगा। तौ० पर्व ८ आ० २०। २१।

समीक्षक—वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये नाते वेदों से बाइबिल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध संधा ? क्या यह ईसाईयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पज्ञ नहीं है ? कि कभी साप देता है और

\*चौपाए ॥

कभी बड़ताता है, कभी कहता है साप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मार डालता और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों कीसी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४ ॥

१५—और ईश्वर ने नूह को और उस के बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा । कि हर एक जीता चलता जंतू तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी तरकारी के समान सारी जंतु-जुष्टों की केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के लोहसमेत मत खाना । तौ० पर्व २ आ० १ । ३ । ४ ।

समीक्षक—क्या एक को प्राण कष्ट दे कर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हों ? इसीप्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् हैं ऐसा न होने से इन का ईश्वर कसाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥

१६—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी । फिर उन्होंने ने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मत जिस की चोटी स्वर्ग-स्त्रों पहुँचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न हो जायें । तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मत के जिसे आमद के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उनसब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुल करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उस से अलग न किये जायेंगे । आओ हम उतरें और वहां उन की भाषा को गड़बड़ावें जिस से एक दूसरे की बोली न समझें । तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे । तौ० पर्व ११ । आ० १ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ।

समीक्षक—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय वह ईसाइयों के ईर्ष्याक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब का सत्यानाश किया उस ने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह रैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इस से

यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह बिना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता है ? ॥ १६ ॥

१७— तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूँ तू देखने में सुन्दर ली है। इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रखेंगे। तू कहियो कि मैं उस की बहिन हूँ जिससे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे। तौ० पर्व १२। आ० ११। १२। १३।

समीक्षक-अब देखिये ! जो अविरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उस के कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं भला जिन के ऐसे पैगम्बर हों उन को विषा वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १७ ॥

१८— और ईश्वर ने अविरहाम से कहा कि तू और तेरे पीछे तेरा वंश उन की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का स्वतनः किया जाय। और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिव के पुरुष का स्वतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो। रूपे से मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूपे से मोल लिया गया हो अथवा उस का स्वतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में ससर्वदा नियम के लिये होगा। और जो स्वतनः बालक जिस की खलड़ी का स्वतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा है। तौ० पर्व १७।

आ० ८। १०। ११। १२। १३। १४।

समीक्षक-अब देखिये ! ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह स्वतनः करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आंस के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे और वे लघुशंका के पक्षी कुछ मूकान्त कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस

आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी भूटा नहीं है मिथ्या हो गई इस का शोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥

१९—जब ईश्वर अबिरहाम से वार्ते कर चुका तो ऊपर चला गया । तौ० पर्व १७ । आ० २२ ।

समीक्षक—इस से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत् था जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् विदित होता है ॥ १९ ॥

२०—फिर ईश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था । और उस ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तम्बू के द्वार पर से उन की भेंट को दौड़ा और भूमि तक दण्डवत् की । और कहा हे मेरे स्वामी यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये । इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये । और मैं एक कौर रोटी लाऊं और आप तृप्त हूजिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर । और अबिरहाम तंबू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नुआ चोखा पिसान ले के गूंध और उस के फुलके पका । और अबिरहाम मुंड की और दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बकड़ा लेके उस को दिवा उस ने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया और उस ने मक्खन और दूध और वह बकड़ा जो पकाया था लिया और उन के अग्ने धरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंने स्वाम्या । तौ० पर्व १८ । आ० ११ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ।

समीक्षक—अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिन का ईश्वर बकड़े का मांस खाये वह के उपासक मान बकड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़े ? जिस को कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इस से विदित होता है कि जं-मली मनुष्यों की एक मशहली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम नाइबिल

में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २० ॥

२१—और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुक्कुराई कि जो मैं बुढ़िया हूँ सच मुच बालक जन्गी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ।  
तौ० पर्व १० । आ० १३ । १४ ।

समीक्षक—अब देखिये ! कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के बा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥ २१ ॥

२२—तब परमेश्वर ने सडूमपूरा पर गंधक और आम परमेश्वर की ओर से बर्षाया । और उन नगरों को और सारे चांगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया । तौ० उत्प० पर्व १९ । अ० २४ । २५ ।

समीक्षक—अब यह भी लीला बाइबिल के ईश्वर की देखिये । कि जिस को बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दवा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक में विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न करें ॥ २२ ॥

२३—आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावें और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें । तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस पिलाया और पहलोटी गई और अपने पिता के साथ शयन किया । हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावें नू जाकर शयन कर । सो लून की दोनों भेटियां अपने पिता से गर्भिली हुई । तौ० उत्प० पर्व १६ । आ० ३२ । ३३ । ३४ । ३६ ।

समीक्षक—देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्ययान के नशे में कुकर्म करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारावार है ? इसीलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥

२४—और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेंट किया और अपने बचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया । और सरः गर्भिली हुई । तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १ । २ ।

समीक्षक—अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ! क्या बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण देखता है ? ऐसा

विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से मर्त्यवती हुई !!! ॥ २४ ॥

२५—तब अबिरहाम ने बड़े लड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिम्बा और हाजिरः के कन्धे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया। उस ने लड़के को एक झाड़ी के तले डाल दिया। और वह उस के सम्मुख बैठ के चिला २ रोई। तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द मुना। तौ० उतर० २१। आ० १४। १५। १६। १७।

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी और चिला २ रोई हाजिरः और शब्द मुना लड़के का यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ! बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥

२६—और इन बातों के पीछे यां हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई और उसे कहा। हे अबिरहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले। उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इजहाक को बांध के उस बेदी में लकड़ियों पर धरा। और अबिरहाम ने लूरी ले के अपने बेटे को बात करने के लिये हाथ बढ़ाया। तब परमेश्वर के दूतने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है। तौ० उत्प० पर्व २२। आ० १। २। ६। १०। ११। १२।

समीक्षक—अब स्पष्ट हो गया कि यह बायबिल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और जो बायबिल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत् भद्रा को भी सर्वज्ञता से जान लेता इस से निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥

२७—सो आप हमारी समाधिमें में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िये जिस तें आप अपने मृतक को गाड़ें। तौ० उतर० पर्व २३। आ० ६।

समीक्षक—मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्योंकि वह सड़ के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है। ( भ्रम ) देखो ! जिस से प्रीति हो उस

को जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा कि उस को मुला देना है इसीलिये गाड़ना अच्छा है । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ! और गाड़ते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया अब दुर्गन्धमय मट्टी से क्या प्रीति ! और जो प्रीति करते हो तो उस को पृथिवी में क्यों गाड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम्ह को भूमि में गाड़ देवें तो वह धुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उस के मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईट, चूना डालना, क्वाची पर पत्थर रखना कौनसा प्रीति का काम है ? और सन्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को विगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है । दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ, हजार वा लाख अथवा कौड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बागीचा और न बसने के काम की रहती है इसी लिये सब से बुरा गाड़ना है उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्योंकि उस को जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खालेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत् को दुःखदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्योंकि उस को मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खायेंगे तथापि जो उस के हाड़ की मज्जा और मल सड़ कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जानाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस के सब पदार्थ अणु हो कर वायु में उड़ जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है ? । ( उत्तर ) जो अविधि से जलावे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है मुर्दे के तीन हाथ गहिरी, साढ़े तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लंबी, तले में डेढ़ बीता अर्थात् चढ़ा उतार वेदी खोद कर शरीर के बराबर घी उस में एक सेर में रत्ती भर फस्तूरी, मासा भर केसर, डाल न्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बीता लक भर के घी की आहुति दे कर जलाना चाहिये इसप्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इत्नी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेघ, पुरुषमेघ ब्रह्म है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें वह मीस्र मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसीप्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है

क्योंकि एक बिस्वा भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों मृतक जल सकते हैं भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कबर के देखने से भय भी होता है इस से गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २७ ॥

२८—परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई बिना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई । तौ० उत्प० पर्व २४ । आ० २७ ।

समीक्षक—क्या वह अबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आज कल बिगारी वा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चल कर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बातें ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कमी नहीं हो सकती किन्तु अज्ञानी मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥

२९—इसमअएल के बेटों के नाम ये हैं इसमअएल का पहिलौठा नवीत, और कदिर और अदबिएल, और मिवसाम, और मिसमाअ, और दूमः और मस्सा । हदर, और तैमा, इतूर, नफीस, और क्रिदमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५ । आ० १३ १४ । १५ ।

समीक्षक—यह इसमअएल अबिरहाम से उस की हाजिरः दासी का हुआ था ॥२९॥

३०—मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने पिता के पास ले जाइओ जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे । और रिक्कः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौ का अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअकूब अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलौठा एसौ हूँ आप के कहने के समान मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिस्ते आप का प्राण मुझे आशीष दे । तौ० उत्प० पर्व २७ । आ० २ । १० । १५ । १६ । १९ ।

समीक्षक—देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध और पैम्बर बनेते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३० ॥

३१—और यअकूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उस ने अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल डाला । और उस स्थान



का नाम बैलायल स्वप्ना । और यह पत्थर जो मैंने स्वप्ना स्वप्ना किया ईश्वर का घर  
होगा । तौ० उत्प० पर्व २८ । आ० १८ । १६ । २२ ।

समीक्षक—अब देखिये ! जङ्गलियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाये और  
इस को मुसलमान लोग “बयतुलमुकद्दस” कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और  
उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी क्या कहना है ईसाई लोगो  
महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥

३२—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और  
उस की कोख को खोला और वह गर्मिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर  
मेरी निन्दा दूर किई । तौ० उत्प० पर्व ३० । आ० २२ । २३ ।

समीक्षक—वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है स्त्रियों की कोख खोलने  
को कौन से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली ये सब बात अन्धाधुन्ध की हैं ॥ ३२ ॥

३३—परन्तु ईश्वर आरामी लावनकने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा  
कि चौकस रह तू ईश्वर यत्रकूब को भला बुरा मत कह क्योंकि अपने पिता के घर का  
निपट अभिलाषी है तूने किस लिये मेरे देवों को चुराया है । तौ० । उत्प० पर्व ३१ ।  
आ० २४ । ३० ।

समीक्षक—यह हम ममूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया बातें किई  
जाग्रत् साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबिल में लिखा है परन्तु अब  
न जानें वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जाग्रत् में भी ईश्वर नहीं  
मिलता और वह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणदि मूर्तियों को देव मान  
कर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों  
का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥

३४—और यत्रकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले ।  
और यत्रकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है । तौ० उत्प० पर्व ३२ ।  
आ० । १ । २ ।

समीक्षक—अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि  
सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहाँ तहाँ चढ़ाई  
कर के लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन ? ॥ ३४ ॥

३५—और यन्नकूब अकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन उस से मल्लयुद्ध करता रहा । और जब उस ने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उस की जांघ को भीतर से लुआ तब यन्नकूब के जांघ की नस उस के संघ मल्लयुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पै फटती हैं और वह बोला मैं तुम्हें जाने न देऊंगा जब तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यन्नकूब । तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यन्नकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यन्नकूब ने यह कहिके उस से पूछा कि अपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उस ने उसे वहां आशीष दिया । और यन्नकूब ने उस स्थान का नाम फनुएल रखवा क्योंकि मैं ने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनुएल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लंगड़ाता था ॥ इसलिये इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज तौ नहीं खाते क्योंकि उस ने यन्नकूब के जांघ की नस को चढ़ गई थी लुआ था । तौ० उत्प० पर्व २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ।

समीक्षक—जब ईसाइयों का ईश्वर असाइमल है तभी तो सरः और राखल पर पुत्र होने की कृपा की भला यह कर्मा ईश्वर हो सकता है ? और देखो ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उस की नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्टर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यन्नकूब लंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३५ ॥

३६—और यहूदाह का पहिलौटा पर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला । और ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह अपनी भाई की

पत्नी पास गया तो वीर्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह कर्म परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला । तौ० उत्प० प० ३८ ।  
आ० ७ । ८ । ९ । १० ।

समीक्षक—अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उस के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ? उस की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥

### तौरैत यात्रा की पुस्तक

३७—जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है । तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उस ने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया ॥ जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में भगड़ रहे हैं तब उस ने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है । तब उसने कहा कि किस ने तुम्हे हम पर अप्यत्त अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस रीति से तूने मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ॥ और नाग निकला ॥ तौ ३४०

समीक्षक—अब देखिये ! जो बाइबिल का मुख्य सिद्ध कर्ता मत का आचार्य मूसा कि जिस का चरित्र क्रोधादि दुर्गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, और चोरवत् राजदंड से बचने हारा, अर्थात् जब बालू का छिपाता था तो भूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना, उस ने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सदृश हुआ । इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे विद्याऽवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ ३७ ॥

३८—और फसह मेन्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस लोहू में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के ओर द्वार की दोनों ओर उस से छापो और तुम में से कोई बिहानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे क्योंकि परमेश्वर मिस के मारने के लिये आर पार जायगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और

नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे। तौ० या० प० १२। आ० २१।  
२२। २३।

समीक्षक—भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी हो सकता है? जब लोह का छापा देखे तभी इसराइल कुल को घर जावे अन्यथा नहीं। यह काम लुद्रबुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है इस से यह विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥

३९—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे पहिलौटे को फिराऊन के पहिलौटे से ले के जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बन्धुआ के पहिलौटे लों जो बन्दीगृह में था परगुन के पहिलौटे समेत नाश किये और रात को फिराऊन उठा वह और उस के सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा। तौ० या० प० १२। आ० २६। ३०।

समीक्षक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, वृद्ध और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तौ भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है। यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है ? ॥ ३९ ॥

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इस्राएल के सन्तान से कह कि वे आगे बढ़ें। परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से दो भाग कर और इस्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में हो कर चले जायेंगे। तौ० या० प० १४। आ० १४। १५। १६ ॥

समीक्षक—क्यों जी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़कें बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता। परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है ! इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असम्भव

लीला बाइबिल के ईश्वर ने की है परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर वैसे ही उस के सेवक और ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥४०॥

४१—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्व शक्तिमान् हूँ पितरों के अपराध का दण्ड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी लों देवैया हूँ ॥ तौ० य० प० २० । आ० । ५ ।

समीक्षक--भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ! जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा बिना अपराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥

४२--विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर । छः दिनलों तू परिश्रम कर । और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है । परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी । तौ० या० प० २० । आ० ८ । २ । १० । ११ ।

समीक्षक--क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ! और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जिस से थक के सातवें दिन सो गया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ? भला रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये !

॥ ४२ ॥

४३--अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे । अपने परोसी की स्त्री और उस के दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर । तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७ ।

समीक्षक--वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्नपर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्य के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिन को अपरोसी गिनें इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥४३॥

४४—सो अब लड़को में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो । परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रखो । तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ।

समीक्षक—वाह ! जी मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री, बालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी निर्वय वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥

४५—जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वह निश्चय घात कि या जाय । और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हे भागने का स्थान बता दूंगा । तौ० या० प० २१ । आ० १२ । १३ ।

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ! जो कहे ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥

४६—और कुरल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया । और मूसा ने आषा लोहू ले के पात्रों में रक्सा और आषा लोहू बेदी पर छिड़का । और मूसा ने उस लोहू को ले के लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ और वहां रहा और तुम्हे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा । तौ० या० प० २४ । आ० ५ । ६ । ८ । १२ ।

समीक्षक—अब देखिये । ये सब जङ्गली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और बेदी पर लोहू छिड़कता यह कैसी जङ्गलीपन असभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ? और जगत् की हानि क्यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाईबिल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष

लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का जिक्र भी नहीं । और वह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पर पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज़, नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख देता था और इन्हीं जङ्गलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४६ ॥

४७—और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य न जियेगा । और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह । और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो मैं तुम्हें पहाड़ के दरार में रखूंगा और जब लो निकलूं तुम्हें अपने हाथ से ढाँपूंगा । और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा । तौ० या० प० ३३ । आ० २० । २१ । २२ । २३ ।

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उस को ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा होगा तब क्या उस के हाथ का रूप उसने न देखा होगा ॥ ४७ ॥

### लयव्यवस्था की पुस्तक तौ ०)

४८—और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मगडली के तंनू में से यह वचन उसे कहा कि । इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात् ग्नय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ । तौ० लै० व्यवस्था की पुस्तक—प० १ । आ० १ । २ ।

समीक्षक—अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने-वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं आ सकता किन्तु मांसहारी प्रपञ्ची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४९—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारूम के बेटे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यशवेदी के चारों ओर जो मगडली के तंनू

के द्वार पर है छिड़ के । तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे । और हाकून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रखें और उस पर लकड़ी चुनें । और हाकून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैं विधि से बरें । जिस ते बलिदान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया । तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक । प० १ आ० । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । (चैतन्यी)

समीक्षक—तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के समे उस के भक्त मारें और वह मरवाने और लोह को चारों ओर छिड़कें, अग्नि में लोम करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसी से न बाइबिल ईश्वरकृत और न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ४६ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस ने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बड़िया परमेश्वर के लिये लावे । और बड़िया के शिर पर अपना हाथ रखे और बड़िया को परमेश्वर के आगे बली करे । लै० व्य० तौ० प० ४० । आ० १ । ३ । ४ ।

समीक्षक—अब देखिये ! पापों के लुड़ाने के प्रायश्चित्त; म्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!! ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अध्यक्ष पाप करे । तब वह बकरी का निसखोट नर मेन्ना अपनी भेंट के लिये लावे । और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है । तौ० लै० प० ४ । आ० २२ । २३ । २४ ।

समीक्षक—वाह जी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्ष अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बड़िया, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में संकित नहीं होते मुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को लोड के मुसभ्यधर्ममव वेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥



५२—और यदि उसे भेंड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये हुए अपराध के लिए दो पिंडुक्रियां और कपोत के दो बच्चे मरोड़ने के लिये लावे। और उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे। उस के किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उस के लिये क्षमा किया जायगा। पर यदि उसे दो पिंडुक्रियां और कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे। उस पर तेल न डाले। और वह क्षमा किया जायगा। तौ० लौ० प० ५। आ० ७। ८। १०। ११। १२। १३।

समीक्षक—अब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य भी न डरता होगा और न दरिद्र क्योंकि इन के ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है एक यह बात ईसाइयों की बायबिल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पापसे पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खुब आनन्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती। दया क्योंकर आवे इन के ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं? ॥५२॥

५३—सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिस ने उसे अढ़ाया

† इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिस ने बड़ड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान ( आटे ) तक लेने का नियम किया। अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे “गरदन मरोड़वाके,” लेता था अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े। इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया। जो जंगली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार करलिया। अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी और अन्नादि मंगा लिया करता था और मौज करता था। उस के दूत फरिते काम किया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बड़ड़ा; भेड़ी बकरी का बच्चा, कपोत और “अच्छे” पिसान का खानेवाला ईश्वर और कहां सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान् और न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर ?

और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सो उसी भाजक की होगी । तौ० लै० प० ७ । आ० ८ । १ ।

समीक्षक—हम जानते थे कि यहां देवी के भोगे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला उस से सहस्र गुणी बढ़ कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को भावे फिर ईसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी ! और अब भी उड़ाते होंगे ? मला कोई मनुष्य एक लड़के को मरबावे और दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है ? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबिल ईश्वरकृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावे ॥ ५३ ॥

### गिनती की पुस्तक

५४ सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अगल खेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बल-आम ने गदही को लाठी से मारा । तब परमेश्वर ने गदही का मुँह खोला और उस ने बलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा । तौ० गि० प० २२ । आ० २३ । २८ ।

समीक्षक—प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल विशुप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी सुदा वा उस के दूत नहीं दीखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये ? वा अब ईसाइयों से रुष्ट होगये । अथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

### समुएल की दूसरी पुस्तक

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को

पहुँचा । कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है (जो निकाल के लिये तू एक घर बनवायेगा क्यों जब से इससएल के सन्तान के मित्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिन त्यों घर में वास न किया परन्तु तब मैं और मेरे में फिरा किया) तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७ । आ० ४ । २ । १ ।

समीक्षक- अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहधारी नहीं है । और उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बना दे तो उस में आराम करूं क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या करें विचारे फंस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥

### राजाओं का पुस्तक

५६—और बाबुल के राजा नबूसद नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अहान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया और उस ने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भुवन और यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ ही यरूसलम की भीतों को चारों ओर से ढा दिया । तौ० रा० प० २५ । आ० ८ । १ । १० ।

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इन का ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उस के दूत किधर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मित्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था ? अब शूरवीरों के सामने चुप चाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा कराली ऐसी ही हजारों इस पुस्तक में निकम्पी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥

जबूर कृशर भाग

काल के समाचार की पहिली पुस्तक

५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र मनुष्य भिरे गये । काल० ५० १ । प० २१ । आ० १४ ।

समीक्षक- अब दोस्तिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इसराएल कुल को बहुतसे-बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता था अब भट्ट क्रोधित हो कर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला जो यह कि-सी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-

चखे रुष्टः चखे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः चखे चखे ॥

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः ॥ ६ ॥

जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात् क्षण २ में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उस की प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक

५८-और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर भूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जांचा है कि उस के समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अब लों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है । तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हाड़ मांस को छू तब वह निस्संदेह तुझे तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवेलों बुरे फोड़ों से मारा ।

जबूर ऐयू० ५० २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ ।

समीक्षक- अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उस के सामने उस के भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दबड़, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है । एक शैतान ने सब को भयभीत कर रक्खा है और ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो अयून की परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥

### उपदेश की पुस्तक

५९- हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौद्धिहान और मूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का भू-भट है । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है उसे दुःख में बढ़ता है । ज० उ० प० १ । अ० १६ । १७ । १८ ॥

समीक्षक- अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दो मानते हैं, और बुद्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह बाइबिल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान् की भी बनाई नहीं है ॥ ५९ ॥

यह थोड़ा सा तैरित ज्वर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मत्तूरचित आदि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिस को ईसाई लोग बहुत प्रमाथभूत मानते हैं जिस का नाम इञ्जील रक्खा है उस की परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कैसी है ।

### मत्तूरचित इंजील

६०- यीशु ख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मरियम की यूसुफ से मंगनी हुई थी पर उन के इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा हे दाऊद के सन्तान यूसुफ ! तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि उस को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है । इ० प० १ । आ० १८ । २० ।

समीक्षक— इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो मत्तूरचादि प्रमाण और सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम

है संभ्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्गम है ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और झूठ मूठ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है जैसा यह असम्भव प्रपंच रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है ऐसी २ बातों को आंस के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ादी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ १० ॥

६१—तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उस की परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करने हारे ने कहा कि तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें । इ० प० ४ । आ० १ । २ । ३ ।

समीक्षक— इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों-कि जो सर्वज्ञ होता तो उस की परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रखें तो कभी बच सकेगा ? और इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर रोटियां क्यों न बना देता ? और आप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन को रोटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उस के सब काम बिना भूल चूक के हैं ॥ ११ ॥

६२—उस ने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के मज्जुवे बनाऊंगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उस के पीछे हो लिये । इ० प० ४ । आ० १६ । २० । २१ ।

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरत में दश आज्ञाओं में लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से उन की उमर बढ़े सो ) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे भी

माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और वह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत में फँसा कर अपना प्रबोधन साधें जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँसावें तो क्या आश्चर्य है ? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फँसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँसा ले उस की अधिक प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है । इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन बिचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इन के भ्रमजाल से बच अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

६३—तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और मृगीवाले और अर्द्धाङ्गियों को उस पास लाये और उमने चंगा किया ३० मं० प० ४ आ० २३ । २४ । २५ ॥

समीक्षक—जैसे आज कल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो वह इञ्जील की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फँसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवीपों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हैं ॥ ६३ ॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है क्यों कि मैं तुम से कहता हूँ कि जब लों आकाश और पृथिवी टल न जायें तब लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इसलिये इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप कर और लोगों को वैसे ही सिखावै वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावेगा । इं० मत्ती० प० ५ । आ० ३ । ४ । १८ । १९ ।

समीक्षक—जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन हैं

वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राजव्यवस्था खण्ड खण्ड हो जायगी ! और दीन के कहने से जो कंगले लेंगे सब लो डीक नहीं को निरभिमानी लेंगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन और अभियान का एकान्त नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस को सन्तोष कभी नहीं होता इतलिये यह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का संचय मत करो । इ० म० । प० ६ । आ० ११ । १२ ।

समीक्षक—इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लो जङ्गली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर का प्रार्थना करता और सिखलाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥

६६—हर एक जो मुझ से हे प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा । इ० म० । प० ७ । आ० २१ ।

समीक्षक—अब विचारिये बड़े २ पादरी बिशप साहब और कृश्र्चान लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूंगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करने हारे मुझ से दूर होओ । इ० । म० । प० । ७ । आ० २२ । २३ ।

समीक्षक—देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८—और देखो एक कोड़ी ने आ उस को प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मैं तो चाहता हूँ



शुद्ध हो जा और उस का कोढ़ तुरन्त शुद्ध हो गया । इ०म० । प० ८ । आ० २ । ३ ।  
 समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फंसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग इन  
 विश्व साष्टिकम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की  
 बात जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की बरी हुई सेना को जिला दिई वृह-  
 स्पति के पुत्र कच को टुकड़ा २ कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया फिर भी  
 शुक्राचार्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मार कर शुक्राचार्य को खिला दिया  
 फिर उस को पेट में जीता कर बाहर निकाला अप मर गया उस को कच ने जीता  
 किया कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित वृक्ष को तत्क से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष और  
 मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को  
 चंगा किया लाखों अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या  
 क्यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं ? जो दूसरे की  
 बात को मिथ्या और अपनी भूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं ? इसलिये  
 ईसाईयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥

६९—तब भूतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल उस से आ मिले जो यहां लों  
 अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखो उन्होंने ने चिल्ला  
 के कहा ह यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे  
 हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को  
 निकालते हैं तो मूअरों के भुण्ड में पैठने दीजिये उस ने उन से कहा जाओ और वे  
 निकल के मूअरों के भुण्ड में पैठे और देखो मूअरों का सारा भुण्ड कड़ाड़े पर से  
 समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा । इ०म० । प० ८ । आ० २८ । २९ ।  
 ३० । ३१ । ३२ । ३३ ।

समीक्षक—भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब भूठी हैं क्योंकि मरा  
 हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद  
 करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हैं वे ऐसी  
 बातों पर विश्वास लाते हैं और उन मूअरों की हत्या कराई मूअरवालों की  
 हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पाप क्षमा  
 और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर सका ? और  
 मूअर वालों की हानि क्यों न भर दी ? क्या आज कल के मुशिक्षित ईसाई अंगरेज

लोग इन गणों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो अगजाल में पड़े हैं ॥६६॥

७०—देखो लोग एक अर्द्धज्ञी को जो खटोले पर पड़ा था उसे पास लाये और यीशु ने उन का विश्वास देख के अर्द्धांगी से कहा हे पुत्र दाढस कर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूँ । म० इः । प० ६ । आ० २ । १३ ॥

समीक्षक—यह भी बातें वैसी ही असंभव हैं जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन दे कर फसाना है ।

जैसे दूसरे ने पीये मद्य भांग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है यही ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्त्ताओं ही को यथा योग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी हो जावे देखो धर्म ही कल्याणकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥

७१—यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग और हर व्याधी को चक्का करें । बोलने हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है । मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलान करवाने को, नहीं, परन्तु खड़ग चलवाने का आया हूँ मैं मनुष्य को उस के पिता से और बेटी को उस की मां से और पतोहू को उस की सास से अलग करने को आया हूँ मनुष्य के घर ही के लोग उस के वैरी होंगे ॥ आ० ३४ । ३५ । ३६ । ई—म० प० १० । आ० १३ ॥

समीक्षक—ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) तिस रु० के लोभ पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भूँगे भला ये सब बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकालना बिना ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सृष्टिक्रम से असंभव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है यदि जीव बोलने हारे नहीं ईश्वर बोलने हारा है तो जीव क्या काम करते हैं ? और सत्य वा मिथ्याभाषण का फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है । और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाई को आया था वही आज कल

कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे? यह ईसा ही का काम होता कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह अष्ट पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२—तब यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने ने कहा सात और छोटी मछलियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने उन सात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खा के तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने ने खाया सो स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे । म० प० १५ । आ० ३४ । १५ । ३६ । ३७।१८ । ३८ ।

समीक्षक—अब देखिये ! क्या यह आज कल के भूटे सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समान झूठ की बात नहीं है ! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आगई ? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होती तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को भटका करता था अपने लिये मिट्टी पानो और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां क्यों न बना ली ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु बैरागी ऐसी झूठ की बातें कर के भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७३—और तब वह हर एक मनुष्य को उस के कर्म के अनुसार फल देगा ॥ म० प० १६ । आ० २७ ।

समीक्षक—जब कर्मनुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह झूठ होवे यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥

७४—हे अविश्वासी और हठीले लोगो मैं तुम से सत्य कहता हूं यदि तुम को राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो फहोगे कि यहां से बहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ म० प० १७ । आ० १७ । ३० ।

समीक्षक—जब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि—“आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ,, आदि वह सब मिथ्या बात है। क्योंकि जो ईसा में पाप क्षुब्धने विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इञ्जील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो उस से कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा दें यदि उन के हटाने से हट जाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो समझो एक छिटा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुर्दे, अन्धे, कोढ़ी, भूतमस्तों को चङ्गा कहना भी आलसी, अज्ञानी, बिषयी और आंतों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता, इस लिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जङ्गलीपन की बात क्यों कह देता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश परण्डो-ऽपि द्रुमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में परण्ड का वृक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गली अविद्वानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥

७५—मैं तुम्हें सच कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८ । आ० ३ ।

समीक्षक—जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सि-

द्ध होता है और बालक के समान होमे के लेख से यह विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उस के मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाँवें कुछ भी नहीं आँस मीच के मान लें बहुत से ईसाइयों की बालबुद्धिवत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७५ ॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उंट का मुँह के नाके में से जाना सहज है । इ० म० प० १९ । आ० २३ । २४ ।

समीक्षक—इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था धनवान् लोग उस की प्रतिष्ठा नहीं करने होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्योंकि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है और इस से यह भी आया कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? और दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? मला तनिकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७—यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बारह सिंहासनों पर बैठ के इसराइल के बारह कुलों का न्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाईयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा । इ० म० प० १९ । आ० । २८ । २९ ।

समीक्षक—अब देखिये ! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मेरे पीछे

भी लोग न निकल जाँव और जिस ने १०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया जैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैठेमे और इसाहल के कुल का पक्ष पात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कुलों का न्याय करेमे अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामत की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जावगा सो अनन्त काल तक नरक भोगे और जो भर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधि क न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को ७२ स्त्रियां बहिश्त में मिलती हैं लिखा है सो यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥

७८—भोर को जब बहन घर को फिर जाता था तब उस को सूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवल पत्ते और उस को कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया । इ० म० प० २१ । आ० १८ । १९ ।

समीक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमन्वित और क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी और अतु के ज्ञान रहित था और वह जङ्गली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त वर्तता था भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह सूख गया इस के शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधि डालने से सूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७६-उन दिनों बलेश के पीछे तुरन्त सूर्य अभियारा हो जायगा और चांद अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जायगी ।  
इ० म० प० २४ । आ० २६ ।

समीक्षक -- बाह जी ईसा ! तारों को किस बिधा से गिर पड़ना आपने जाना और आकाश की सेना कौन सी है जो डिग जायगी ! जो कभी ईसा थोड़ी भी बिधा पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्योंकि गिरेंगे इस से विदित होता है कि ईसा बड़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े चीरने छीलना काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरङ्ग उठी कि मैं भी इस जङ्गली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली और बहुत सी बुरी वहां के लोग जङ्गली थे मान बैठे जैसा आजकल यूरोपदेश उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ बिधा हुए परचात् भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते यही इन में न्यूनता है ॥ ७६ ॥

८०-आकाश और पृथिवी टल जायेंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी । इ० म० प० २४ । आ० ॥ ३५ ॥

समीक्षक-यह भी बात अविद्या और मूर्खता की है भला आकाश हिल कर कहां जायगा जब आकाश अतिमूढ होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इस का हिलना कौन देख सकता है ! और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१-तब वह उन से जो बाई ओर हैं कहेगा हे सापित लोगो मेरे पास से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है ॥ इ० म० प० २५ आ० ४१ ॥

समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को स्वर्ग और जो दूसरे हैं उन को अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिस्त कहां रहेगी ! जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ! और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत हो कर बागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीगृह में न डाल सका न मा-

र. सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायबिल का ईश्वर ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥

८२—तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने ने उसे तीस रुपये देने ठहराया । इ० म० प० २६ । आ० १४ । १५ ।

समीक्षक—अब देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां गुल गई क्योंकि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उस के निश्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२ ॥

८३—जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा खे के धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है । इ० म० प० २६ । आ० २६ । २७ । २८ ।

समीक्षक—भला यह ऐसी बात कोई भी सम्य करेगा विना अविद्वान् जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीनेकी भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३ ॥

८४—और वह पिता कां और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहां लों अतिउदास है कि मैं मरने पर हूं और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुँह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय । इ० म० प० २६ । आ० २७ । २८ । २९ ।

समीक्षक—देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और त्रिकाल-



दर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उस के चेलों ने झूठ मूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेत्ता और पाप क्षमा का कर्ता है इस से समझना चाहिये यह केवल साधारण सुधा सच्चा अविद्वान् था न विद्वान् न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—वह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में से एक था आ पहुंचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड्ग और लाठियां लिये उस के संग यीशु के पकड़वाने हारे ने उन्हें यह पता दिया था जिस को मैं चूमूँ उस को पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उस को चूमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे अन्त में दो झूठे साक्षी आ के बोले इस ने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर दा सकता हूँ उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ हम से कह तू ईश्वर का पुत्र खीष्ट है कि नहीं यीशु उस से बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने ने उत्तर दिया वह वध के योग्य है तब उन्होंने ने उस का मुंह पर झुका और उसे घूसे मार औरों ने थपड़े मार के कहा हे खीष्ट हम से भविष्यत् वाणी बोल किस ने तुझे मारा पितरस बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उस ने सभों के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के संग था । उस ने किया स्वा के फिर मुकग कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ तब वह धिकार देने और किया स्वाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ । इ० म० प० २१ । आ० ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ ।

समीक्षक—अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चले को दृढ़ विश्वास करा सके और वे चले चाहें प्राण भी क्यों न जाते

तो भी अपने गुरु को लोम से न पकड़ते न मुकरते न मिथ्याभाषण करते न झूठी किया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरत में लिखा है, कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आजकल कितना भड़वा उस के नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है भला ऐसी क्रूरता से मरने से आप स्वयं नूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि ॥ ८५ ॥

८६- मैं अभी अपने पिता से बिनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ इ० म० प० २६ । आ० ५३ ।

समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने धमगड की बातें करना उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों को क्या समझें ? यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी चुगई न वर्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहां से लावें ? ॥ ८६ ॥

८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ अध्यक्ष ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है यीशु ने उस से कहा आप ही तो कहते हैं जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं मुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहां लों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलात ने उन से कहा तो मैं यीशु से जो खीष्ट कहावता है क्या करूं सभों ने उस से कहा वह क्रूर पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोड़े मार के क्रूर पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब



अध्यक्ष के योधाओं ने यीशु की अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस पास इकट्ठी की और उन्होंने उस का वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कांटों का मुकुट गूँथ के उस के शिर पर रक्ता और उस के दहिने हाथ पर नर्कट दिया और उस के बागमे घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्टा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने ने उस पर शूका और उस नर्कटको ले उसके शिर पर मारा जब वे उस से ठट्टा करचुके तब उस से वह बागा उतार के मसीका वस्त्र पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने ने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उस ने चीख के पीने चाहा तब उन्होंने ने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने ने उस का दोषपत्र उस के शिरके ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर उस के संग क्रूरों पर चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह कह के उस की निन्दा की हे मन्दिर के दाहने हारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूश पर से उतर आ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्टा कर कहा उस ने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह इसाएल का राजा है तो क्रूश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है तो उस को अब बचावे क्यों कि उस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उस के संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उस की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार हो गया तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एली" एलीलामा सबक्तनी" अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह मुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दौड़ के इसपंज ले के सिके में भिगोया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा । इ० म० प० २७ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । २२ । २३ । २४ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३३ । ३४ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० ॥

समीक्षक—सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह



किसी का बाप होवे तो किसी का श्वसुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य्य कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रुश पर से उतरकर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिक्के में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ? इस से जानना चाहिये कि चाहो कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच और भूठ भूठ हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जमली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता ! ॥ ८७ ॥

८८—और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ परमेश्वर का एक दूत उतरा और ओके कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहां नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जी उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आमिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उस के पांव पकड़ के उस को प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील को जावें और वहां वे मुझे जो देखेंगे ग्यारह शिष्य गालील को उस परवत में गये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हुआ यीशुने उन पास आ उन से कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है और देखो मैं जगत् के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूं । इ० । म० ।

प० २८ । आ० २ । ६ । ६ । १० । १६ । १७ । १८ । २० ॥

समीक्षक—यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्याविरुद्ध है प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उन को जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या त-हसलदारी कलकटरी के समान ईश्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिन लों सड़ न गया और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्यों से मिलना और उन से सब बातें करनी असंभव हैं क्योंकि जो ये बातें सच हों तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जी

उठते ? और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इञ्जील का विषय हो चुका अब मार्करचित इञ्जील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥

### मार्करचित इञ्जील ।

८९—यह क्या बढ़ई नहीं । इ० मार्क प० ६ । आ० ३ ॥

समीक्षक—असल में यूसुफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़ई था कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात् पैगम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बनालिया तमी बड़ी कारीगरी चलाई काट कूट फूट फाट करना उस का काम है ॥ ८९ ॥

### लूकरचित इञ्जील ।

९०—यीशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एक अर्थात् ईश्वर । लू० प० १८ । आ० १९ ॥

समीक्षक—जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ९० ॥

९१—तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशुको देस के अतिआनन्दित हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थीं और उस का कुछ आश्चर्य कर्म देखने की उस को आशा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूछी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया । लूक० प० २१ । आ० । ८ । ९ ।

समीक्षक—यह बात मत्तीरचित में नहीं है इम लिये ये साक्षी बिगड़ गये क्योंकि साक्षी एक से होने चाहिये और जो ईसा चनुर और करामानी होता तो ( हेरोद को ) उत्तर देता और करामत भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामत कुछ भी न थी ॥ ९१ ॥

### योहन रचित सुसमाचार ।

९२—आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उस के द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया । उस में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था । प० १ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उस का कारण न हो और वचन के बिना भी चुप चाप रह कर कर्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फूंकना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है परवादि का नहीं ॥ ६२ ॥

६३—और बारी के समय में जब शैतान शिमान के पुत्र यिहूदा इस्करियोति के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था । यो० । प० १३ । आ० २ ।

समी०—यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है जो वही शैतान आप से आप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बहकाया भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान हों तो हों किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६३ ॥

६४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ । और जो मैं जा के तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूँ तहां तुम भी रहो । यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ । बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० १४ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ६ । ७ ॥

समी०—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उस के मत में कौन फंसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ईश्वर किसी की शिफारस नहीं सुनता क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त

हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभ न देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्य कभी नहीं हो सकता ॥ २४ ॥

२५-मैं तुम से सच २ कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास कर जो काम मैं करता हूँ उन्हें वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा । यो० । प० १४ । आ० १२ ।

समी०—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य काम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हिये की आंख फूट गई हैं वह इस को मुर्दे जिलाने आदि का कामकर्ता मान लेवे ॥ २५ ॥

२६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है । यो० । प० । १७ । आ० ३ ।

समी०—जब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ २६ ॥ इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजिल में अन्यथा बातें भरी हैं ॥

### योहन के प्रकाशित वाक्य

अब योहन की अद्भुत बात मुनोः--

२७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर की सातों आत्मा हैं । और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पाँचे नेत्रों से भरे हैं । यो० प्र० प० ४ । अ० ४ । ५ । ६ ।

समी०—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है । और इन का ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है । और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? और वहाँ सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ २७ ॥

२८—और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छापदी हुई थी । यह पुस्तक खोलने और उस की छापें तोड़ने के योग्य कौन है । और न स्वर्ग में

न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला। यो० । प्र० । पर्व ५ । आ० १ । २ । ३ । ४ ।

समीक्षक—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसकी खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला योहन का रोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का विवाह उस का गीत देखो ! ईसा ही के ऊपर सब महात्म्य झुकाते जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥ ६८ ॥

६९—और मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेन्ना जैसा बंध किया हुआ खड़ा है ? जिसके सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं। यो० । प्र० । प० ५ । आ० ६ ।

समी०—अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६९ ॥

१००—और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन मेन्ने के आगे गिर पड़े और हर एक के पास कीण थी और धूप से भरे हुए सौने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं। यो० । प्र० । प० ५ । आ० ८ ॥

समी०—भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य आर्ति आदि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां प्राट्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती ( मूर्ति-पूजा ) को खसडन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१—और जब मेन्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास मनुष्य



है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जब करने को निकला। और जब उसने दूसरी छाप खोली। दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे। और जब उस ने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है। और जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि। यो० । प्र० प० ६ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ७ । ८ ।

समी०—अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं? मला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे? यह स्वप्ने का बरडाना जिन्होंने इस को भी सत्य माना है उन में अविद्या जितनी कहे उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कबलों तु न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है। और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि जब-लें तुम्हारे सक्ती दाम भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो। यो० । प्र० । प० ६ । आ० १० । ११ ॥

समी०—जो कोई ईसाई होंगे वे दौरे मुपुर्द होकर ऐसे न्याय कराने के लिये रोया करेंगे जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उम के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर का कचहरी आज कल बन्द है? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बँटे हैं? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और उन का ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से भट इन के शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे खँवर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहाँ शान्ति नहीं वहाँ दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥

१०३—और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृत्त से उस के कच्चे गूलर झड़ते हैं तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़ें। और आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया। यो० । प्र० । प० ६ । आ० १३ । १४ ।

समीक्षक—अब देखिये योहन भविष्यत् वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अण्ड बण्ड कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर-

सकते हैं ! और सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ! और क्या आकाश को खटखट के समान समझना है ! यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन आदि सब जङ्गली मनुष्य से उनको इन बातों की क्या खबर ! ॥ १०३ ॥

१०४—बै ने उन की संख्या मुनी इत्याएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख चत्वारसीस सहस्र पर ज्ञाप दी गई यहूदा के कुल में से बारह सहस्र पर ज्ञाप दी गई । यो० । प्र० । प० ७ । आ० ४ । ५ ।

समीक्षक—क्या जो काबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता ? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईश्वर नहीं और इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर ज्ञाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन की निष्ठा कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मन्दिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं ॥ यो० । प्र० । प० ७ । आ० १५ ।

समीक्षक—क्या यह महाबुत्परम्ती नहीं है ? अथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य एक देशी नहीं है ! और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे ? तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षित वा अतिरोगी होगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने की धूपदानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का धूँआँ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया । और दूत ने वह धूपदानी ले के उस में वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजलियाँ और भुईँडोल हुए । यो० । प्र० । प० ८ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक अब देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या बैरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ घुम धाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूँका और लोहू से मिले हुए ओले और आग हुँके और वे पृथिवी पर बाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जलगाई । यो० । प्र० । प० । ८ । आ० ७ ।

समी०—वाह रे ईसाइयों के भविष्यद्वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पांचवें दूत ने तुरही फूँकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्गमें से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुब्जी उस को दी गई । और उस ने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के धुँए की नाई धुआँ उठा ! और उस धुँए में से टिड्डियाँ पृथिवी पर निकल गईं और जैसा पृथिवी के कीटों को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उन से कहा गया कि उन मनुष्यों को जिन के मांथ पर ईश्वर की छाप नहीं है पाँच मास उन्हें पीड़ा दी जाय यो० । प्र० । प० ९ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ ।

समीक्षक - क्या तुरही का शब्द सुन कर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहाँ तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियाँ भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख पाँच भी लेता होगा कि छाप वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिड्डियाँ काटेंगी ऐसी बातें विचाहीन देश में चल सकती हैं आर्यावर्त में नहीं, क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०९—और पुडचों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी । यो० । प्र० । प० ६ । आ० १६ ॥

समीक्षक—भला इतने घड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी लीद करते थे ? और उस का दुर्गन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ! बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्यों ने तिलांजली दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान् की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥

११०—और मैं ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढ़े था और उस के शिर पर मेघ धनुष्, था और उस का मुँह सूर्य की नाई और उस के पाँच आग के खम्भों के ऐसे थे । और उस ने अपना दहिना पाँच समुद्र पर और बायाँ पृथिवी पर रक्खा । यो० । प्र० । प० । १० । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बढ़ कर हैं ॥ ११० ॥

१११—और लगी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उस में के भजन करने हारों को नाप । यो० प्र० । प० ११ । आ० १ ॥

समी०—वहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मंदिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं इम लिये यहां प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भी नुत्परस्ती है ॥ १११ ॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खोला गया और उस के नियम का संदूक उस के मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० । प्र० । प० । ११ । आ० १६ ॥

समी०—स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय वन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सकता है ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्व-व्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहे स्वर्ग में हो चाहे भूमि में हो और जैसी लीला टं टन पूं पूं की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम संदूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११२ ॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पहिने है और चाँद उस के पांशों तले हैं और उसके शिर पर बारह तारों का मुकुट है । और वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिस के सात शिर और दश सींग है और उष के शिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी पर डाला । यो० । प्र० । प० १२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—अब देखिये लंबे चौड़े गपोड़े इन के स्वर्ग में भी बिचारी स्त्री चिल्लाती है उस का दुःख कोई नहीं सुगता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिस ने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला अज्ञ पृथिवी को छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे

होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥

२१४—और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीसायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और अजगर और उस के दूत लड़े ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ७ ॥

समी०—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिभंग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥ -

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ६ ॥

समीक्षक—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? और उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को पृथिवी पर क्यों डल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमाने हारे भरमेंगे और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत में शैतान का जितना राज्य है उस के सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिखे ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं पुनः कौन ऐसा निर्बुद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥

११६—हाय पृथिवी और समुद्र के निवासियो क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० १२ ।

समीक्षक०—क्या वह ईश्वर वही का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी

उस को वर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अशुद्ध ईश्वर और एक समर्थ कुछ दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥

११७—और चवालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया । और उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उस के नाम की और उस के तन्मू की और स्वर्ग में वास करने हारों की निन्दा करे । और उस को यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो० । प्र० । प० । १३ । आ० । ५६ । ७ ।

समीक्षक—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चवालीस सहस्र थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० । प्र० । प० । १४ । आ० । १ ॥

समीक्षक—अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गणना क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए शेष करोड़ों ईसाइयों के शिरपर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना वहां है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पत्नी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११९—आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके कार्य उन के संग हो लेते हैं ॥ यो० । प्र० । प० । १४ । आ० । १३ ।

समीक्षक—देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के संग रहेंगे

अर्थात् कर्मानुसार फल सब को दिये जायेंगे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इन में से एक झूठा अवश्य होगा हम को क्या चाहें इसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११६ ॥

१२०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला । और रस के कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोड़ों की लगाम तक लोहू एक सौ कोश तक बह निकला ॥ यो० । प्र० । प० १४ । आ० १६।२० ।

समी०-अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ? ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप के कुण्ड भरें हैं क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिस के कुण्ड भरें हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से झट जम जाता है पुनः क्यों कर बह सकता है ? इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१-और देखो स्वर्ग में सार्त्ता के तम्बू का मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र० । प० १५ । आ० ५ ।

समी०-जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहीं नहीं नहीं और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२-और ईश्वर ने उस के कुकर्मों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उस ने दिया है तैसा उस को भर देओ और उस के कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ यो० । प्र० । प० १८ । आ० ५ । ६ ।

समी०-देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देना उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं

वे अन्याय कारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥

१२३—क्योंकि मेन्ने का विवाह आ पहुंचा है और उस की स्त्री ने अपने को तैयार किया है । यो० प्र० १६ । आ० ७ ॥

समीक्षक—अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वही किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशुर सामु शालादि कौन थे ? और लड़के बाले कितने हुए ? और बिर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में धोखा खाया और न जाने कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥

१२४—और उस ने अजगर को अर्थात् प्राचीन सांप को जो दियाबल और शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्खा । और उस को अथाह कुण्ड में डाला और बन्द करके उसे छाप दी जिस ते वह जब लों सहस्र वर्ष पूरे न हों तब लों फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० । प० २० । आ० २ । ३ ।

समीक्षक—देखो मरू मरू करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया फिरभी छूटे गा क्या फिर न भरमावेगा ! ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मार विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शयतान का होना ईसाइयों का भ्रम मात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डराके अपने जाल में लाने का उपाय रचा है जैसे किसी धूर्त ने किन्ही भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में ले जा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बना कर रक्खा झाड़ी में खड़ा कर के कहा कि आंख मीच लो जब मैं कहूँ तब खोलना और फिर जब कहूँ तभी मीच लो जो न मीचे वह अन्धा हो जायगा वैसी इन मतवालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब न मानेगा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो जब फिर झाड़ी में झिप गया तब कहा खोलो ! देखा नारायण को सब ने दर्शन किया वैसी लीला मजहबियों की है इस लिये इन की माया में किसी को न फंसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५—जिस के सन्मुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये जगह न मिली । और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा



और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के कर्मों के अनुसार किया गया। यो० । प्र० । प० । २० । आ० ११ । १२ ॥

समीक्षक-यह देखो लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे । और उस का सिंहासन और वह कहां ठहरा और मुझे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है । और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमाशतों ने ? ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुःखिन को अर्थात् मेम्ने की स्त्रीको तुम्हें दिवाऊंगा ॥ यो० । प्र० । प० । २१ । आ० २ ॥

समीक्षक—भला ईसा ने स्वर्ग में दुःखिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई भोज करता हो गा जो जो ईसाई वहां जाते होंगे उन को भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़के बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भी होंगे । ऐसे स्वर्ग का दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साडे सात सौ फोस का है उम की लम्बाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है । और उस ने उस की भीत को मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एक सौ चत्वारस हाथ की है और उस की भीत की जुड़ाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान थी । और नगर के भीत की नवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से संचारी हुई थी पहिली नेव सूर्यकान्त की थी दूसरी नीलमणि की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकत की । पांचवीं गोमेदक की षष्ठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणि की आठवीं परोज की नवीं पुष्पराज की दसवीं लहसनिये की ग्यारहवीं भृशकान्त की बारहवीं मर्तीप की । और बारह फाटक बाहर मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के गेसे निर्मल सोने की थी ॥ यो० । प्र० । प० २१ । आ० १६ ।

१७ । १८ । १९ । २० । २१ ।

समीक्षक—मनों ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्योंकि उस में मनुष्यों का

आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बर्नी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों को बहका कर फंसाने की लीला है। मला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढ़े सात सौ कोस क्योंकर हो सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोलकल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कदां से आये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से, यह गण्डा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा धिनित कर्म करने हारा अथवा झूठ पर चलने हारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा । यो० । प्र० । प० । २० । आ० २७ ॥

समी०—जा ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्न की मिथ्या बातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२९—और अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मन्ने का सिंहासन उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे । और उम का मुंह देखेंगे और उस का नाम उन के माथे पर होगा । और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे । यो० । प्र० । प० २२ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समी०—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन् के मटश गोरा वा अफ़रीका वालों के सदृश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्योंकि जहां छोट्टाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं होसकता ॥ १२९ ॥

१३०—देख मैं शीघ्र, आता हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसमें हर एक को जैसा उस का कार्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा ॥ यो० । प्र० । प० २२ । आ० १२ ॥

समी०—जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापरविरुद्ध अर्थात् “हलफ़दरोगी” हुई तो झूठ है इसका मानना छोड़ देओ । अब कहां तक लिखें इन की बायबिल में लाखों बातें संडनीय हैं वह तो थोड़ा सा चिन्हमात्र ईसाइयों की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ी सी बातों को छोड़ रोष सब झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो स-कता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्ग्यानन्दसरस्वतीस्वाभिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते कृश्रीनमतविषये त्रयोदशः

समुल्लासः सम्पूर्णाः १३ ॥

## अनुभूमिका ॥ ( ४ )

जो यह १४ चौदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो (कुरान अर्बी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्बी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उम को उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का पहिले खण्डन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्याऽसत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किमी पर झूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस को इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों को ग्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियोंका हठ दुराग्रह न्यून करें करावें क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभङ्ग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस को सज्जन लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुरा-

ग्रह ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कर्म है । अब यह औदहर्षे समुल्लास में मुसलमानों का मत विषय सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट को ग्रहण अनिष्ट को परित्याग कीजिये

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥

इत्थनुभूमिका

## अथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भः ॥

अथ यवनमतविषयं समीक्षित्व्यामहे ॥  
इस के आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥

१-आरम्भ साथ नाम अल्लाह के ज़मा करने वाला दयालु ॥ मंज़िल १ । सि-  
पारा १ । मूरत १ ॥

समीक्षक—मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का क़हा है परन्तु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरम्भ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता किन्तु “आरम्भ वालने उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस से पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से हो कर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह ज़मा और दया करने हारा है तो उस ने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के मुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुख पीड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरम्भ” बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरम्भ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, माथ आदि के गले काटने में भी “बिस्मिल्लाह” इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रहेगा क्योंकि उस की दया उन बसुओं पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते

तो इस वचन का प्रगट होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ! इत्यादि ॥ १ ॥

२—सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार/अर्थात् पालन करने हारा है (सब संसार का)। क्षमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १ । सि० १ । मूरतुल्फा-तिहा । आयत १ । २ ।

समी०—जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मतवाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि “काफिरों को कत्ल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगंबर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इसलिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुम्हें ही को हम भक्ति करते हैं और मुझ ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता ॥ मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ३ । ४ । ५ ।

समी०—क्या खुदा न्याय न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है इस से तो अधेर विदित होता है ! उसी की भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या तुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निअामत की और उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊपर तू ने गुज़ब अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न गु-मराहों का मार्ग हम को दिखा । मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ६ । ७ ।

समी०—जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म और कृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निअामत अर्थात् फ़ज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित पुण्य पाप ही

नहीं तो किसी पर दबा और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और इस मूरत की टिप्पण " यह मूरः अल्लाह साहब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें" जो यह बात है तो "अलिफ़ बे" आदि अक्षर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे जो कही कि बिना अक्षर ज्ञान के इस मूरः को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाए और बोलते गए ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा सम्झना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता (जैसा कि अरबी भाषा में उल्लाने से अरब वालों को इस का पढ़ना सुनना अरब भाषा बोलने वालों को कठिन होता है इसी से खुदा में पक्षपात अस्त है) और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देश भाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५.—यह पुस्तक कि जिस में संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है। जो ईमान लाते हैं साथ गैब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते, और उस वस्तु से जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी ओर वा तुझ से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिद्दा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हैं ॥ निश्चय, जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उन के दिलों, कानों पर मोहर कर दी और उन की आंखों पर पर्दा है और उन के वास्ते बड़ा अज्ञान है ॥ मं० १ । सि० १० । मूरः २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ।

समी०—क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंड की बात नहीं ? जब ( परहेजगार ) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं और जो भूठ मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही स्वज्ञान से खर्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसल्मान लोग परिश्रम क्यों करते हैं और जो बाइबिल इन्जिल आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसल्मान इन्जिल आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और



जो लाते हैं तो कुरान १ का होना किस लिये ? जो कहे कि कुरान में अधिक वस्ते हैं तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनामा निष्प्रयोजन है और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ! क्यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ ३ ॥ क्या ईसाई और मुसल्मान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उन में कोई भी पापी नहीं है ? क्या ईसाई और मुसल्मान अधर्मी हैं वे भी लुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें तो बड़े अन्याय और अंधेरे की बात नहीं है ? ॥ ४ ॥ और क्या जो लोग मुसल्मानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर कहना यह एकतरफा डिगरी नहीं है ! जो परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर मुस्र दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन को सजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्हां ने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ ॥ ६ ॥

६—उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया मं० १। सि० १। मू० २। आ० ६ ॥

समी०—भला विना अपराध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया दया न आई उन विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोम का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥

७—जिस ने तुम्हारे बान्ते पृथिवी विज्ञान और आसमान की छत को बनाया । मं० १। सि० १। मू० २ आ० १२ ॥

समी० भला आसमान छत किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की बात है आकाश का छत के समान मानना हंसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो उन के घर की बात है ॥ ७ ॥

८—जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी तो उस केसी एक मूरत ले आओ और साक्षियों अपने को पुकारो अल्लाह के विना

१ वास्तव में यह शब्द "कुरआन" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इसलिये ऐसा ही लिखा है ।

तुम सबे हो ओ तुम ॥ और कमीन करोमे तो उस आग से डरो कि जिस का इन्धन मनुष्य है और काफिरों के बास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं । मं० १ । सि० १ क मू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समी०--भला यह कोई बात है कि उस के सदृश कोई सूरत न बने । क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फ़ैज़ी ने बिना नुक़ते का कुरान नहीं बना लिया था! वह कौनसी दोज़ख़ की आग है! क्या इस आग से न डरना चाहिये! इस का भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है। जैसे कुरान में लिखा है कि काफ़िरोंके बास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि बेच्छों के लिये और नरक बना है! अब कहिये किस की बात सच्ची मानी जाय! अपने रवचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का भगड़ा भूटा है किन्तु जो जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मर्तों में दुःख पावेंगे ॥ = ॥

६- और आनन्द का संदेश दे कि उन लोगों को कि ईमान लाए और काम कि-  
ण अच्छे यह कि उन के बास्ते बहिश्त हैं जिन के नीचे से चलती हैं नहरें जब उस में से भेदों के भोजन दिये जावंगे तब कहेंगे कि वह वे वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे और उन के लिये पवित्र बीबियां सदैव वहां रहने वाली हैं । मं० १ । सि० १। मू० । आ० २ । २४ ।

समीक्षक—भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात बाला है क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं! और इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहती और वहां बीबियां अर्थात् उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जब तक क़यामत की रात न आवेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे कटने होंगे? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसाइयों के गोलोक और मन्दिर के सदृश दीखता है क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीबियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे उठर सकतीं? जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा स्त्रियों में फंस जाय! । ६ ॥

१०—आदम को सारे नाम सिलाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो तुम सचे हो मुझे उन के नाम बताओ । कहा हे आदम उन को उन के नाम बता दे तब उस ने बता दिये ( तो खुदा ने फरिश्तों से ) कहा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कर्मों को जानता हूँ । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २६ । ३१ ॥

समीक्षक— भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखण्ड चला लेवे चल सकता है. सभ्य जनों में नहीं ॥ १० ॥

११—जब हम ने फरिश्तों से कहा कि यावा आदम को दण्डवत् करो देखा सभी ने दण्डवत् किया परन्तु शयतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वह भी एक काफिर था । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३२ ॥

समी०—इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शयतान को पैदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्योंकि शयतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उस का कुल्लु भी न कर सका ! और देखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी लुका लुका दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां क्रोडों काफिर है वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है ! कभी २ खुदा भी किसी को राग बदा देता किसी को गुमराह कर देता है खुदा ने ये बातें शयतान से सीखी होंगी और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खुदा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हम ने कहा कि ओ आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे शयतान ने उन को डिगाया और उन को बहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया । मं । १ । सि० । सू० २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ ॥

समी०—अब देखिये खुदा की अत्यज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया

और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत् बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शयतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है और वह वृक्ष किस के लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इस लिये ऐसी बातें न खुदा की और न उस के बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहब खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब पृथिवी पर आदम साहब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये अथवा पत्नी के तुन्ध आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिरपड़े ? इस में यह विदित होता है कि जब आदम साहब मट्टी से बनाये गये तो इन के स्वर्ग में भी मट्टी होगी ! और जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मट्टी के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होना है तो वे वहां से कहां जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीवियां सदैव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जायगा क्योंकि उन का भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो बहिश्त में जाने वालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥

१३—उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न उस की सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा और न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ४६ ॥

समी०—क्या वर्त्तमान दिनों में न डरे बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिश्त वालों ही का सहायक है दोऊस्र वालों का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥ १२ ॥

१४—हमने मूसा को किताब और मोजिजे दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक मय दिया जो उन के सामने और पीछे थे उन को और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ५० ॥ ६१ ॥

समी०—जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उस को आश्चर्यशक्ति दी यह बाबबिल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न

था, जैसे स्वार्थी लोग आज कल भी अविद्वानों के सामने विद्वान् बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को कि-  
ताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाई नुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होना है क्या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता है और जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५—इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो । मं९ १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समी०—नया मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ! क्या क़यामत की रात तक क़बरों में पड़े रहेंगे ? आज कल दौंग मुपुर्द हैं ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ! क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ? ॥ १५ ॥

१६—वे सदैव काल बहिस्त अर्थात् वैकुण्ठ में वास करने वाले हैं । मं० १ । सि० १ । सू० १२ । आ० ७५ ॥

समी०—कोई भी जीव अनन्त पुण्य पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता इसलिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अविद्वान हो जावे क़यामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ! (और सृष्टि हुए सात अठार वर्षों से इधर ही बसलभते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था) और क़यामत के पाँछे भी निकम्मा रहेगा ; ये बातें सब लडकों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुम ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके

के को आप में से धरौं उन के से निकाल देते हो । मं० १ । सि० १ । सू० २ ।  
आ० ७७ । ७८ ॥

समी०—भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौन सी मली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थात् दूसरे मतवालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इस में से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बात बायबिल की हैं ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यशों की मोल लेली उन से पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७९ ।

समी०—भला ऐसी इर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दंड दिखे बिना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सजा देकर हलके किये जावेंगे तो जिन का बयान इस आयत में है ये भी सजा पा के हलके हो सकते हैं । और दंड देकर भी हलके न किये जायेंगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों से हल किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उन के पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा ? इस से यह लेख विद्वान् का नहीं । और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥

१९—निश्चय हमने मूसा को कितान दी और उस के पीछे हम पैगम्बर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिने अर्थात् दैवी शक्ति और सामर्थ्य दिये उस के साथ रूहुलकुद्स\* के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिस को तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १ । सि १ । सू० २ । आ० ८० ॥

\*रूहुलकुद्स कहते हैं जबरइल को जो कि हरदम मसीह के साथ रहता था ॥

समीक्षक—जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उस को मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और “मौजिजे” अर्थात् देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा है भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये भूठ मूठ चला ली हैं क्योंकि सुद्धिग्रह और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय “मौजिजे” ने तो इस समय क्यों नहीं ! जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १६ ॥

२०—और इस से पहिले काफ़िरो पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह आया भूट काफ़िर हो गए काफ़िरो पर लानत है अल्लाह की ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८२ ।

समी०—क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुम को काफिर नहीं कहते हैं ! और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन भूटा ! जो विचार कर देखते हैं तो सब मतवालों में भूट पाया जाता है और जो सच है सो सब एकसा है वे सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥ २० ॥

२१—आनन्द का संदेशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़रिश्तों पैग़म्बरों जिब्रईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरो का शत्रु है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६० ।

समी०—जब मुसलमान कहते हैं कि ( खुदा लाररीक ) है फिर यह फ़ौज की फ़ौज ( शरीक ) कहां से करदी . क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

२२—और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५४ ॥

समी०—भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३—जब मूसा ने अपनी काम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना अ-

सा ( दंड ) पत्थर पर मार उस में से बारह चरमें बह निकले । मं० १ । सि० १ ।  
मू० २ । आ० ५६ ॥

समी०— अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह झरनों का निकलना सर्वथा असंभव है हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४—और अल्लाह स्वास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के ॥  
मं० १ । सि० १ । मू० २ । आ० ६७ ॥

समी०— क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उस को भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा ? और बुरे कर्म कौन छोड़ेगा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इस से सब को अनास्था होकर कर्मोंछे-दम्पसन्न होगा ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या कर के तुम को ईमान से फेर दें क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं । मं० १ । सि० १ । मू० २ ।  
आ० १०१ ॥

सर्माहक—अब देखिये खुदा ही उन को नितान्त है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लीम न डिगा दें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती हैं ॥ २५ ॥

२६—तुम जिधर मुंह करते उधर ही मुंह अल्लाह का है । मं० १ । सि० १ ।  
मू० २ । आ० १०७ ॥

समी०—जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान ( क़िबले ) की ओर मुंह क्यों करते हैं ? जो कहें कि हम को क़िबले की ओर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाहें जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी, और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब ओर क्यों कर रह सकेगा ! इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७—जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो



जाता है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०६ ।

समी०—भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किस ने सुना ? और किस को सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह संसार कहां से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के बिना कहां से हुआ ? यह बात केवल लडकपन की है ( पूर्वपत्नी ) नहीं २ खुदा की इच्छा से । ( उत्तरपत्नी ) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया ( पूर्व० ) खुदा सर्वशक्तिमान् है इस लिये जो चाहे सो कर लेता है ॥ ( उत्तर० ) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ( पूर्व० ) जो चाहे सो कर सके । ( उत्तर० ) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? ( पूर्व० ) ऐसा कभी नहीं बन सकता ( उत्तर० ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं--एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बनने वाली मिट्टी और तीसरा उस का सम्भन जिस से घड़ा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उन के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह कुरान की बात सर्वथा असंभव है ॥ २७ ॥

२८—जब हम ने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ११७ ॥

समीक्षक—क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था ? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो बिचारे पूर्वोत्पन्नो को पवित्र स्थान के बिना ही रक्खा था पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥

२९—वे कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिस ने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया

और निश्चय आखरत में वो ही नेक है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२२ ॥

समीक्षक—यह कैसे सम्भव है कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ? इबराहीम को ही खुदाने पसन्द किया इस का क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वोही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २२ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुम्हें उस क़िबले को फेरेंगे कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्जिदुलहराम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १३५ ॥

समीक्षक—क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । ( पूर्वपक्षी ) हम मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन अर्थात् मूर्तों को तोड़ने हारे हैं क्योंकि हम क़िबले को खुदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम बुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भाक्ति करते हैं यदि बुत्तों को तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद क़िबले बड़े बुत् को क्यों न तोड़ा ? ( पूर्व० ) बाह जी हमारे तो क़िबले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इन को वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बज्ञाना अवश्य है । ( उत्तर० ) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं, तुम में और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में मे प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक उस के घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहब ने छोटे बुत् को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत् ! जो कि पहाड़ सदृश मक़े की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ( हां जी इस लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आवि नुराहनों से बच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लजित हो के निवृत्त रहना चाहिये और

अपने को नुतपरस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥

३१—जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कहो कि वे मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १४४ ॥

समीक्षक—भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ दोगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार करने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वयंयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२—और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है । शयतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उस के बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४ । १५५ ॥

समीक्षक—क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो अनुग्रह कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अर्बम करेगा उस पर दण्डदाना होता, तो फिर बीच में मुहम्मद साहब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । (और जो सब को बुराई कराने वाला मनुष्यमात्र का शत्रु शयतान है उस को खुदा ने उरख ही क्यों किया) क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहां कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है, सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता है और शयतान सब को बहकाता है तो शयतान को किस ने बहकाया ? जो कहो कि शयतान आप बहकाता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान की भी शयतान ठहरेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रंत होता है ॥ ३२ ॥

३३—तुम पर मुर्दार, लोहू और गोश्त मूअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं० । सि० २ । सू० २ । आ० १५६ ॥

समी०—यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक मूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी होसकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ! इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है हां ईश्वर बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसल्मानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है ? उन को पुत्रवत् नहीं मानता जिस बस्तु से अधिक उष्कर होने उनमास आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या करा कर खुदा जगत् का हानिकारक है हिंसा-रूप पाप से कलंकित भी हो जाता है ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥

३४—रोने की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उन के लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यवहार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उन से मिलो और हुंडो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् संतान, खाओ पीओ यहां तक कि प्रगट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुभेद तागा वा रात से जबदिन निकले । म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७२ ।

समी०—यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसल्मानों का मत चला वा उस के पहिले किसी न किसी पौराणिक का पूजा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का होता है उस की विधि क्या ? वह शास्त्र विधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार आसों को घटाना बढ़ाना और मध्यान्ह दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उस को इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु व्रत में खीसमागम का त्याग है एक बात खुदा ने बर कर कहदी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह व्रत क्या हुआ । दिन को न खाया रात को खातेरहे यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५—अल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं । मार डालो तुम उन को जहां पाओ । कतल से कुफ़ बुरा है । यहां तक उन से लड़ो कि कुफ़ न रहे और होवे दीन अल्लाह का । उन्हों ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन

के साथ करो । मं० । १ । सि० २ । सू० २ । आ० । १७४ । १७५ । १७६ ।  
१७८ । १७९ ॥

समीक्षक—जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उस को कुफ़ कहते हैं अर्थात् कुफ़ से क़तल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दीनको न मानेगा उस को हम क़तल करेंगे सो करते ही भाये मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मत अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ! कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें ! यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्या हम भी उस को गाली दें ! यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६—अल्लाह भगड़े को मित्र नहीं रखता । ये लोगों जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो । मं० । १ । सि० २ । सू० २ । आ० । १९० । १९३ ॥

समीक्षक—जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्या आप ही मुसलमानों को भगड़ा करने में प्रेरणा करता ! और भगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ! क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७—खुदा जिस को चाहे अनन्त रिज़क देवे । मं० । १ । सि० २ । सू० २ । आ० । १९७ ॥

समीक्षक—क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज़क देता है ! फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उस की इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥

३८—(प्रश्न) करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र हैं पृथक् रहो ऋतु-

समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेंगे उन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ मुहम्मदी बीबियां तुम्हारे लिये खे-  
लियां हैं बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में। तुम को अल्लाह लग्न ( बे-  
कार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकड़ता। मं० १। सि० २। सू० २। आ० २०५।  
२०६। २०८ ॥

समी०—जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु (जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारख है जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे। इस से खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा ॥ ३८ ॥)

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगुण करे उस को उस के वास्ते। मं० १। सि० २। सू० २। आ० २२७ ॥

समी०—भला खुदा को कर्ज (उधार) लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं। ऐसा तो विना समझे कहा जा सकता है। क्या उस का मजाना खाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुड़िया व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फँस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम दिवालियों वा खर्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥

४०—उन में से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है। मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २३५।

समी०—क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह

† इसी आयत के भाष्य में तफ़सीरहुसेनी में लिखी है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब के पास आया उस ने कहा कि ऐ रसूलल्लाह खुदा खर्च क्यों मांगता है ? उ-  
न्होंने उत्तर दिया कि तुम को बहिश्त में ले जाने के लिये उस ने कहा जो आप ज-  
मानत ले तो मैं दूँ मुहम्मद साहब ने उस की जमानत ले ली। खुदा का भरोसा न हुआ उस के दूत का हुआ।

अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई करावे इस से विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है । चाहे उस की कुरसी ने आसमान और पृथिवी को समा लिया है । मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३७ ।

समी०—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि (वह पूर्णकाम है) उस को किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उस की कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता क्योंकि ईश्वर तो व्यसक्त है ॥ ४१ ॥

४२—अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है) वस तू पश्चिम से ले आ वस जो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता । मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४० ।

समी०—देखिये यह अविद्या की बात ? सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य के न करने से कुरान के कर्त्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा चार जानवरों से ले उन की सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दौड़ते तेरे पास चले आँगे ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४२ ।

समी० - बाइ २ देखो जी मुसलमानों का खुदा भनमती के समान खेल कर रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलाञ्जलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फसेंगे इस से खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उस के पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥

४४—(जिस को चाहे नीति देता है) म० १ । सि० ३ । सू० २५१ ।

समीक्षक—जब जिस को चाहता है उस की नीति देता है तो जिस को नहीं चाहता है उस को अनीति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आस हो सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥

४५—वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिस को चाहे दण्ड देगा क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान् है । म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २६६ ।

समीक्षक—क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गबर-गंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिस को चाहता पापी वा पुण्यात्मा जानाता है तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उस को वैसा ही किया तो जीव को दुःख मुख भी होना न चाहिये जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा तो उस का फल भागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६—कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर से बहिश्ते हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहने वाली खुदा बीबियां हैं । अल्लाह उन को देखने वाला है साथ बन्दों के । म० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० १२४ ।

समी०—भला वह स्वर्ग है किवा वेश्यावन ! इस को ईश्वर कहना वा स्त्रैण ? कोई भी बुद्धिमान् ऐसी बातें जिस में हों उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यह पक्षपात क्यों करता है ? जो बीबियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां जन्म पा कर वहां गई हैं और जो क़यामत की रात से पहिले ही वहां बीबियों को बुला लिया तो उन के स्व-बिन्दों को क्यों न बुला लिया ? और क़यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं तो क़यामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं ? जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से देगा ? और जैसे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाईं वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, वे समझ है ॥ ४६ ॥

४७—निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ! म० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० १६ ॥



समी०—क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं ! क्या तेरह सौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं इसीसे यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उस ने कमाया और न वे अन्याय किये जावेंगे । कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिस को चाहे क्षीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान् है । रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिस को चाहे अनन्त अन्न देता है । मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरो को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं । कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुम को और तुम्हारे पाप क्षमा करेगा निश्चय करुणामय है ॥ मं० १ । सि० ३ । पू० ३ । आ० २१ । २२ । २३ । २४ । २७ ॥

समी०—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं किया जायगा, और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा । जब बिना उतम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी हो जायगा भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है ? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेद्य अभेद्य है कभी बदल बदल नहीं हो सकती अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उन को काफ़िर ठहराना उन में अहंता से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बाहिः कर देता है । इस से यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये मुसलमान लोग अन्धे में हैं और देखिये मुहम्मद साहेब कि लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उस की क्षमा भी करेगा इस से सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया ऐसा विदित होता है ॥

४९—जिस समय कहा फारिस्तों ने कि ऐ मर्यम तुम्हको अल्लाह ने पसन्द कि-

या और पवित्र किया ऊपर जगत की स्त्रियों के ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० आ० ६५।

समीक्षक—भला अब आज कल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्या-विरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं वृद्धि की तो क्या ही क्या है ॥ ४६ ॥

५०—उस को कहता है कि हो बस हो जाता है ॥ काफ़िरो ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया (ईश्वर बहुत मकर करने वाला है) ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ३६ । ४६ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा ? और उस के कहने से कौन होगया ? इस का उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जाना अपने मा बाप के बिना भेरा शरीर हो गया ऐसी बात है । जो धोखा साता अर्थात् छल और दम करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० ११० ॥

समीक्षक—जो मुसलमानों की तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता ? इस लिये यह बात केवल लोभ दे के मूर्खों को फँसाने के लिये महा अन्याय की है ॥ ५१ ॥

५२—और काफ़िरो पर हम को सहाय कर । अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है । जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १३० । १३३ । १४० ॥

समीक्षक—अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट

क्यों होते हैं ? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फँसा हुआ वीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मत्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुम को परोक्ष नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिस को चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उस के रसूल के साथ ईमान लाओ ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १५२ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साझी मानते हैं तो पैगम्बर साहब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समझा जाय कि मुहम्मद साहब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मुहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उनको पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥

५४—ये ईमान वालो संतोष करो परम्पर थामे रखो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम झुटकारा पाओ । मं० ? । सि० ४ । सू० ३ । आ० १७८ ॥

समीक्षक - यह कुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों लड़ाईवान थे, जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांतिभंग करने वाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से झुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उस के रसूल का कहा मानेगा वह बहिश्त में पहुँचेगा जिन में नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है । जो अल्लाह की और उस के रसूल की आज्ञा भंग करे गा और उस की हदों से बाहर हो जायगा वह सदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उस के लिये खराब करने वाला दुःख है । मं० १ । सि० ४ । सू० ४ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक - खुदा ही ने मुहम्मद साहब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहब के साथ कैसा फँसा है कि जिस ने बहिश्त में रसूल का साझा कर दिया है । किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती ॥ ५५ ॥

५६—और एक त्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो मलाई होवे उस का दुगुण करेगा उस को । मं० १ सि० ५ । सू० ४ आ० ३७ ॥

समी०—जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता ? और मुसल्मानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कड़ने के सिवाय ( विपरीत ) सोचते हैं अल्लाह उन की सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उन की कमाई वस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावे बस जिस को अल्लाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न पावेगा ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८७ ॥

समी०—जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ! और जो मुसल्मान कहते हैं कि शयतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसल्मानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शयतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो और जहां पाओ मार डालो ॥ मुसल्मान को मुसल्मान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार डाले बस एक गर्दन मुसल्मान का छोड़ना है और खून बहा उन लोग की ओर से हुई जो उस कौम से हों तुम्हारे लिये दान कर देंगे जो दुश्मन की कौम से हैं ॥ और जो कोई मुसल्मान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोज्ब में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० २० । २१ । २२ ॥

समीक्षक—अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसल्मान न हो उस को जहां पाओ मार डालो और मुसल्मानों को न मारना भूल से मुसल्मानों के मारने में प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उस में असत्य किंचित्

मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उस को दोजख मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किस को मानें किस को छोड़े किन्तु ऐसे मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़ कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्थक मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५९—और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिस ने रमूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दोजख में भेजेंगे मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११३ ॥

समीक्षक—अब देखिये खुदा और रमूल की पक्षपात की बात मुहम्मद साहेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मज़हब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इस से वे अनात थे इन की बात का प्रमाण आस विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥

६०—जो अल्लाह फ़रिश्तों किताबों रमूल और क़्यामत के साथ कुफ़ करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये कुफ़ में अधिक बढ़े अल्लाह उन को कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा । मं० १ । सि० ५ सू० ४ । आ० १२४ । १२५ ॥

समीक्षक—क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़ करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ बार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ़ बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१—निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफ़िरों को जमा करेगा दोजख में । निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उन को वह धोखा देता है ऐ ईमान वाले मुसलमानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १२८ । १४१ । १४२ ॥

समीक्षक—मुसलमानों के बहिस्त और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्या

प्रमाण ! बाह जी बाह ! जो बुरे लोगों के बोले में आता और अन्य को धोखा देते हैं ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज हैं उन से जा कर मेल करे और वे उस से मेल करें क्योंकि:—

**यादृशी शानिला देवी तादृशः स्वरथाहनः**

जैसे को तैसा मित्रे तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा धोखेबाज है उस के उपासक लोग धोखेबाज क्यों नहीं ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान से भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है ? ॥ ६१ ॥

६२—ये लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर आया बस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मानूद अकेला है ॥ मं० १ । सि०-६ । सू० । ४ । आ० १६७ । १९= ।

समी०—क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक अर्थात् साझी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३—तुम पर हराम किया गया मुर्दार लोहू, मूअर का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोट्टे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े सींग मारे और दरंद का खाया हुआ ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० ३ ।

समी०—क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुत से पशु तथा तिर्थ्यक् जीव कांड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४—और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूंगा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ।

समी०—बाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा-होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उन को क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूंगा ? यहां विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५—जिस को चाहता है क्षमा करता है जिस को चाहे दुःख देता है । जो कुछ

किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २। सि० ६। सू० ५। आ० १६। १८।  
समी०—जैसे शयतान जिस को चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शयतान का काम करता है ! जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोजब में खुदा जावे क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन है जैसी सेना सेनापति के आधीन रहती और किसी को मारती है उस की भलाई बुराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६—आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २। सि० ७ सू० ५। आ० ८१।

समी०—देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा को "लाशरीक" मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६७—अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उस से बदला लेगा ॥ मं० २। सि० ७। सू० ५। आ० ८२।

समी०—किये हुए पापों का क्षमा करना जिनो पापों को करने की आज्ञा दे के बढ़ना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पापवर्धक है हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

६८—और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बान्ध लेता है और कहता है कि मेरी ओर वही की गई परन्तु वही उस की ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है ॥ मं० २। सि० ७। सू० ६। आ० ८४।

समी०—इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को भी पैगंबर मानो इस को हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥

६९—अवश्य हम ने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी मूर्तें बनाई फिर शयतानों ने कहा कि आदम को सिजदा करो बस उन्होंने ने सिजदा किया परन्तु शयतान

सिजदा करने वाली में से न हुआ। कहा जब मैंने तुम्हें आज्ञा दी फिर किस ने रौका कि तू ने सिजदा न किया कहा मैं उस से अच्छा हूँ तू ने मुझ को आग से और उस को मिट्टी से उत्पन्न किया। कहा बस उस में से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करे। कहा उस दिन तक ढील दे कि कब्रों में से उठाये जावे। कहा निश्चय तू ढील दिये गयो से है। कहा बस इस की कसम है कि तू ने मुझ को गुमराह किया अबश्य मैं उन के लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैदूंगा। और प्रायः तू उन को धन्यवाद करने वाला न पावेगा। कहा उस से दुर्दशा के साथ निकल अबश्य जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोज़्ग को भरूंगा। मं० २। सि० ८। सू० ७। आ० १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७।

समी०—अब ध्यान दे कर मुनो खुदा और शयतान के भगड़े को एक फारिशा जैसे कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दवा और खुदा उस के आत्मा को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बना कर ग़दर करने वाला था उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शयतान तो सब को बहकाने वाला और खुदा शैतान का बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान का भी शयतान खुदा है क्योंकि शयतान प्रत्यक्ष कहता है कि तू ने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूलकारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसल्मानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से मनुष्यवत् वार्त्तालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसल्मानों का खुदा है इसी से विद्वान् लोग इसलाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते ॥ १६ ॥

७०—निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिस ने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्श पर। दीनता से अपने मालिक को पुकारो। मं० २। सि० ८। सू० ७। आ० ५३। ५४।

समी०—भला जो छः दिन में जगत् को बनावे ( अर्श ) अर्थात् उधर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है ? इस के न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं इस से कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अब तक सोता है वा जागा है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम



करता है वा निकम्मा सैल सपट्टा और ऐसा करता फिरता है ॥ ७० ॥

७१—मत फिरो पृथिवी पर भगड़ा करते । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७३ ।

समी०—यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कहो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है) ? इस से यह विदित होता है जब मुहम्मद साहब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और जब सबल हुए होंगे तब भगड़ा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२—बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष । मं० २ । सि० ९ । सू० ७ । आ० १०५ ।

समी०—अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुवा और मुहम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान नहीं थे क्योंकि जैसे आंसू से देखने और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्र-जाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७३—बस हम ने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी चिचड़ी और मेदक और लोह । बस उन से हमने बदला लिया और उन को डुबो दिया दरियाव में । और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया । निश्चय वह दीन झूठा है कि जिस में हैं और उनका कार्य भी झूठा है । मं० २ । सि० ९ । सू० ७ । आ० १३० । १३३ । १३७ । १३८ ।

समी०—अब देखिये जैसा कोई पाम्बंडी किसी को डरपावे कि हम तुझ पर सर्पों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात है भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि (जिस में हजारों क्रोड़ों मनुष्य हों झूठा बतलावे और अपने को सच्चा उस से परे झूठा दूसरा बतलाने को कहता है) ? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महा मूर्खों का मत है क्या तौरत ज़बर का दीन जो कि उन का था झूठ हो गया ? वा उन का कोई अन्य मज़हब था कि जिस को झूठा कहा और जो वह अन्य मज़हब था तो कौन सा था कहो कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४—बस तुझ को अलबत्ता देल सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिक ने ।

पहाड़ की ओर उस को परमाणु २ किया गिर पड़ा मस्त बे होय । मं० २ । सि० ६ ।  
मू० ७ । आ० १४५ ।

समी०— जो देखने में आता है वह व्यपक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५—और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से सु-  
बह को और शाम को । मं० २ । सि० ६ । मू० ७ । आ० २०४ ।

समी०— कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे २ ईरबरा का स्मरण कर अब कहिये कौन सी बात सच्ची? और कौन सी बात झूठी? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता न ही ॥ ७५ ॥

७६— प्रश्न करते हैं तुम्हें लूटों में कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रमूल के और डरो अल्लाह से । मं० २ । सि० ६ । मू० ८ । आ० १ ।

समी०— जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें करावें खुदा तथा पैगम्बर और ईमान दार भी बने यह बड़े आश्चर्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा है” कहते लज्जा भी नहीं । हठ छोड़के सत्य वेदमत का ग्रहण न करे इस से अधिक कोई नुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—और काटे जड़ काफ़िरो की । मैं तुम को सहाय दूंगा साथ सहस्र फरिशनों के पीछे २ आने वाले । अवश्य मैं काफ़िरो के दिलों में भय डालूंगा बस मारो ऊपर गर्दनो के मारो उन में से प्रत्येक पेरी ( संधि ) पर । मं० २ । सि० ६ । मू० ८ । आ० ७ । ९ । १२ ।

समी०—वाह जी वाह ! कैसा खुदा और कैसे पैगम्बर दयाहीन जो मुसलमानी मत से भिन्न काफ़िरो की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उन की गर्दन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खुदा लंकेश से क्याकुछ कम है ? यह सब प्रपञ्च कुरान के कर्ताका है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह मुसलमानों के साथ है । हे लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना स्वी

कार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रमूल के। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रमूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को। और मकर करत था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। मं० २। सि० ६। सू० ८। आ० १६। २४। २७। ३०।

समीक्षक—क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अधर्म करता है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ? बधिर है ? और उस के साथ रमूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है ? अल्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो चोरी करेगा ? क्या रमूल और अपने अमानत की चोरी छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अविद्वान और अधर्मियों का हो सकता है। भला जो मकर करता और जो मकर करने वालों का संगी है वह खुदा कपटी छुती और अधर्मी क्यों नहीं ? इस लिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छुली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बात लिखित क्यों होती ? ॥ ७० ॥

७६—और लड़ो उन से यहां तक कि न रहे कितना अर्थात् बल काफ़िरों का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के। और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है। पांचवां हिस्सा उस का और वास्ते रमूल के। मं० २। सि० ६। सू० ८। आ० ३६। ४१।

समीक्षक—ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदासे भिन्न शान्ति भंग कर्ता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये यह मजहब कि अल्लाह और रमूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लूटवाना लूटों का काम नहीं है ? और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लूटों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बड़ा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्ति भंग करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत जगत् में प्रचलित न होते तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७६ ॥

८०—और कभी देख जब काफ़िरों को फ़रिश्ते कब्ज़ करते हैं मारते हैं मुख उन के और पीठें उन की और कहते चखो आजाब जलने का। हम ने उन के पाप से उन को मारा और हमने फ़िराओन की कौम को डुबादिया। और तैयारी करो वास्ते

उन्हें के खो कुछ तुम कर सको । मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ५० । ५४ । ५६ ।

समीक्षक—नयीं जी आज कल रूस ने रूम आदि और इंग्लैण्ड ने मिश्र की कुर्दश कर डाली फरिश्ते कहाँ सो गये ? और अपने सेबकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता हुआ था यह बात सच्ची हो तो आज कल भी ऐसा करें जिस से ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःख दायक कर्म करो ऐसी आज्ञा विद्वान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥

८१—ऐ नबी किफायत है तुझ को अल्लाह और उन को जिन्हों ने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया । ऐ नबी रग़वत अर्थात् चाह चस्कादे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के जो हों तुम से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सौ का ॥ बस खाओ उस बस्तु से कि लूटा है तुम ने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा करे वाला दयालु है । मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ६३ । ६४ । ६८ ।

समीक्षक—भला यह कौनसी न्याय विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहें अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे ? और जो प्रजा में शान्ति भंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों को हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम ईमानवान दयालु लिखें यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहेंगे बीच उस के अल्लाह समीप है उस के पुण्य बड़ा । ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मन पकड़ों बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त रखें कुफ़्र को ऊपर ईमान के । फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रमूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के और उतारे लश्कर नहीं देखा तुम ने उन को और अज्ञाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरों को । फिर फिर आवेगा अल्लाह पाँजे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते । मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समी०—अला जो बहिश्त वालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वव्यापक क्यों कर हो सकता है ? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता । और अपने मा, बाप आई और मित्र को छुड़वाना केवल अन्याय की बात है हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उन की सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर संतोषी था और उन के सहाय के लिये लश्कर उतारता था सब हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरो को दण्ड देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बन सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३—और हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को अल्लाह अज़ाब अपने पास से वा हमारे हाथों से । मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ५२ ॥

समीक्षक—क्या, मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मन वालों को पकड़ देता है ? क्या दूसरे कोड़ो मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर न गरी गबरगाण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अशुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्त चलती है नीचे उन के से नहें सदैव रहने वाली बीच उस के और घर पवित्र बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बड़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बड़ा । बस ठट्टा करते हैं उन से ठट्टा किया अल्लाह ने उन से । मं० २ । सि० १० । सू० ६ । आ० ७२ । ८० ॥

समी०—यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई महम्मद साहब के जाल में न फसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो आपस में ठट्टा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्टा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रमूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया

उन्होंने ने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है। और मोहर रक्सी अल्लाह ने ऊपर विलो उन के के बस वे नहीं जानते। मं० २। सि० १०। सू० ६। आ० ८६। ६२।

समी०—अब देखिये मतलबसिंधु की बात कि वे ही भले हैं जो मुहम्मद साहब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं। क्या यह बात पक्षपात और अ-बिधा से भरी हुई नहीं है? जब खुदा ने मोहर लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दि-लों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है!!! ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उन के से तैरात कि पवित्र करे तू उन को अर्थात् बाहरी और उद कर तू उन को साथ उस के अर्थात् गुप्त में। निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जानें उन की और माल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिरत है लड़ें-गे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे। मं० २। सि० ११। सू० ६। आ० १०२। ११०।

समी०—वाह जी वाह! मुहम्मद साहब आप ने तो गोकुलिये गुसाईयों की बरा-बरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना वही बात तो गुसाईयों की है। वह खुदा जी! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनाथों को मरवा कर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हा-थ धो बैठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में घृणित हो गया ॥ ८६ ॥

८७—ये लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं का-फिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे हड़ता। क्या नहीं देखते यह कि वे बला-श्रों में डाले जाते हैं हर वर्ष के एक बार वा दो बार फिर वे नहीं तोबा: करते और न वे शिक्का पकड़ते हैं। मं० २। सि० ११। सू० ६। आ० १२२। १२५। ४

समीक्षक—देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिख-लाता है कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी का नौकर हो जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त बुराईयों को छोड़ दें बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परबसविभार तुम्हारा अस्साह है जिस ने बैदा किया जोसमानों और पृथिवी को जीव छः दिन के फिर ऊपर यकड़ा ऊपर अर्ध के तदवीर करता है क्या की। मं० ३। सि० ११। सू० १०। आ० ३।

समीक्षक—असमान आकाश एक और बिना बना बनदि है उस का बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरान कर्ता पदार्थ विद्या को नहीं जानता था। क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो “ हो मेरे हुक्म से और हो गया, जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता ? और जब काम की तदवीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैदा २ क्या तदवीर करेगा ? इस से विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९—शिक्षा और दया बान्ते मुसलमानों के। मं० ३। सि० ११ सू० १०। आ० ५५।

समी०—क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? और पक्षपाती है जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उन के लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा को विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

९०—परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के। मं० ३। सि० ११। सू० ११। आ० ७।

समी०—जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीछे उठता है तो दौरा सुपुर्द रखना है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ९० ॥

९१—और कहा गया और ऐ पृथिवी अपना पानी त्रिगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी सूख गया। और ऐ कौम यह है निसानी ऊंटनी अस्साह की बान्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस को बीच पृथिवी अस्साह के खाती फिर। मं० ३। सि० ११। सू० ११। आ० ४३। ६३।

समी०—क्या लड़कपन की बात है ! पृथिवी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं ? वाह जी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होमा + तो हाथी, बोड़े गधे

आदि भी होंगे ? और खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है ? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबावी की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ६१ ॥

६२—और सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान और पृथिवी । और जो लोग मुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और पृथिवी । मं० ३ । सि० १२ । सू० ११ । आ० १०५ । १०६ ।

समीक्षक—जब दोजख और बहिश्त में क़यामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किस लिये रहेगी ? और जब दोजख और बहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोजख में यह बात हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ६२ ॥

६३—जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा । मं० ३ । सि १२ । सू० १२ आ० ४ से ५६ तक ॥

समीक्षक—इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस लिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ६३ ॥

६४—अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमान को बिना खंभे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्रर के आज्ञा बर्तने वाला किया सूरज और चांद को । और वही है जिसने बिछाया पृथिवी को । उतारा आसमान से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के । अल्लाह खोलता है भोजन का वास्ते जिस को चाहे और तंग करता है । मं० ३ । सि १३ । सू० १३ । आ० २ । ३ । १७ । २६ ।

समीक्षक—मुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान की खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा अर्थरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकार से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था । और जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ६४ ॥



२५—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रूजू करता है। मं० ३। सि० १३। सू० १३। आ० २७।

समी०—जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद हुआ जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं और बहकाने के पाप से दोज़ली क्यों नहीं होना चाहिये ॥ २५ ॥

२६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्बों जो पत्त करेगा तू उन की इच्छा का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से। बस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना। मं० ३। सि० १३। सू० १३। आ० ३७। ४०।

समीक्षक—कुरान किधर की ओर से उतारा? क्या खुदा ऊपर रहता है? जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ २६ ॥

२७—और किया सूर्य चन्द्रको सदैव फिरने वाले। निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करने वाला है। मं० ३। सि० १३। सू० १४। आ० ३३। ३४।

समीक्षक—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती? जो पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे। और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का स्वभाव पाप ही करने का है तो उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीप्तते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ २७ ॥

२८—बस ठीक करूं मैं उस को और फूंक दूं बीच उस के रूह अपनी से बस गिर पड़े वास्ते उस के सिजदा करते हुए। कहा ये रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उस के बीच पृथिवी के और गुमराह करूंगा। मं० ३। सि० १४। सू० १५। आ० ३६ से ४६ तक।

समीक्षक—जो खुदा ने अपनी यह आदस सबब में इस्ती लो: वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया ? जब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो भी वह शयतान का भी शयतान बड़ा भाई गुरू क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शयतान मानते हो तो खुदा ने भी शयतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा फिर भी उस को दराड दे कर कैद क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ६८ ॥

६९—और निश्चय भेजे हम ने बीच हर उम्मत के पैगम्बर । जब चाहते हैं हम उस को यह कहते हैं हम उस को हो बस हो जाती है । मं० ३ । सि० १४ । मू० ।  
१ । आ० ३५ । ३६ ॥

समीक्षक—जो सब कौमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर चलते हैं वे क़ाफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आदर्शावर्त में कौनसा भेजा हम लिये यह बात मानने योग्य नहीं जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं मुन राकती खुदा का हुक्म क्यों कर बन सकेगा और सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुना किसने ? और हो कौनसा गया ? वे सब अबिधा क़ी बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान लेते हैं ॥ ६९ ॥

१००—और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां भवित्रता है उस को और वास्ते उन के हैं जो कुछ चाहें । क़सम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पैगम्बर । मं० ३ । सि० १४ । मू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समी०—अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां ने किसी मनुष्य को चहिये क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ? और बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्या कारण है ? बताइये ? क़सम खाना भूठों का काम है खुदा की बात नहीं क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूटा होता है वही क़सम खाता है सच्चा सौमःष क्यों खवे ? ॥ १०० ॥

१०१—वे लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उन के और कानों उनके और आसों उन की के और ये लोग वे हैं वे खबर । और पूरा दिमा जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ मं० ३ । सि० १४ ।

सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समीक्षक—जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे बिना अपराध मारेगये ? क्योंकि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्होंने ने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन को फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की की जाती है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाव्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्वुद्धि छोकरों का होता है ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हम ने दोनख को वास्ते काफ़िरो के घेरने वाला स्थान । और हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का बीच गर्दन उस की के और निकालेंगे हम वास्ते उस के दिन क़यामत के एक किताब कि देखेगा उस को खुला हुआ । और बहुत मारे हमने कुरान से पाँछे नूह के ॥ मं० ४ । सि० १५ । मू० १७ । आ० । १२ । १६ ॥

समीक्षक—यदि काफ़िर वे ही हैं कि जो कुगन पैगम्बर और कुरान के कहे खुदा सातवें आसमान और नमाज़ आदि का न मानें और उन्हीं के लिबे दोनख होवे तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ! यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इस का प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है क़यामत की रात को किताब निकाले गा तो खुदा तो आज कल वह किताब कहाँ है ? क्या साहूकार की बही समान लिखता रहता है यहाँ यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते फिर कर्म की रेखा क्या लिखी ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उन को दुःख सुख क्यों दिया ? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उस को कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किये दुःखसुखरूप फल न्यूनाधिक देना और उसी समय खुदा ही किताब बाँचेगा वा कोई सर्रिशतेदार पुनावेगा जो खुदा ही ने दीर्घ काल सम्बन्धी जीवों को

बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१०३—और दिया हमने समुन्द को ऊंटनी प्रमाण ॥ और वहका जिस को वहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के बस जो कोई दिया गया अमलनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के । मं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ५७ । ६२ । ६२ ॥

समी०—बाह जी जितनी खुदा की माश्वर्थ निशानी हैं उन में से एक ऊंटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतान को वहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठ-  
 १॥ ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की बात है । जब क्यामत की अर्थात् प्रलय ही में न्याय करने कगने के लिये पैगम्बर और उन के उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दौग मुगुर्द रहेंगे और दौरा मुगुर्द सब को दुःख दायक है जब तक न्याय न किया जाय । इस लिये रूष् न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम क म है यह तो प्रोपां बाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्टे न हों तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरा मुगुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिस में क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपनेर कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वरकी सर्वज्ञता की हानि है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४ ये लोग वास्ते उन के हैं बाग हमेशाह रहने के, चलती हैं नीचे उन के से नहरें गहिना पहिराये जावेंगे बीच उस के कंगन सोने के से और पोशाक पहिनें गे वस्त्र हरित लाही की से और ताफते की से तकिये किये हुए बीच उस के ऊपर तख्तों के अच्छा है पुगय और अच्छा है बहिरत लाभ उठाने की । मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ३० ।

समी०—बाह जी बाह ! क्या कुरान का स्वर्ग है जिस में बाग, गहने, कपड़े गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां

मुसलमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह है कि कर्म उन के अन्त वाले और फल उन का अनन्त और जो मीठा नित्य रखे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उन को सुख ही दुःख रूप हो जायगा इस त्रिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

✱ १०५—और यह बस्तियां हैं कि मारा हम ने उन को जब अन्याय किया उन्होंने ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४ । सि० १५ । मू० १८ । आ० ५७ ॥

समी०—भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है ! और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इस से दया हीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम यह कि पकड़े उन को सरकसी में और कुफ़ू में ॥ यहाँ तक कि पहुँचा जगह डूबने मूर्ख की पाया उस को डूबता था बीच चश्मे की चड़ के । कहा उन ने ऐजुन करनैन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के । मं० ४ । सि० १६ । मू० १८ । आ० ५८ । ८४ । ६२ ॥

समी०—भला यह खुदा की कितनी वे समझ है ? शंका से डग कि लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें यह कर्मा ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की अबिद्या की बात देखिये कि किताब का बनाने वाला मूर्ख को एक भील में रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातःकाल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा ? इस से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्या विरुद्ध बात क्यों लिख देते ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसा मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथिवी में फसाद भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है इस से ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥ १०६ ॥

✱ १०७—और याद करो बीच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों अपने से

मकान पूर्वा में। बस पड़ा उन से इधर पढ़ा बस भेजा हमने रूढ़ अपनी को अर्थात् फरिश्त। बस सूरत पकड़ी वास्ते उस के आदमी पुष्ट की। कहने लगी निश्चय में शरण पकड़ती रहमान की जो तुम्ह से है तू परहेज़गार। कहने लगा सिबाब इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं मैं तुम्ह को लड़का पवित्र। कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझ को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली। बस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जन्नल में मं० ४। सि० १६। सू० १६। आ० १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१।

समी०—अब बुद्धिमान विचार लें कि फरिश्ते सब खुदा की रूढ़ हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मयेम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उस को गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहां अन्य भी असम्भ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उन को लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शयतानों को ऊपर काफ़िरो के बहकते हैं उन को बहकाने कर। मं० ४ सि० १६। सू० १६। आ० ८१।

समी०—जब खुदा ही शयतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दण्ड हो सकता और न शयतानों को क्यों कि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इस का फल खुदा को होना चाहिये जो सच्चा न्यायकारी है तो उस का फल दोनव आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥

१०९—और निश्चय क्षमा करने वाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तोबा: की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया। मं० ४। सि० १६। सू० २०। आ० ७८।

समी०—जो तोबा: से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी कराने वाली है क्योंकि पापियों को इस से पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इस से यह पुस्तक और इस को बनाने वाला पापियों को पाप कराने में हौंसला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वर कृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ।  
मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ।

समी०—यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का चूमना आदि जानता तो वह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिलजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों डिग जाती है ॥ ११० ॥

✱ १११—और शिक्षा दी हम ने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुण अंगों की बस फूंक दिया हमने बीच उस के रूह अपनी को । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ।

समी०—ऐसी अरलील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जैसे वेदों की ॥ १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को मिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं मूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर । पहिनाये जावेंगे बीच उस के कंगन सोने में और मोती और पहिनावा उनका बीच उस के रेशमी है । और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों के और सड़े रहने वालों के । फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और पूरी करें भेंटें अपनी और चारों ओर फिर घर कदीम के । तो कि नाम अल्लाह का याद करें । मं० ४ । सि० १७ । सू० २२ आ० १२ । २३ । २५ । २८ । ३३ ।

समीक्षक—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उस की भक्ति क्यों कर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दीखता है वाह ! बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें यह बाहिरत यहां के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्ती का खण्डन क्यों करते हैं ! जब खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की

आज्ञा देता है और मनुष्यों को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाला और पैरव दुर्गा के सट्टा हुआ और महाकुत्परस्ता का चलाने वाला हुआ क्योंकि मुर्तियों से मसजिद बड़ा बुद्दा है इससे खुदा और मुसल्मान बड़े कुत्परस्त पुसणी तथा जैनी छोटे कुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

१११-फिर निरखब तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे । मं० ४ सि० १८ । मू० २३ । आ० १६ ।

समीक्षक—कयामत तक मुझे कबर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह जो उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेगा ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसल्मान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देंगे ऊपर उन के जवाने उन की और हाथ उन के और पांव उन के साथ उस वस्तु के कि थे करते। अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानों कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृत्त मुबारिक जैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस का रोशन हो जावे जो न जगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को चाहता है । मं० ४ । सि० १८ । मू० २४ । आ० २३ । ३४ ।

समीक्षक—हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में से वह है कि जो चलाता है पेट अपने के । और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रमूल उस के की । कह आज्ञा पालन करे खुदा की रमूल उस के की । और आज्ञा पालन करो रमूल की तो कि दया किये जाओ । मं० ४ । सि० १८ । मू० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ।

समीक्षक—यह कौनसी फिलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व दी-खते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अविद्या की बात है



जब अल्लाह के साथ पैगंबर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो गया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लासरीक कुरान में लिखा और कहते हो ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन की फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेंगे फरिश्ते बस मत कहा मान काफिरों का और भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बड़ा। और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन की को भलाइयों से। और जो कोई तोबा करे और कर्म करे अच्छे बस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की। मं० ४। सि० १६। सू० २५। आ० २४। ४६। ६७। ६८।

समीक्षक—वह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलों के साथ फट जावे। यदि आकाश कोई मूर्तिमान् पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुससमानों का कुरान शक्तिभंग कर गदर भगड़ा मचाने वाला है इसीलिये धार्मिक विद्वान् लोग इस को नहीं मानते। यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का बदला बदला हो जाय क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे तोबाः करने से छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७—वही की हम ने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात को बन्दों मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे। बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करने वाले। और वह पुरुष कि जिस ने पैदा किया मुझ को बस वही मार्ग दिखलाता है। और वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता है मुझ को और वह पुरुष की आशा रखना हूँ मैं यह क्षमा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन कयामत के। मं० ५। सि० १६। सू० २६। आ० ५०। ५१। ७६। ७७। ८०।

समीक्षक—जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और मुहम्मद साहब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी और वे भूल होती है और उस के पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान झूठा होगा चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायंगे अर्थात् उन का कभी अभाव भी होगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी

को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पक्षपात से एक को उ-  
त्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है  
न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न हो-  
ना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि खुदा ही रोग बुड़ाकर आ-  
राम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये यदि रहता है तो  
खुदा पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं ॥  
यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्म  
जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उस का कुछ भी अपराध नहीं यदि वह  
पाप क्षमा और न्याय कृपागत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर वा-  
पयुक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी होने से बच नहीं स-  
कती है ॥ ११७ ॥

११८—नहीं तू आदमी मानन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सबों से ।  
कहा वह ऊंठनी है वास्ते उस के पानी पीता है एक बार । मं० ५ । सि० १६ । मू०  
२६ । आ० १५० । १५१ ।

समीक्षक—भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंठनी निकले  
वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इम बात को मान लिया और ऊंठनी की निशानी देनी  
केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ  
बात इस में न होती ॥ ११८ ॥

११९—ऐ मूसा बात यह है निश्चय में अल्लाह हूँ मालिक । और डाल दे अस्य  
अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानों कि वह सांप है ऐ मूसा मत डर  
निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर । अल्लाह नहीं कोई मानूद परन्तु वह मालिक अ-  
री बड़े का । यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान  
होकर । मं० ५ । सि० १६ । मू० २७ । आ० ९ । १० । २६ । ३१ ।

समी०—और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबर्दस्त बनता है अपने  
मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, तो खुदा का क्यों कर हो स-  
कता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को बश कर आप जंग-  
लस्थ खुदा बन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े  
अरी अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदरी होने से ईश्वर नहीं हो स-

कता है यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मुहम्मद साहब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये? मुहम्मद साहब ने अनेकों को मारे इस से सरकशी हुई वा नहीं? यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११६ ॥

१२०—और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमे हुए और बे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो। मं० ५। सि० २०। सू० २७। आ० ८८।

समी०—बढ़लों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खबरदारी शयतान बागी को न पकड़ने और न दंड देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी को भी अब तक न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी! ॥ १२० ॥

१२१—बस मुष्ट मारा उस को मूसा ने बस पूरी की आयु उस की। कहा ऐ रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी का बस क्षमा कर मुझ को बस क्षमा कर दिया उस को निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु है और मालिक तेरा उन्नत करता है जो कुछ चाहता है और पसंद करता है। मं० ५। सि० २०। सू० २८। आ० १४। १५। ६६।

समी०—अब अन्य भी देखिये मुसल्मान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं? क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उन्नति करता है? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को विद्वान और दूसरे को मूर्ख आदि किया है? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्याय कारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२—और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा वाप के भलाई करना जो भग-दना करें तुम से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है। और अवश्य भेजा हम ने नूह को तर्फ कौम उस के कि बस रहा बीच उन के हजार वर्ष परन्तु ~~बस वर्ष कम~~। मं० ५। सि० २०। २१। सू० २६। आ० ७। १३।

समी०—माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीरक कर ने के लिये कहे तो उन का कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता पिता

मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवें तो क्या मान लेना चाहिये ? इस लिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम जन्तुओं की हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ! इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अल्लाह पहिलो बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उस को फिर उसी की ओर फेर जाओगे । और जिस दिन बर्षा अर्थात् खड़ी होगी कयामत निराश होंगे पापी । बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे बस वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे । और जो भेज दें हम एकवाच बस देवें उस खेती को पीली हुई । इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊार दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३० । आ० १० । ११ । ५० । ५८ ॥

समी०—यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहना होगा ? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उस का सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किये जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है । यदि बगीचे में रखना और श्रृङ्गार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ और वहां माती और मुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और मुनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिश्त से चोरी करने वालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे यह बात झूठ होजायगी जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय की खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना अपना घमंड प्रसिद्ध करना है यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है जैसे ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त हों ॥ १२३ ॥

१२४—ये आयतें हैं किताब हिक्मत वाले की । उत्पन्न किया आस्मानों को वि-

ना सुतून अर्थात् स्वप्ने के देखते हो तुम उस को और डाले बीच पृथिवी के गहाड़ ऐ-  
सा न हो कि हिल जावे । क्या नहीं देखा तू ने यह कि अज्जाह प्रवेश कराता है  
रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के । क्या नहीं देखा  
कि किरितियां चलती हैं बीच दर्ग्या के साथ निआमतों अज्जाह के ताकि दिखलावे  
तुम को निशानियां अपनी । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३१ । आ० १ । १६ ।  
२० । ३० ॥

समी०—वाह जी वाह ! हिक्मत वाली किताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या से  
विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उस में स्वप्ने लगाने की शंका और पृथिवी के स्थिर  
रखने के लिये पहाड़ रखना थोड़ी सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कर्मा नहीं करता  
और न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन वहां रात नहीं और जहां रात है वहां  
दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात  
है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती क्या यह विद्या विरुद्ध बात  
नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौशनादि से चलनी हैं वा खुदा की कृपा से यदि  
लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी डूब  
जाय वा नहीं ? इस लिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो  
सकता है ॥ १२४ ॥

१२५—तदवीर करता है काम को आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढ़ जाता  
है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि-  
गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गैब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ।  
फिर पुष्ट किया उस को और फूँका बीच रूह अपनी से ॥ कह कबन करेगा तुम का  
फरिस्ता मौत का वह जो निथत किया गया है साथ तुम्हारे । और जो चाहते हम  
अवश्य देते हम हर एक जीव को शिन्ना उस की परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी और से  
कि अवश्य भरेगा जो दोनव जिनों और आदमियों से इकडे । मं० ५ । सि० २१ ।  
सू० ३२ । आ० ४ । ५ । ७ । ९ । ११ ॥

समीक्षक—अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसल्मानों का खुदा मनुष्यवत् एक देशी  
है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेशी से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं  
हो सकता यदि खुदा फरिस्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी हो गया । आप आ-  
स्मान पर टंगा बैठा है । और फरिस्तों को दौड़ाता है । यदि फरिस्ते रिश्वत लेकर

कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जाय तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उस को हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? (और एक हजार बर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान् भी नहीं) यदि मौत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कौनसा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमरण में खुदा के बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दोजख भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्जी से दोजख भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान् और ईश्वर-  
न और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम मृत्यु वा कृतल से। ऐ बीबियों नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उस के अज्ञाव और है यह ऊपर अल्लाह के सहल। मं०५। सि०२१। सू० ३३। आ० १६। ३० ॥

समीक्षक- यह महम्मद साहब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा। विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्य्य वदे मुजहब बड़ा लेवें। और यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहब निर्लज्ज होकर आवें ? बीबियों पर अज्ञाव हो और पैगम्बर साहब पर अज्ञाव न होवे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६ ॥

१२७—और अटकी रहो बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और रसूल की सिवाय इस के नहीं। वस जब अदा कर लो ज़ेदन हाजित उसे व्याह दिया हमने तुम्ह से उस को तौफिक न होवें ऊपर ईमान वाला के तंगी बीच बीबियों से लेपालकों उन के के जब अदा कर लें उन से हाजित और है आज्ञा खुदा की की गई। नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के नहीं है महम्मद चाप किसी मर्दों का। और हलाल की स्त्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के। दील देवे तू जिस को चाहे उन में से और जगह देवे तर्फ अपनी जिस को चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के। मं० ५। सि०२२। सू० ३३। आ० ३३। ३७। ३८। ४०। ४७। ४८। ५०।

समीक्षक— यह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में कैद के समान रहे और पुरुष सुल्ले रहें क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में अमण करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक, अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शम्तान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहब बड़े विषयी थे यदि न होते तो ( लेपालक ) बेटे की स्त्री को जो पुत्रकी स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बातें करने वाले का खुदा भी पत्नपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो ज़ेद ( लेपालक ) बेटा किस का ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी तुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सका क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? और यह महा अधर्म की बात है कि नबी जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे और मुहम्मद साहब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सकें ! ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर माहँब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नबी जिस किसी के घर से चाहें निरशंक प्रवेश करें और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत और मुहम्मद साहब को पैगंबर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्ति शून्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अर्बदेशनिवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥

१२८— नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह को नीबियों उस की को पीछे उस के कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के बाड़ पा-

प । निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रमूल उस के को लानत की है उन को अल्लाह ने । और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को मुसलमान और-तों को बिना इस के बुरा किया है उन्होंने ने बस निश्चय उठाया उन्होंने ने बोहतान अ-र्थात् झूठ और प्रत्यन्त पाप । लानत मारे जहां पाये जावें पकड़े जावें कतल किये जावें खूब मारा जाना । ऐ ख हमारे दे उन को द्विगुणा अज्ञाव मे और लान से बड़ी ला-नत कर । मं० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ५० । ५४ । ५५ । ५८ । ६२ ।

सर्मः—वाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ! जैसा र-मूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रमूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोकता ? क्या किसी के दुःख देने में अल्लाह भी दुः-खी हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और रमूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रमूल जिस को चाहें दुःख देंगे ! अन्य सब को दुःख देना चाहिये ! जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन में अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है । जो ऐसा न माने तो उस की यह बात भी पक्षपात की है वाह गदर मचाने वाले खुदा और नहीं जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जै-सा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें जिन्दा है बर्सा ही मुस-लमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? वाह क्या हिंसक पैगंबर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना कर के अपने से दूसरों को दु-गुण दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब भिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत मे शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिन्ता के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ॥

१२९—और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती हैं बा-दलों को बस हांक लेते हैं तर्फ शहर मुँह की बस जीवित किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पीछे मृग्य उस की के इसी प्रकार कबरों में से निकलना है । जिस ने उता-रा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीच उसके महनत और नहीं लगती बीच उस के मांदगी ! मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० ६ । ३५ ।

समीक्षक—वाह फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु को वह उठाता फिरता है



बदलों को और खुदा उस से मुर्दा को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक मंत्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत स्त्रियों से विषय भोग करता है उस की क्या ही दुर्दशा होती होगी ? इसलिये मुसल्मानों का रहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

१३०—कसम है कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुआ से है। उस पर मार्ग सीधे के उतारा है गालिब दयावान् ने। मं० ५। सि० २३। मू० ३६। आ० १। २।

समीक्षक—अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस की सोगंध क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की मंत्री पर मोहित क्यों होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं क्यों कि सीधा मार्ग वही होता है जिस में मृत्यु मानना, सत्य बोलना सत्य करना पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण करना आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसल्मानों में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रबल पैगंबर महम्मद साहब होते तो सब से अधिक विद्यावान् और शुभ गुण युक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी कूजड़ी अपने बेंगों को खट्टा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १३० ॥

१३१ और फूँका जावेगा बीच मूर के बस नागहां वह कबरो में से मालिक अपने की दैङ्गे। और गवाही देंगे पांव उन के माथ उस वस्तु के कमाते थे सिवाय इस के नहीं कि आज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किमी वस्तु का यह कि कहना वांस्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है। मं० ५। सि० २३। मू० ३६। आ० ४८। ६१। ७८।

समी०—अब मुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ?। खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिस को आज्ञा दी : किस ने सूनी ? और कौन बन गया यदि न थी तो यह बात भूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह भूठी ॥ १३१ ॥

१३२—फिराया जावेगा उस के ऊपर पियाला खराब शब्द का। सपैद मजा देने वाली वास्ते पीने वालों के । समीप उन के बैठी होंगी नीचे आंख रखने वालीयां मुन्दर आंखों वालीयां । मानों कि ये अंडे हैं छिपाये हुए । क्या बम हम नहीं मरेंगे । और अवश्य लूत निश्चय पैगम्बरों से था । जब कि मुक्ति दी हम ने उस को और लोगों उस के को सब को । परन्तु एक बुद्धिया पढ़ि रहने वालों में है ॥ फिर मारा हम ने औरों को । म० ६ । सि० २३ । सू० ३७ । आ० ४३ । ४४ । ४६ । ४७ । ४९ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ।

समीक्षक—क्यों जी यहां तो मुसलमान लोग शगव को बुरा बतलाते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो नदियां की नदियां बहती हैं । इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बंदे ने वहां उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है । मार खियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहना होगा । और बड़े २ रोग भी होते होंगे । यदि शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उन को स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ (यदि लूत को पैगम्बर मानते हो तो जो बहबचन में लिखा है कि उममे उम की लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं ) जो मानते हो तो ऐसे को पैगम्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के कहियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भी वैसा ही है, क्योंकि बुद्धिया की कहानी कदने वाला और पक्षपात से दूसरों को भारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुगलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३ बहिरते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उन के वास्ते उन के । तकिये किये हुए बीच उन के मंगावेंगी नी न हम के मने और पीने की वस्तु । और समीप होगी उन के नीचे रखने वालीयां दृष्टि और दृमगों से समायु । बस सिजदा किया फरिश्तों ने सब ने । परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफिरों में । ऐ शयतान किस वस्तु ने रोका तुम्ह को यह कि सिजदा कर वास्ते उस वस्तु के कि बनया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के क्या अभिमान किया तू ने वा था बडे अधिकार वालों से । कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से उन्नत किया तूने मुझ को आग से उस को मर्दा से । कहा बस निकल इन आसमानों में से बम निश्चय तू चलाया गया है । निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जजा तक । कहा ऐ मालिक मेरे डील दे उस दिन तक कि उ-

ठाये जावेंगे मुर्दे । कहा कि बस निश्चय तू ढाल दिये गयो से है । उस दिन समय ज्ञात तक । कहा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूँ गा उन को मैं इकट्ठे ॥  
 । म० ६ । सि० २३ । सू० ३८ । आ० । ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ ।

समी०--यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखे हैं वैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकत हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही न रहेगा तो उस में रहने वाले सदा क्यों कर रह सकत हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इस से यह सिद्ध होता है कि जिस समय मुसलमानों का मजहब चला उस समय अर्धदेश विशेष धनाढ्य न था इसी लिये महम्मद साहब ने तकिये आदि की कथा सुना कर गरीबों को अपने मत में फसा लिया और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर मुख कहां ? वे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं ? अथवा बहिश्त की रहने वाली हैं यदि आई हैं तो जावेंगी और जो वहीं की रहने वाली हैं तो कयामत के पूर्व क्या करनी थी क्या निकम्मी अपनी उमर को वा रही थी ? अब देखिये खुदा का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सब परिरतों ने माना और आदम साहब का नमस्कार किया और शयतान ने न माना खुदा ने शयतान से पूछा कहा कि मैं ने उस को अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इस से सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इस लिये वह व्यापक वा सर्व शक्तिमान् कभी नहीं हो सकता और शयतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूँ इस पर खुदा ने गुम्सा क्यों किया ? क्या आसमान ही में खुदा का घर है ? पृथिवी में नहीं ? तो कावे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है इस से विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिश्त का जिम्मेदार था खुदा ने उस को लानत धिकार दिया और कैद कर लिया और शयतान ने कहा कि हे मालिक ! मुझ को कयामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से कयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब बहकाऊंगा और गदर मचाऊंगा तब खुदाने कहा कि जितने को तू बहकावेगा मैं उन को दो जख में डाल दूंगा और तुझ को भी । अब सज्जन लोगो ! विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा-

है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शयतान की जरूरत नहीं और जिस से इस शयतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया हम से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीर अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४-अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी मंडी में है उस की दिन कयामत के और आसमान लोपटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उस के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रखे जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पैगम्बरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा । मं ६ । सि० २४ । सू० ३६ । आ० ५४ । ६० । ७० ॥

समी०-यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानों सब संसार को पाषा बनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावेगा यदि किञ्चित् भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में छा जावे । क्या परमेश्वर अग्निवत् प्रकाश वाला है ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करता, दिलों पर ताला लगाता, और शिक्षा न करना, शयतान से बहकवाना, दौरा मृपुर्द रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥

१३५-उतारना किताब का अल्लाह गालिब जानने वाले की ओर से है ॥ क्षमा करने वाला पापों का और स्वीकार करने वाला तोबा का । मं० ६ । सि० २४ । सू० ४० । आ० १ । २ ।

समी०-यह बात इसलिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिल कर बिगड़सा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का क्षमा

करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५ ॥

१३६—बस नियत किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन के और डाल दिया बीच हम ने उस के काम उस का ॥ यहां तक कि जब जाँवगे उस के पास साक्षी देंगे ऊपर उन के कान उन के और आँखें उन की और चमड़े उन के उन के कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तू ने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया है हम को अल्लाह ने जिस ने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवरश्य जिलाने वाला है मुर्दों को ॥ सं० ६ । सि० २४ सू० ४१ आ० १२ । २० ! २१ । २२ ॥

सर्मात्क—वाह जी वाह मुसलमानो ! तुम्हारा खुदा जिस को तुम सर्वशक्तिमान मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान है वह क्षणमात्र में सब को बना सकता है । भला कान, आँख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी कैसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी दिजावें तो उपन ने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियम विरुद्ध क्यों किया ? एक इत्त से भी बढ़ कर मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साक्षी दी तब वे जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलीपि मैं क्या करूं भला यह कभी हो सकती है ? जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मैं ने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों ? जो बन्ध्या है तो उस के पुत्र ही होना असंभव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या आप भी मुर्दा हो सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समझता है ? और कयामत की रात तक मृतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? और खुदा ने बिना अपराध क्यों दौरा सुपूर्द रक्खा ? शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी ऐसी बातों से ईश्वरता में बड़ा लगता है ॥ १३६ ॥

१३७—वास्ते उस के कूजियां हैं आसमानों की और पृथिवी की खोलता है भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है । उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता जिस को चाहे बेटियां और देता है जिस को चाहे बेटे । वा मिला देता है उनको बेटे और बेटियाओं का देता है जिस को चाहे बांभ । और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उस से अल्लाह परन्तु जी में डाल ने कर वा पीछे परदे

\* के से वा भेजे फरिश्ते पैगाम लाने वाला ॥ म० ६ । सि० २५ मू० ४२ । आ० १० । ४७ । ४८ । ४९ ।

समी०—खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लडकपन की बात है क्या जिसको चाहता है उसको बिना पुरख कर्म के ऐश्वर्य्य देता और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्याय-कारी है अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मोहित हो के फसें यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरगे, मच्छी, मूअर आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ? और स्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांध रख के दुःख क्यों देना है ? ! वाह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डालके बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डांक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

१३८—और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ म० ६ । सि० २५ । मू० ४३ । आ० ६२ ॥

\* इस आयत के भाष्य "तफ़सीर हुसैनी" में लिखा है कि महम्मद साहब दो परदों में थे और खुदा की आवाज़ सुनी । एक परदा ज़री का था दूसरा श्वेत मोतियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ! बुद्धिमान् लोग इस बात को बिचारे कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करने वाली स्त्री ! इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुर्देशा कर डाली । कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रंथों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करने वाला खुदा । सच तो यह है कि अरब के अविद्वान् लोग थे उत्तम बात लाते किस के घर से ? ॥

समी०—यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अजील है इसलिये ये कितों ईश्वरकृत नहीं है ॥ १३० ॥

१३१—पकड़ो उसको बस घसीटो उस को बीचों बीच दोजन्म के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और बिआह देंगे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । म० ६ । सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ।

समी०—वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटवाता है जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ निर्बलों को पकड़ें घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३१ ॥

१४०—बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गर्दन उन की यहां तक कि जब चूर करदो उन को बस दड़ करो कैद करना ॥ और बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुम्हको मारा हमने उस को बस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तारीफ उस बहिरत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेज़गार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उन का और नहरें हैं शराब की मजा देने वाली पीने वालों को शहद साफ किये गये की और बास्ते उनके बांच उस के भेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के मे ॥ म० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४१ । १३ । १५ ॥

समी०—इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गदम मचाने. सब को दुःख देने और अपना मतबल साधने वाले दयाहीन हैं जैसा यहां लिखा है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और खुदा बड़ा पक्षपाती है कि जिन्हों ने महम्मद साहब को निकाल दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शुद्ध पानी, दूध मद्य और शहत की नहरें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है ? और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े समय में बिगड़ जाता है इसीलिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावेगा पृथिवी हिलाथे जान कर ॥ और उड़ाए जावेंगे

पहाड़ उढ़ाये जाने कर । बस हो जावेंगे भुजुमे टुकड़े २ । बस सहब दाहनी और वाले क्या हैं साहब दाहनी और के ४ और बाई और वाले क्या हैं बाई और के । ऊपर पलेन सोने के तारों से बुने हुये हैं । तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आमने सामने । और फिरगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने वाले । साथ आबखोरों के और आफलावों के । और प्यालों के शरब सफ से । नहीं माथा दुखाये जावेंगे उस से और न विरुद्ध कोलेंगे । और मेवे उस किस्म से कि पसंद करें (और गोश्त अन्नवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें) और वास्ते उन के औरतें हैं अच्छी आंखों वाली । मानन्द भोतियों छिपाये हुयों की । और बिजोने बड़े । निश्चय हमने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है । बस किया है हम ने उन को कुमारी । मुहास बलियां बरानर अक्सा बलियां । बस भरने वाले हो उस से पेटों को । बस कसम खाता हूँ मैं साथ गिरने तारों के । मं० ७ । सि० २७ । मू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । ९ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

समीक्षक—अब देखिये कुसन बनाने वाले की लीला को भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा देगा ? यदि भुजुमे हो जावेंगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों नहीं ? बाह जी जो खुदा शरीरधारी न होता तो उस के दाहिनी ओर और बाई ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वहां पलङ्ग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बड़ई सुनार भी वहां रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को अन्न पचन न होने से वे रोगी हो कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ! और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मजूदरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या है ? कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और सामू खशुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मल मूत्रादि के बढने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेवे खावेंगे गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उन का सिर दूखेगा और न कोई



विरुद्ध बोलेगा अथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ अहां कहां बिलर रहेंगे और कसबियों की दुकान भी होंगी । वह क्या कहना इन के बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बह कर दीखती है !!! और जो मद्य मांस पी खाके उन्मत्त होते हैं इसीलिये अच्छी २ स्त्रियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नरोबाजों के शिर में गरमी चढ़ के प्रमत्त हो जावें । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछीने बड़े २ चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमार लड़कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर मद्य है उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारीवत् दे दिवें जायेंगे इस की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ! यदि बराबर अवस्था वाली मुहागिन स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो मुसल्मानों के बहिश्त की कथा है । और नरक वाले सिहोड़ अर्थात् थोर के बूच्चों को खा के पेट भरेंगे तो कण्टक बूच्च भी दोजख में होंगे तो काटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेंगे इत्यादि दुःख दोजख में पावेंगे । कसम का खाना प्रायः भूठों का काम है सच्यों का नहीं यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी भूठ से अलग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

१४२— निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उस के के । मं० ७ । सि० २८ । सू० ५६ । आ० ४ ।

समी०—वाह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अर्बदेश वासियों को सब से लड़ाके शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजहब का भंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान् ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२ ॥

† १४३—ये नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए चाहता है तू प्रसन्नता नीबियों अपनी की और अल्लाह क्षमा करने वाला ब्यालु है । जल्दी है मालिक उस का जो वह तुम को छोड़ देते तो यह कि उस को तुम से अच्छी मुसल्मान और ईमान वालियां नीबियां बदल दे सेवा करने वालियां खोबाकर

मे बालिकां भक्ति करने बालिकां रोना इस्ने बालिकां पुत्र देवी हुई और विन देवी हुई ।  
 सं० ७ । श्लो० २८ । सू० ६६ । आ० १ । ५ ।

समीक्षा—ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहब के घर का भीखी और बाहरी प्रबंध करने वाला भृत्य ठहरा !। प्रथम आयत पर दो कहानियाँ हैं एक तो वह कि मुहम्मद साहब को शूद का शर्वत प्रिय था । उन की कई बीवियाँ थीं उन में से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असब प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहब सौगंद खागए कि हम न पीवेंगे । दूसरी यह कि उन की कई बीवियों में से एक की बारी थी उस के यहां रात्री को गए तो वह न भी अपने बाप के यहां गई थी । मुहम्मद साहब ने एक लौंडी अर्थात् दासी को बुला कर पवित्र किया । जब बीबी को इस की खबर मिली तो अपसन्न होगई तब मुहम्मद साहब ने सौगंद खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जा कहा । इस पर वह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है ? । बुद्धिमान् लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? । और मुहम्मद साहब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रखे वह ईश्वर का भक्त बा पैगम्बर कैसे हो सके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अग्रमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती हो कर अर्थात् क्यों नहीं और जो बहुतसी स्त्रियों से भी सनतुष्ट न होकर बावियों के साथ फंसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि—

कामानुराखां न भयं न लज्जा

जो कामी मनुष्य हैं उन को अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इनका खुदा भी मुहम्मद साहब की स्त्रियों और पैगम्बर के झगड़े का फैसला करने में जानोसरपण्य बना है अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि यह कुरान् विद्वान् वा ईश्वर कृत है वा किसी अभिद्वान् सततबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूसरी बात से प्रतीत होता है कि मुहम्मद साहब से उनकी कोई बीबी अपसन्न होगई होगी उस पर खुदा ने यह आकत उतारकर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और मुहम्मद साहब तुझे छोड़ देंगे तो उनका खुदा तुझसे अच्छी बीवियाँ देगा

कि जो पुरुष से न मिलीं हों। जिस मनुष्य की तनिक सी बुद्धि है वह बिचार सकता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तर्फ से महुम्मद साहब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा जानो महुम्मद साहब के लिये बीबियां लाने वाला नाई ठहरा ॥ १४३ ॥

१४४—ऐ नबी भगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उन के। मं० ७। सि० २८। सू० ६६। आ० ६।

समी०—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत्र वालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वर्ते ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा। और फरिस्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तल्ल मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन आठ जन। उस दिन सामने लाभे जाओगे तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई। बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के बस कहे गा लो पड़ी कर्म पत्र मेरा। और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बायें हाथ अपने के बस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७। मि० २६। मू० ६६। आ० १६। १७। १८। १९। २५ ॥

समी०—वाह क्या फिलासफी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है? क्या वह बस के समान है जो फट जावे? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो वह बात विषा से विरुद्ध है। अब कुरान का खुदा शरीर भारी हेजे में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तल्ल पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान् के कुछ भी नहीं हो सकता? और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान् ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान् है तो एक देशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों को कभी नहीं जान सकता यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के बाहने हाथ में पत्र देना, नचवाना, बहिस्त में भेजना और पापात्माओं के बायें हाथ में देना कर्मपत्र का

नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्वाय करना भला यह व्यवहार सर्वश का हो सक-  
ता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लडकेपन की है ॥ १४५ ॥

१४६-चढते हैं फरिश्ते और रूह तर्फ उसकी वह अज्ञात होगा बीच उस दिन  
के कि है ~~किसी~~ उसका ~~पचास~~ ~~हजार~~ ~~वर्ष~~। जब कि निकलेंगे कब्रों में से दौड़ते  
हुए मानों की वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं । मं० ७ । सि० २६ । सू०  
७० । आ० ४ । ४२ ॥

समी०-यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि  
क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता  
क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्म पत्र वाले खड़े वा बैठे अथवा जा-  
गते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जायं गे । क्या कब्रों  
से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उन के पास सम्मन कब्रों में क्यों  
कर पहुंचें गे ? और उन विचारों को जो कि पुगयात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक  
सभी को कब्रों में दौरे मुपुर्द कैद क्यों रक्खा ? और आज कल खुदा की कचहरी  
बंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ?  
अपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम  
करते होंगे ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों  
के दूसरा कौन मानेगा ॥ १४६ ॥

१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से । क्या नहीं देखा तुम ने  
कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले। और किया चांद को  
बीच उस के प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७१ ।  
आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं  
रह सकते ! फिर बहिश्त सदा क्यों कर रह सकें गे ! जो उत्पन्न होता है ! वह  
बस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है क्योंकि  
वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भी  
उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन  
सब के बीच में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर  
और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्धकार रहना चाहिये

ऐसा नहीं दीखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १२७ ॥

१४८—यह कि मसजिदें बास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समीक्षक यदि यह बात सत्य है तो मुसल्मान लोग “लाइलाहा इल्लिल्लाः महम्मदर्रसूलल्लाः” इस कलमे में खुदा के साथी महम्मद साहब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को झूट करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसल्मान महानुत्परास्त हुए क्यों कि जैसे पुरानी जैनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से कुत्तपस्त ठहरते हैं वे लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९—इन्द्रा किया जावे गा सूर्य और चांद । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७५ । आ० ६ ॥

समीक्षक—मला सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी बेसमझ की बात है और सूर्य चन्द्र हीके इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती है ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भी नहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०—और फिरेंगे ऊपर उन के लडके सदा रहने वाले जब देखेगा तू उन को अनुमान करेगा तू उन को मोती बिखरे हुए । और पहनाये जावेंगे कंगन चांदी के और पिलावेगा उन को रब उन का शराब पावित्र । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १६ । २१ ॥

समीक्षक—क्यों जी मोती के बर्ण से लडके किस लिये वहां रखे जाते हैं ; क्या जबान लोग सेवा वा स्त्री जन उन को तृप्त नहीं कर सकती ? क्या आश्चर्य है कि जो यह माह बुरा कर्म लडके के साथ दुष्ट जन करते हैं उस का मूल यही कुरान का बचन हो ? और बहिरत में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मद्य पि लावे गा तो वह भी उनका सेवकवत् ठहरेगा फिर खुदा की बदाई क्यों कर रह सकेगी ? और वहां बहिरत में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लडके बाले भी होंते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और बिना खुदा की सेवा के बहिरत में

क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को बिना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं बिचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्म के मुक्त मिल जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कौनसा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार । और प्याले हैं भरे हुए । जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बांध कर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ।

समीक्षक—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहने वाले हूँ फरिश्ते और मोती के सदृश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त मिला ? । जब प्याले भर २ शराब पीयेंगे तो मस्त हो कर क्यों न लड़ेंगे ? रूह नाम यहां एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है क्या खुदा रूह तथा अन्य फरिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधेगा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दिलावेगा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कयामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कं-टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे । और जब कि तारे गदले हो जावें । और जब कि पहाड़ चलाये जावें । और जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० १८ । आ० १ । २ । ३ । ११ ।

समीक्षक—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोल सूर्य लोक लपेटा जावेगा ? और तारे गदले क्यों कर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चलेंगे ? और आकाश को क्या पशु समझा कि उस की खाल निकाली जावे गी ? यह बड़ी ही बे समझ और जंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे । और जब तारे झड़ जावें । और जब दर्या चीरे जावें । और जब कब्रें जिला कर उठाई जावें । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ।

समी०—बाह जी कुरान के बनाने वाले फ़िलासफ़र आकाश को क्यों कर फाड़-सकेगा और तारों को कैसे छोड़ सकेगा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चीर डालेगा ? और कब्रें क्या मुर्दे हैं जो जिला सकेगा । ये सब बातें लड़कों के स-दृश हैं ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है आसमान बुजों वाले की। किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लौह महफूजे के। मं० ७। सि० ३०। सू० ८५। आ० १। २१।

समी०—इस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान बुजों वाला क्यों कहता। यदि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्मबुर्ज क्यों नहीं इसलिये ये बुर्ज नहीं है किन्तु सब तारे लोक हैं। क्या वह कुरान खुदा के पास है! यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर। और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर। मं० ७। सि० ३०। सू० ८६। आ० १५। १६।

समी०—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है! और क्या चोरी का जवाब चोरी और भूठ का जवाब भूठ है क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उस के घर में जाके चोरी करे वाह! वाह!! जी कुरान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आवेगा मालिक तेरा और फरिश्ते पंक्ति बांध के। और लाया जावेगा उस दिन दोज़ख को। मं० ७। सि० ३०। सू० ८६। आ० २१। २२।

समी०—कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को ले कर पंक्ति बांध फिरा करे वैसे ही इन का खुदा है? क्या दोज़ख को घड़ासा समझा है जिस को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैदी उस में कैसे समा सकेंगे? ॥ १५६ ॥

१५७—बस कहा था वास्ते उस के पैगंबर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी खुदा की को और पानी पिलाना उस के को। बस भूठलाया उस को बस पांव काटे उस के बस मरी डाली ऊपर उन के रब उन के ने। मं० ७। सि० ३०। सू० ८९। आ० १३। १४।

समी०—क्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के शैल किया करता है? नहीं तो किस लिये रक्सी और बिना कयामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कयामत की रात में न्याय और उस रात का होना भूठ समझा जाय गा? इस ऊंटनी के लेख में यह अनुमान होता है कि अरब

देश में ऊंट ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती है इस से सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥

१५८-वो जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे हम साथ वाला माथे के । वह माथा कि भूठा है और अपराधी । हम बुलावेंगे फरिश्ते दो जन्म के को । म० ७ । सि० । ३० । मू० ६६ । आ० । १५ । १६ । १८ ॥

समी०—इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला माथा भी कभी भूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? १५८ ॥

१५९—निश्चय उतारा हम ने कुरान को बीच रात कदर के । और क्या जाने तु क्या है रात कदर की । उतरते हैं फरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ आज्ञा मालिक अपने के वाम्ते हर काम के । म० ७ । सि० ३० । मू० ६७ । आ० । ११ । १४ ॥

समी०—यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी ? और रात्री अंधेरी है इस में क्या पूछना है हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहाँ लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदरी है अब तक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ? और धोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कसम खाता है कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करताहूँ कि यह पुस्तक कैसा है ? मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकता है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग धोखे में पड़ कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझ को ग्राह्य है वैसे अन्य भी मजहब के



हठ और पक्षपातरहित बुद्धिमानों को ग्राह्य है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अविद्या भ्रम जान और मनुष्य के आत्मा को पशुवत् बना कर शांति भंग करा के उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करने वाला विषय है । और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जाना भण्डार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रीति परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हों जैसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तों का दोष पक्षपात रहित ही कर प्रकाशित करता हूँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान् लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एक मत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा इस को बुद्धिमान् धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समझ लाभ लें यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लें ॥

अब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा छुपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अथर्ववेद में इस बातका नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुम ने मय अथर्ववेद देखा है ? यदि देखा है तो अल्लोपनिषद् देखा यह साक्षात् उस में लिखी है फिर क्यों कहते हो कि अथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं ॥

### अथाऽल्लोपनिषदं व्याख्यास्यामः ।

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते । इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्हृदुः । हया मित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होवारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अल्लोज्येष्ठं अष्टं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥ २ ॥ अल्लारसूल महामदरकबरस्य अल्लां अल्लाम् ॥ ३ ॥ (आदल्लावृकमेककम्) (अल्लावुक निग्वातकम्) ॥ ४ ॥ अल्लां यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अल्लासूर्य चन्द्र सर्व नक्षत्राः ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सर्व दिव्यां इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिचाः ॥ ६ ॥ अल्लः पृथिव्या अन्तरिचं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्लां कबर इल्लां कबर इल्लां इल्लल्ले

ति इल्लल्लाः ॥८॥ आंम अल्लाइल्लल्ला अनादिस्वरूपाय अथ  
वर्णाशयामा हुं हीं जनानपशुनसिदान जलचरान् अष्टष्टं कुरु कुरु  
फट ॥ ६ ॥ (असुर संहारिणी हुं हीं अल्लोरमूल महमदरकवरस्य  
अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लाः) ॥ १० ॥

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता ॥

जो इस में प्रत्यक्ष महम्मद साहब रमूल लिखा है इस से सिद्ध होता है कि मुस-  
लमानों का मत वेदमूलक है ॥ ( उत्तर ) यदि तुम ने अथर्ववेद न देखा हो तो ह-  
मारे पास आओ आदि से पूर्ण तक देखो अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास वीस  
काण्डयुक्त मन्त्रमहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत  
का निशान न देखोगे और जो यह अन्तोपनिषद् है वह न अथर्ववेद में न उम के  
गोपथब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो यह अकवरशाह के समय में अनुमान है कि  
किसी ने बनाई है इस का बनाने वाला कुट्ट अर्वा और कुट्ट संस्कृत भी पढ़ा हुआ दी-  
खता है क्योंकि इस में अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखो ( अस्मा-  
ल्ला इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि शक्त ) इत्यादि में जो कि दश अक्ष में लिखा है जैसे  
इस में ( अस्मानां और इल्ले ) अर्वा और ( मित्रा वरुणा दिव्यानि शक्त ) यह संस्कृत  
पद लिखे हैं वैसी ही सर्वत्र देवनों में आने से किसी संस्कृत और अर्वा के पद हुए ने  
बनाई है यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण  
रिति से विरुद्ध है जैसी यह उपनिषद् बनाई है वैसी बहुत सी उपनिषदें मतमतान्तर  
वाले पक्षपातियों ने बना ली हैं । ( पक्ष ) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब  
तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें ? ( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से ह-  
मारी बात झूठ नहीं हो सकती है जिस प्रकार से मैंने इस को अयुक्त ठहराई है उसी  
प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इसकी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में  
जैसा लेख दिखलाओ और अर्थसंगति से भी शुद्ध करो तब तो मप्रमाण हो सकती  
है । ( पक्ष ) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और  
अन्त में मुक्ति होती है । ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ मत वाले सब कहते हैं कि ह-  
मारा ही मत अच्छा है बाकी सब चुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो

सकती अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उन की ? हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं और बाकी वाद; ईर्ष्या द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो ॥

इस के आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे  
सुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुर्दशः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ १४ ॥

## स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ॥

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा से सब मानते आये मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिस को अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते किन्तु जिस को आस अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सब को मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादिसत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिपर्यन्तों के माने हुए ईश्वररचित पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूँ सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ मैं अपना मन्तव्य उस को जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा नवीन कल्पना वा मतमत्तान्तर चलाने का लेशमात्र अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना मनवाना और जो असत्य है उस को छोड़ना और छोड़वाना मुझ को अभीष्ट है यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो २ आर्यावर्त वा अन्यदेशों में धर्मयुक्त चाल चलन हैं उन का स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहिः है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर स्वात्मवत् अन्यो के मुख

दुःख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महाअनाथ निर्बल गुण रहित क्यों न हों उन की रक्षा, उन्नति प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उस का नाश, अवन्ति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उन को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराजा भर्तृहरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूं:—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथःप्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥ भर्तृहरिः

न जातु कामान्न भयाच्च लाभार्

धर्मं त्यजज्जीवितस्थापि हेतोः ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥२॥ महाभारतं ।

एक एव सुहृदमो निधनेप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यदि गच्छति ॥३॥ मनुः ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततां देवयानः ।

धेनाक्रमन्त्यृषवो ह्याप्तकामा यत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ४ ॥

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि०

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहां करता हूँ कि जिन का विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इन में से:—

१—प्रथम “ईश्वर” कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दमदि-

लक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्म स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दबालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ॥

२—चारों “वेदों” ( विद्याधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निर्भ्रान्त स्वतःप्रमाण मानता हूँ वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ ( ग्यारह सौ सत्ताईस ) वेदों की रसखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ हैं उन को परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेदाविरुद्ध बचन हैं उन का अप्रमाण करता हूँ ॥

३—जो पक्षपात रहित, न्यायाचारण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अवि-रुद्ध है उस को “धर्म” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञा वेदविरुद्ध है उस को “अधर्म” मानता हूँ ।

४—जो, इच्छा द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को “जीव” मानता हूँ ।

५—जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और सा धर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था न है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बंध युक्त मानता हूँ ।

६—“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुणकर्म स्व-भाव भी नित्य हैं ।

७—“प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परंतु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ ।

८-“सृष्टि उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो कर नत्ना रूप बनना ।

९-“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म भाव का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं । उस ने कहा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०-“सृष्टि सकर्तृक” है इस का कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर हैं क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य वीजदिस्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्ता अवश्य है ।

११-“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात् अबिद्या निमित्त से है जो २ पाप कर्म ईश्वरभिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह “बंध” है कि जिस की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ।

१२-“मुक्ति” अर्थात् सब दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वच्छा से विचरना निर्यत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ।

१३-“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का सङ्ग, सत्यविद्या सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं ।

१४-“अर्थ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ।

१५-“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ।

१६-“वर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता है !

१७-“राजा”उसी को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान् पद्मपात-रहित न्यायधर्म का सेवी प्रजाओं में पितृवत् वर्त्ते और उन को पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ।

१८-प्रजा,, उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव को धारण करके पद्मपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज विद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्ते ।

१९- जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायका-

रियों को हटाने और न्यायकारियों को बढ़ाने अपने आत्म के समान सब का मुख बोहे सो "न्यायकारी" है उस को मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—"देव" विद्वानों को और अविद्वानों को "अमुर" पापियों को "राक्षस" अन्यायकारियों को "विशक्ति" मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य्य अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना "देवपूजा" कहलती है इस विपरीत अदेव पूजा इन को मूर्तियों को पूज्य और इतर पावाणादि जड़ मूर्तियों को या अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—"शिक्षा" जिस से विद्या सम्यता, धर्मात्मता जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उस को शिक्षा कहते हैं ॥

२३—"पुराण" जो असावि के ब्रह्मणे केतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—"तीर्थ" जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उसी को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलानि को नहीं ॥

२५—"पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा" इसलिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६—"मनुष्य" को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् मुख, दुःख, हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ ॥

२७—"संस्कार" उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम हो-वें वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न कराना चाहिये ॥

२८—"यज्ञ" उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषधी की पवित्रता करके सब जीवों को मुख प-हुचाना है, उस को उत्तम समझता हूँ ॥



२२—जैसे “आर्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूँ ॥

२०—“आर्यावर्त” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इस में आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना देश है उस को “आर्यावर्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्य कहते हैं ॥

२१—जो साजोपाज वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचार्य” कहाता है ॥

२२—“शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करके योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है ॥

२३—“गुरु” माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावें और असत्य को छोड़ें वह भी “गुरु” कहाता है ॥

२४—“पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

२५—“उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अक्षों को पढ़ाता हो ॥

२६—“शिष्टाचार” जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

२७—प्रत्यक्षादि “आठ प्रमाणों” को भी मानता हूँ ॥

२८—“आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “आप्त” कहाता हूँ ॥

२९—“परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तीसरी सृष्टिक्रम चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें श्रेष्ठाचार और सुख बँधें उस के करने को परोपकार कहाता हूँ ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में

ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र जैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२-“स्वर्ग” नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३-“नरक” जो दुःख विशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४-“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूँ ॥

४५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को मृत्यु कहते हैं ॥

४६-“विवाह” जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण कर-  
वह “विवाह” कहाता है

४७-“नियोग” विवाह के पश्चात पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुं-  
कत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ-  
स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८-“स्तुति” गुणकीर्तन श्रवण और ज्ञान होना इसका फल प्रीति आदि हो-  
ते हैं ॥

४९-“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान  
आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान  
आदि होता है ॥

५०-“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना ईश्वर  
को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर  
है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहती है इसका फल ज्ञान  
की उन्नति आदि है ॥

५१-“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना” जो २-गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त  
और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक मन कर प्रसन्न करना सगुणनिर्गुण स्तुति  
शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना  
सगुणनिर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से रहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान  
कर अपने अस्म को उस के और उस की आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणो-  
पासना कहती है ॥

ये संक्षेप से त्वासिद्धान्त दिखला दिये हैं इन की विशेष व्याख्या इसी "सत्त्वार्थ" प्रकाश के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखा है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात् जैसे सब बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगडे हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं इस बात को फाट सब सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा देष छुड़ा परस्पर में दृढ प्रीतियुक्त करा के सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आस जाकी सहानुभूति से "यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे" जिस से लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्ध करके सदा उन्नत और आनन्दित हो रहे यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ग्रन्थेषु ॥

ओम् शान्तो मिवः शं बह्वः । शान्तो भवत्वर्थमां ॥ शान्त  
इन्द्रो बृहस्पतिः । शान्तो विष्णुरुक्मः ॥ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते  
वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माभि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् ।  
ऋतमवादिषम् । मृत्यमवादिषम् । तन्मामाधीत् । तदङ्कारमाधीत् ।  
अधीन्माम् । आधीङ्कारम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां

श्रीचिरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्री म-

हयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वम-

न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसम्बन्धितः सुप्र-

माख्युक्तः सुभाषाविभूषितः

सत्त्वार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थः

सम्पूर्णमगमन्

